



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6—अगस्त 12, 2005 (श्रावण 15, 1927)  
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6—AUGUST 12, 2005 (SRAVANA 15, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 4

#### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मु. प्र. अ. का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2005

सं. 382, दिनांक 6 जुलाई 2005.--महामहिम राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (ग्रुप बी राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में उनके नाम के सामने लिखी तिथि से अनुभाग अधिकारी (ग्रुप बी राजपत्रित) के पद पर स्थाई रूप में नियुक्त करते हैं :--

नाम, जन्म तिथि, वर्तमान कार्यालय, स्थाई नियुक्ति की तिथि

सर्वश्री

बी एम नागाराजू, 05 अप्रैल 1968, वायु सेना मुख्यालय, 05 फरवरी 2005

अनिल कुमार साह, 05 अगस्त 1971, मास्टर आयुध शाखा, 19 दिसम्बर 2004

एल बालाजी सरवनन्, 02 जून 1974, पीटीसी (कलपयकम्), 01 नवम्बर 2004

डॉ. एस के सक्सेना, 06 मार्च 1978, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, 15 जनवरी 2005

टी उन्निल किचू ए ओ, 21 जनवरी 1977, जनरल स्टाफ शाखा, 18 दिसम्बर 2004

विकास कुमार जैफ, 22 मई 1978, वायु सेना मुख्यालय, 28 फरवरी 2005

वी के मिश्रा

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

सेना शाखा

सं. 383, दिनांक 12 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित जे. सी. ओज/एन. सी. ओज को सेना अनुदेश 85/74 के अन्तर्गत 03 जुलाई 2004 से लेफ्टिनेंट के पद पर संलिखित श्रेणी व निम्नलिखित वरीयता के क्रम में स्थायी आयोग (विशेष सूची) में अनुदान प्रदान किया जाता है, उन सभी जे.सी. ओज को जिनकी जे.सी.ओ. और अन्य पद में कुल मिलाकर आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा है, और जो इस

अधिसूचना में सम्मिलित हैं, उन्हें सेना अनुदेश 85/74 के सब पैरा 7(सी) के अन्तर्गत केवल वेतन के लिये दो साल की बरीयता दी जाती है :-

सेना नं., पद, नाम, एस एल नं. (पेछली आर्म/सर्विस, श्रेणी

जेसी-177193ए, सू. मेजर, आर सेन्मोटूवेल, 4773एक्स, इंजीनियर्स, ए ई ई/बी/आर/ए एस डब्ल्यू

जेसी-186178एम, सू. प्रमोद पी आर, 4774ए, इंजीनियर्स, ए ई ई/एम/आई ई एम

जेसी-207603एच, सू. बी जयशंकरन, 4775एच, इंजीनियर्स, ए ई ई/बी/आर/ए एस डब्ल्यू

जेसी-199928वाई, सू. गुरसेवक सिंह, 4776एल, इंजीनियर्स, ए ई ई/बी/आर/ए एस डब्ल्यू

जेसी-199980एफ, सू. भोसले शशिकांत कुंडलिक, 4777एन, इंजीनियर्स, ए ई ई/बी/आर/ए एस डब्ल्यू

जेसी-305550एल, सू. बिजु एस, 4778डब्ल्यू, इंजीनियर्स ए ई ई/बी/आर/ए एस डब्ल्यू

जेसी-207626के, सू. जयदीप कुमार रावत, 4779वाई, इंजीनियर्स ए ई ई/बी/आर/ए एस डब्ल्यू

जेसी-834095डब्ल्यू, सू. किर्तन सिंह, 4780एन, ए वी एस आर ओ

जेसी-325683एच, सू. संजीव कुमार, 4781डब्ल्यू, इंजीनियर्स, ए ई ई/एम/आई ई एम

जेसी-810365के, ना. सू. भारत भूषण चौहान, 4782वाई, आई एन बी आर ओ

जेसी-372156एम, ना. सू. मदन गोपाल कुमावत, 4783एफ, सिग्नल्स, टी ओ टी

जेसी-829197एल, ना. सू. अजय कुमार कर्ण, 4784के, पायनियर, आर ओ

जेसी-372645एक्स, ना. सू. थामस पी के, 4785एम, सिग्नल्स, टी ओ टी

जेसी-373418के, ना. सू. पोल वरुगिस, 4786पी, सिग्नल्स, टी ओ टी

जेसी-374438के, ना. सू. डी राजेश, 4787एक्स, सिग्नल्स, टी ओ टी

जेसी-756576डब्ल्यू, ना. सू. विक्रमगायकवाड, 4788ए, ईएमई, ई एम ए ई

जेसी-265221के, ना. सू. हंस राज, 4789एच, आर्टी, टी ई ओ (आर्टी)

जेसी-330178के, ना. सू. महादेव लक्ष्मण काटेकर, 4790एक्स, इंजीनियर्स ए ई ई/एम/आईएम

जेसी-1576783डब्ल्यू, ना. सू. गुरदेव सिंह, 4791ए, इंजीनियर्स, ए ई ई/बी/आर/ए एस डब्ल्यू

जेसी-643121एम, ना. सू. अनिल कुमार, 4792ए, आर ओ

जेसी-14396595एम, हवलदार, आफताब अहमद, 4793एल, आर्टी, आर ओ

जेसी-15357854के, हवलदार, के उपेन्द्र वर्मा, 4794एन, सिग्नल्स, सायफर आफिसर

जेसी-8030431वाई, हवलदार, गोविन्दन कुट्टी नायर, 4795डब्ल्यू, पायनियर, आर ओ

जेसी-6927446ए, हवलदार, ईश्वर सिंह, 4796वाई, ए ओ सी, आर ओ

जेसी-6924396पी, हवलदार, जी वेद्रीवेल, 4797एफ ए ओ सी, आई सी ओ

जेसी-14380228डब्ल्यू, हवलदार, अर्जुन सिंह, 4798के, एएससी, आर ओ

जेसी-6387172एम, हवलदार, श्री कुमार वी आर, 4799एम, एएससी, आर ओ

जेसी-13973552एम, हवलदार, एम मनीवन्नन, 4800डब्ल्यू, एएससी, आर ओ

जेसी-6933446डब्ल्यू, हवलदार, हरिकुमार पी वी, 4802एफ, एएससी, आर ओ

जेसी-6382807डब्ल्यू, हवलदार, हरिदासन इडालत, 4803के, एएससी, आर ओ

जेसी-2987770डब्ल्यू, हवलदार, हरजिन्दर सिंह, 4804एम, राजपूत, आर ओ

जेसी-14589755एच, हवलदार, जोणि पी के, 4805पी, ईएमई, आर ओ

जेसी-6387392डब्ल्यू, हवलदार, अजीता बी के, 4806एक्स, एएससी, आर ओ

जेसी-1089798पी, हवलदार, जितेन्द्र सिंह, 4807ए, आर्म्ड, आर ओ

जेसी-6929396वाई, हवलदार, पाटिल राजकुमार दत्ताराम, 4808एच, ए ओ सी, आई सी ओ

जेसी-6929402ए, हवलदार, राधाकृष्ण पिल्लै के वी, 4809एल, ए ओ सी, आई सी ओ

जेसी-14559289के, हवलदार, सुकुमारन पी, 4810ए, ईएमई, आर ओ

जेसी-6387563एक्स, हवलदार, प्रदीप कुमार, 4811एच, एएससी, आर ओ

जेसी-15309973एच, हवलदार, के उन्निकृष्णन, 4817के, इंजीनियर्स (एरॉनॉटिकल), आर ओ

जेसी-6388873पी, हवलदार, घोली अब्राहम, 4812एल, एएससी,

जेसी-15309303एफ, हवलदार, कार्लटन डानियल, 4813एन, इंजीनियर्स (एमईजी), बी एस टी ई ओ

जेसी-6389454के, हवलदार, प्रीतिपाल सिंह रावत, 4814डब्ल्यू, एएससी, आर ओ

जेसी-13693244पी, हवलदार, धीरेन्द्र कुमार सिंह, 4815वाई, गार्ड्स, आर ओ

जेसी-6934691एल, हवलदार, दीपक शर्मा, 4816एफ, एओसी, आर ओ

जेसी-1572431एफ, नायक, विजय कुमार अत्री, 4818एम, इंजीनियर्स (बीईजी), ए ई ई ई/एम/आई ई एम

जेसी-6391200एल, नायक, राकेश कुमार, 4819पी, एएससी, आर ओ

#### विशेष आयोग

(ले. के पद पर 10 दिसम्बर 2004 से)

निम्नलिखित एन सी ओज को सेना अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत संलिखित सेना सेवा में दिनांक 10 दिसम्बर 2004 से लेफ्टि. के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :-

आई एम ए नम्बर, सैन्य संख्या, पैतृक आर्म्स/सर्विस, नाम, एससी नम्बर, आर्वाटि सर्विस/आर्म्स

एस/522, 13618590के, इन्फैन्ट्री, दुर्गा छेत्री, एससी-00467एल, इन्फैन्ट्री

एस/525, 2683054एफ, इन्फैन्ट्री, सुनील दत्त यादव, एससी-00468एम, ए ओ सी

एस/511, 9512625एक्स, आईसी, राजेन्द्र सैनी, एससी-00469डब्ल्यू, आर्टी

एस/534, 9512468डब्ल्यू, इंजीनियर्स, राजेन्द्र सिंह रावत, एससी-00470एल, ईएमई

एस/529, 15381808एन, सिग्नल्स, दिनेश कुमार जायसवाल, एससी-00471एन, सिग्नल्स

एस/524, 9512141एक्स, आईसी, श्री कुमारन पिल्लै बी, एससी-00472डब्ल्यू, एडी आर्टी

एस/521, 14614518एम, ईएमई, रणधीर सतीश कुमार देवराम, एससी-00473वाई, मेल्

एस/533, 15376085ए, आईएलटी, राजेश्वर जायसवाल, एससी-00474एफ, सिग्नल्स

एस/532, 9512436एल, इंजीनियर्स, भूपेन्द्र सिंह, एससी-00475के, इंजीनियर्स

एस/531, 15376194एम, सिग्नल्स, देवी प्रसाद एस एम, एससी-00476एम, एसी

एस/528, 15374820एम, सिग्नल्स, अनिल कुमार पी, एससी-00477पी, आर्टी

एस/530, 9512155एक्स, इंजीनियर्स, परमनन्द शर्मा, एससी-00478एक्स, इंजीनियर्स

एस/527, 15370860डब्ल्यू, सिग्नल्स, एल देसिंह, एससी-00479ए, आर्टी

एस/512, 14403858एल, आर्टी, रमेश कुमार, एससी-00480पी, आर्टी

एस/523, 14604472एफ, ईएमई, वनमाला कृष्णा, एससी-00481एक्स, ईएमई

एस/526, 6387341एच, एएससी, मधुसूधन के, एससी-00482ए, एएससी

एस के शर्मा  
ले. कर्नल  
सह सेना सचिव/एस एस 8बी

#### सेना सचिव शाखा

सं. 384, दिनांक 11 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति सहर्ष जनरल जे. बी. सिंह, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी (आई सी-16078) को 01 फरवरी 2005 (पूर्वाह्न) से 61 कवलरी के कर्नल, ब्रिगेड्स ऑफ गाइड्स के ऑनररी कर्नल और राष्ट्रीय राईफल्स के ऑनररी कर्नल के पद में नियुक्त करते हैं।

एन. मारियप्पन  
संयुक्त निदेशक/एम एस (X)

#### सेना शाखा (नियमित सेना)

#### सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

सं. 385, दिनांक 6 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

#### पक्के रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

नायब रिसालदार जग राम (जेसी-680454डब्ल्यू), 20 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2004 \*

नायब रिसालदार कृष्णा प्रसाद सिंह (जेसी-680516एल), 01 मई 2005/01 मार्च 2004 \*

नायब रिसालदार सी एस मूर्ति (जेसी-680543पी), 09 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

नायब रिसालदार राम निवास यादव (जेसी-680551एन), 04 मई 2005/01 जनवरी 2005 \*

नायब रिसालदार पारस नाथ यादव (जेसी-680564एल), 01 अप्रैल 2005

नायब रिसालदार शिव मूरत (जेसी-680566डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब रिसालदार एस के मिश्रा (जेसी-680570वाई), 02 मई 2005/01 मई 2005 \*

नायब रिसालदार चिरंजी लाल (जेसी-680571एफ), 02 मई 2005/01 मई 2005 \*

नायब रिसालदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-680572के), 02 मई 2005/01 मई 2005 \*

नायब रिसालदार कुटियन टी (जेसी-680573एम), 01 मई 2005

\*(वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाती है।)

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच/ए टी)

दफादार गीतम सिंह (सं. 6471441वाई अब जेसी-680764एफ), 05 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005 \*

दफादार ए बी खेत (सं. 6472190एम अब जेसी-680768एक्स), 01 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005 \*

दफादार उमा शंकर (सं. 6471944के अब जेसी-680769ए), 12 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005 \*

दफादार नन्दजी तिवारी (सं. 6470787डब्ल्यू अब जेसी-680770पी), 01 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005 \*

दफादार थोमस एम एस (सं. 6470826के अब जेसी-680771एक्स), 19 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 \*

दफादार शिव शंकर प्रसाद (सं. 6471684के अब जेसी-680775एन), 04 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 \*

दफादार जगत सिंह (सं. 6471734के अब जेसी-680776डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 \*

दफादार सोबरन सिंह (सं. 6471709एन अब जेसी-680777वाई), 23 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

\*(वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाती है।)

(यान्त्रिक परिवहन और पूर्ति)

नायब सूबेदार (एम टी)

हवलदार मेरी लाल (सं. 13878289के अब जेसी-662875डब्ल्यू), 16 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अमिल कुमार त्यागी (सं. 13879255ए अब जेसी-662876वाई), 16 अगस्त 2004 \*

हवलदार पलटन सिंह (सं. 13878149पी अब जेसी-662877एफ), 03 अगस्त 2004 \*

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 13874942एम अब जेसी-662878के), 12 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सतवीर सिंह (सं. 13878336के अब जेसी-662879एम), 01 जून 2004

हवलदार ओम प्रताप सिंह रावत (सं. 13876950के अब जेसी-662880एफ), 27 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 14 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम मेहर (सं. 13882428एक्स अब जेसी-662881के), 14 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश एम (सं. 14814934ए अब जेसी-662882एम), 06 सितम्बर 2004 \*

हवलदार कृष्ण पाल शर्मा (सं. 13879254एक्स अब जेसी-662883पी), 28 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बालेश्वर यादव (सं. 13864459पी अब जेसी-662884एक्स), 01 अगस्त 2004

हवलदार रामा नन्द पान्डेय (सं. 13874923एफ अब जेसी-662885ए), 23 अगस्त 2004 \*

हवलदार मन्जुर अंसारी (सं. 13875854एच अब जेसी-662886एच), 16 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कराकर मनसुख प्रेमजी (सं. 13881131के अब जेसी-662887एल), 01 अगस्त 2004

हवलदार बजरंग बली (सं. 13881141एन अब जेसी-662888एन), 14 सितम्बर 2004 \*

हवलदार प्रताप कुमार दत्ता (सं. 13877661एफ अब जेसी-662889डब्ल्यू), 04 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार प्रसान्ता कुमार तालुकदार (सं. 13882781के अब जेसी-662890एल), 22 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार प्रमोद किशोर नायक (सं. 13878712एक्स अब जेसी-662891एन), 01 अगस्त 2004

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13878906पी अब जेसी-662892डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

हवलदार अरुण कुमार अवस्थी (सं. 13881406एम अब जेसी-662893वाई), 01 अगस्त 2004

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 13878081के अब जेसी-662894एफ), 01 सितम्बर 2004

हवलदार मदन चौबे (सं. 13880698एन अब जेसी-662895के), 15 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार मेम्बर खान (सं. 13882487के अब जेसी-662896एम), 15 सितम्बर 2004

हवलदार हीरा प्रसाद राय (सं. 13877772के अब जेसी-662897पी), 29 सितम्बर 2004 \*

हवलदार मो. नविउल इस्लाम (सं. 13865545एम अब जेसी-662898एक्स), 25 सितम्बर 2004 \*

हवलदार राम चन्द्र सिंह चौहान (सं. 13877155डब्ल्यू अब जेसी-662899ए), 11 सितम्बर 2004 \*

हवलदार रामाधार दास (सं. 13880421पी अब जेसी-662900के), 17 सितम्बर 2004 \*

हवलदार जीसी बरुहा (सं. 13880643के अब जेसी-662901एम), 16 सितम्बर 2004 \*

हवलदार चन्द्र प्रकाश पान्डेय (सं. 13879360डब्ल्यू अब जेसी-662902पी), 01 सितम्बर 2004 \*

हवलदार राजेश्वर शर्मा (सं. 13882996एल अब जेसी-662903एक्स), 22 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश पान्डेय (सं. 13879404एच अब जेसी-662904ए), 01 सितम्बर 2004

हवलदार तारा चन्द (सं. 13879437एन अब जेसी-662905एच), 16 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम भद्र पान्डेय (सं. 13884113एम अब जेसी-662969एन), 29 नवम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रिज कुमार मिश्रा (सं. 13882124ए अब जेसी-662934एक्स), 29 अक्टूबर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अम्बा दत्त (सं. 13865028पी अब जेसी-662935ए), 12 नवम्बर 2004 \*

हवलदार दुलाल चन्द्र बर्मन (सं. 13875597डब्ल्यू अब जेसी-662936एच), 09 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार तपन कुमार बेरा (सं. 13882694डब्ल्यू अब जेसी-662937एल), 16 अक्टूबर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम अवतार (सं. 13876978ए अब जेसी-662938एन), 01 अगस्त 2004

हवलदार शाजी कुमार के बी (सं. 13882559एच अब जेसी-662939डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार दया शंकर सिंह (सं. 13877242के अब जेसी-662940एल), 22 सितम्बर 2004 \*

हवलदार रबिन्द्रन पिल्लै आर (सं. 13883036एम अब जेसी-662941एन), 01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार राम सिंह (सं. 13879413के अब जेसी-662942डब्ल्यू), 04 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रामेश्वर सिंह (सं. 13864696वाई अब जेसी-662943वाई), 28 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार विजोय कुमार दास (सं. 13864901पी अब जेसी-662944एफ), 28 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार आसिफ अली (सं. 14814928एम अब जेसी-662945के), 25 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 26 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अजब सिंह (सं. 13880671डब्ल्यू अब जेसी-662946एम), 22 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार राजेश कुमार शुक्ला (सं. 13881413एच अब जेसी-662947पी), 27 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार जगदम्बा सिंह (सं. 13881840वाई अब जेसी-662948एक्स), 24 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार विजय बहादुर (सं. 13877925एम अब जेसी-662949ए), 31 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार जीयन लाल (सं. 13882190के अब जेसी-662950पी), 25 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार राजेश चन्द्र (सं. 13865245एल अब जेसी-662951एक्स), 17 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार उमेश वोरा (सं. 13883046ए अब जेसी-662952ए),  
29 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार भगवान सिंह (सं. 13883130एन अब जेसी-662953एच),  
28 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रविन्द्र पान्डेय (सं. 13883226एच अब जेसी-662954एल),  
01 नवम्बर 2004

हवलदार परशु राम त्रिपाठी (सं. 13883222एम अब जेसी-662955एन),  
25 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार अवतार सिंह (सं. 13879756ए अब जेसी-662956डब्ल्यू),  
03 जनवरी 2005 \*

हवलदार तिमकारे महेन्द्र विथोवा (सं. 13879783के अब  
जेसी-662957वाई), 21 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार नरायण सिंह (सं. 13879807एच अब जेसी-662958एफ),  
27 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार ब्रिजपाल सिंह (सं. 13883529एक्स अब जेसी-662959के),  
23 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार शौख अरीफ बाशा (सं. 13879815एफ अब  
जेसी-662960वाई), 23 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार बाबू लाल साह (सं. 13883512के अब जेसी-662961एफ),  
22 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार ओम प्रकाश राम (सं. 13883433ए अब जेसी-662962के),  
28 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार निर्मल कुमार राम (सं. 13883550ए अब जेसी-662963एम),  
25 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार प्रेमा राजन सी सौ (सं. 13883620एन अब जेसी-662964के),  
23 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार मेघनाद साहा (सं. 13884062के अब जेसी-662965एक्स),  
24 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार सुरेन्द्र सिंह यादव (सं. 13884194एक्स अब  
जेसी-662966ए), 10 जनवरी 2005 \*

हवलदार लाल मन (सं. 13884145पी अब जेसी-662967एच),  
07 जनवरी 2005 \*

हवलदार अवधेश नारायण पाठक (सं. 13883451एक्स अब  
जेसी-662968एल), 21 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार शंकर दयाल यादव (सं. 13883843एल अब  
जेसी-662970एच), 23 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार तेज सिंह (सं. 13883922ए अब जेसी-662971एल),  
22 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार देव लाल (सं. 13883935एक्स अब जेसी-662972एन),  
30 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम प्रताप चौहान (सं. 13883956एन अब  
जेसी-662973डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार नानी गोपाल कर (सं. 13884326वाई अब  
जेसी-662974वाई), 01 जनवरी 2005 \*

हवलदार विजय सिंह (सं. 13883977के अब जेसी-662975एफ),  
01 जनवरी 2005 \*

हवलदार पदम सिंह (सं. 13883987एन अब जेसी-662976के),  
25 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार महेन्द्र लाल (सं. 13884413एन अब जेसी-662977एम),  
01 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार अनिल कुमार पान्डेय (सं. 13884408 एच अब  
जेसी-662978पी), 22 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 13888029के अब जेसी-662979एक्स),  
27 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13884507एल अब जेसी-662980एम),  
21 जनवरी 2005 \*

हवलदार कालन्दी चरन दास (सं. 13888066एक्स अब  
जेसी-662981पी), 19 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश कुमार झा (सं. 13884888एक्स अब  
जेसी-662982एक्स), 01 जनवरी 2005

हवलदार राजू गणेश मिश्रम (सं. 13888492एल अब जेसी-662983ए),  
22 जनवरी 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार निगथोजम इंगोचा सिंह (सं. 14814936एल अब  
जेसी-663101ए), 07 फरवरी 2005 \*

हवलदार बालेन्द्र (सं. 13883051वाई अब जेसी-663102एच),  
29 दिसम्बर 2004 \*

हवलदार विनोद कुमार दोदियाल (सं. 13883062के अब  
जेसी-663103एल), 09 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार बाके लाल (सं. 13879562एक्स अब जेसी-663104एन),  
12 मार्च 2005\*

हवलदार आशुतोष गांगुली (सं. 13882147एफ अब  
जेसी-663105डब्ल्यू), 11 फरवरी 2005\*

हवलदार राम देव (सं. 13883511एफ अब जेसी-663106वाई), 14  
फरवरी 2005\*

हवलदार रुकम पाल सिंह (सं. 13883933एम अब जेसी-663108एफ),  
04 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कामेश्वर सिंह (सं. 13888756एफ अब जेसी-663109के),  
01 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शोबरन सिंह (सं. 13884508एन अब जेसी-663110एफ),  
01 दिसम्बर 2004

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13888057डब्ल्यू अब जेसी-663111के),  
28 जनवरी 2005\*

हवलदार राम शबद (सं. 13888094के अब जेसी-663112एम),  
02 मार्च 2005\*

हवलदार सुनील दत्त (सं. 13888151ए अब जेसी-663113पी), 28  
जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार महेश चन्द्र उपाध्याय (सं. 13884578एम अब  
जेसी-663114एक्स), 20 जनवरी 2005\*

हवलदार माधो सिंह (सं. 13888164एक्स अब जेसी-663115ए),  
04 फरवरी 2005\*

हवलदार शिव शंकर शाह (सं. 13884542एन अब जेसी-663116एच),  
27 जनवरी 2005\*

हवलदार सतीश कुमार (सं. 13884540ए अब जेसी-663117एल),  
29 जनवरी 2005\*

हवलदार राम गोविन्द सिंह (सं. 13884607डब्ल्यू अब  
जेसी-663118एन), 03 फरवरी 2005\*

हवलदार आर टीका राम शंकर (सं. 13884635एच अब  
जेसी-663119डब्ल्यू), 28 जनवरी 2005\*

हवलदार सुशील कुमार (सं. 13883343एक्स अब जेसी-663120एल),  
27 जनवरी 2005\*

हवलदार सुबे सिंह (सं. 13884795एच अब जेसी-663121एन),  
28 जनवरी 2005\*

हवलदार निवास सिंह (सं. 13884869एम अब जेसी-663122डब्ल्यू),  
12 फरवरी 2005\*

हवलदार शिव कुमार सिंह (सं. 13888501एफ अब जेसी-663123वाई),  
01 जनवरी 2005

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जोगिन्दर पाल सिंह (सं. 13884999पी अब  
जेसी-663124एफ), 18 फरवरी 2005\*

हवलदार ब्रिजेश प्रसाद सिंह (सं. 13888671एल अब  
जेसी-663125के), 01 फरवरी 2005

हवलदार पिल्ले वलकुन्टा राव (सं. 13888685एल अब  
जेसी-663126एम), 01 फरवरी 2005

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 13888678पी अब जेसी-663127पी), 01  
फरवरी 2005\*

हवलदार जया कृष्णा शाह (सं. 13885169एल अब  
जेसी-663128एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार कृपाल सिंह (सं. 13888853वाई अब जेसी-663129ए), 01  
फरवरी 2005

हवलदार तमादा बापू राव (सं. 13885250एक्स अब जेसी-663130पी),  
07 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम शरन (सं. 13888449के अब जेसी-663131एक्स), 07  
मार्च 2005\*

हवलदार उदय नारायण गोस्वामी (सं. 13885449वाई अब  
जेसी-663132एच), 01 मार्च 2005

हवलदार महेन्द्र चौधरी (सं. 13885577डब्ल्यू अब जेसी-663133एच),  
11 मार्च 2005\*

हवलदार राम अवतार सिंह (सं. 13885587ए अब जेसी-663134ए),  
02 मार्च 2005\*

हवलदार मुचुमारी यसेया (सं. 13889212वाई अब जेसी-663135एन),  
02 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कोया नागेश्वर राव (सं. 13879465ए अब  
जेसी-663143एम), 22 मार्च 2005\*

हवलदार अमर बहादुर सिंह (सं. 13884162पी अब जेसी-663144पी),  
01 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार हरी राम (सं. 13881527एन अब जेसी-663145एक्स), 21  
मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 04 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम प्रवेश गुप्ता (सं. 13888371के अब जेसी-663146ए),  
15 मार्च 2005\*

हवलदार सीता राम गुर्जर (सं. 13888377एन अब जेसी-663147एच),  
22 मार्च 2005\*

हवलदार राम शंकर (सं. 13888403एफ अब जेसी-663148एल),  
23 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल कृष्णा पोलड (सं. 13884977डब्ल्यू अब  
जेसी-663149एन), 05 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीश प्रभाद (सं. 13889089एल अब जेसी-663150एच),  
01 मार्च 2005

हवलदार शीश राम (सं. 13888989एच अब जेसी-663151एल), 30  
मार्च 2005\*

हवलदार बाबू लाल (सं. 13885424एम अब जेसी-663152एन), 01  
मार्च 2005

हवलदार चन्द्रा चरन काकटी (सं. 13885475ए अब  
जेसी-663153डब्ल्यू), 29 मार्च 2005\*

हवलदार भजन लाल (सं. 13885479डब्ल्यू अब जेसी-663154वाई),  
28 मार्च 2005\*

हवलदार हरी राम (सं. 13885537पी अब जेसी-663155एफ), 13  
मार्च 2005\*

हवलदार श्याम कान्ता अगस्ती (सं. 13885192डब्ल्यू अब  
जेसी-663156के), 25 मार्च 2005\*

हवलदार महाराज सिंह (सं. 13889200के अब जेसी-663157एम),  
05 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मुक्ती नाथ सिंह (सं. 13885736एच अब जेसी-663158पी),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार दुर्ग सिंह (सं. 13889520वाई अब जेसी-663159एक्स), 01  
अप्रैल 2005

हवलदार राजू लाल (सं. 13885953वाई अब जेसी-663160एम), 01  
अप्रैल 2005

हवलदार राम निवास यादव (सं. 13885538एक्स अब  
जेसी-663161पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार मोहन लाल (सं. 13886282एम अब जेसी-663162एक्स),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार सूर्य प्रसाद शुक्ल (सं. 13877788के अब जेसी-663163ए),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार राजवीर (सं. 13889673एच अब जेसी-663164एच), 01  
अप्रैल 2005

हवलदार शरारता कुमार विश्वाल (सं. 13878675एन अब  
जेसी-663165एल), 01 अप्रैल 2005

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 13883486एन अब जेसी-663166एन), 01  
अप्रैल 2005

हवलदार अशान अली एस के (सं. 13879098वाई अब  
जेसी-663167डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

हवलदार शच्चिदा नन्द राय (सं. 13877774वाई अब  
जेसी-663168वाई), 01 अप्रैल 2005

हवलदार खियाली राम (सं. 13884117एच अब जेसी-663169एफ),  
11 अप्रैल 2005\*

हवलदार अरुण कुमार (सं. 13889690एच अब जेसी-663170डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2005.

हवलदार ललित मोहन विश्वाल (सं. 13884687वाई अब  
जेसी-663171वाई), 01 अप्रैल 2005

हवलदार अमर कुमार मंडल (सं. 13896071एक्स अब  
जेसी-663172एफ), 04 अप्रैल 2005\*

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद (सं. 13883954एच अब जेसी-663173के),  
08 अप्रैल 2005\*

हवलदार उदय राय (सं. 13882981ए अब जेसी-663174एफ), 01  
अप्रैल 2005

हवलदार बल राम (सं. 13885879एच अब जेसी-663175पी), 01  
अप्रैल 2005

हवलदार शम्भा जीत (सं. 13865946वाई अब जेसी-663176एक्स),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार सुरेश बाबू सी एच (सं. 13880774पी अब जेसी-663177ए),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 13881616एम अब जेसी-663178एच),  
04 अप्रैल 2005\*

हवलदार रविन्द्र नाथ गिरी (सं. 13878011ए अब जेसी-663179एफ),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार बोधे बबन शिवराम (सं. 13881735एन अब  
जेसी-663180ए), 01 अप्रैल 2005

हवलदार नरीपन कुमार हीरा (सं. 13878836एल अब  
जेसी-663181एच), 19 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

पूर्ति

सूबेदार लिपिक : जी डी/एस डी

नायब सूबेदार बालाचन्द्रन नायर बी (जेसी-641993डब्ल्यू), 01 मार्च  
2005

नायब सूबेदार पुशकर सिंह (जेसी-642121ए), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मिथलेश सिंह चौहान (जेसी-641995एफ), 01 मार्च  
2005

नायब सूबेदार धूम सिंह (जेसी-642125डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दामोदर नायक (जेसी-642126वाई), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-642130एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार अरविन्दाकसन के (जेसी-642131के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार विजन हरी मंडल (जेसी-642132एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार भारवद बूटा भाई बुल्ला भाई (जेसी-642133पी), 01  
मई 2005

नायब सूबेदार होरम सिंह (जेसी-642134एक्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-642136एच), 01 मई 2005

नायब सूबेदार ऋषि प्रकाश दहिया (जेसी-642137एल), 01 मई 2005

नायब सूबेदार शंकर एन (जेसी-642143वाई), 01 मई 2005

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-642144एफ), 01 मई 2005

नायब सूबेदार रमेश राव मोहिते जी वी (जेसी-642257के), 02 मई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पारस नाथ सिंह (जेसी-642147पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार हरी गोपाल गौतम (जेसी-642633एम), 01 मई 2005

नायब सूबेदार रामा मूर्ति वी (जेसी-642150पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार राम सेवक (जेसी-642152ए), 01 मई 2005

नायब सूबेदार दीपक कुमार मिश्रा (जेसी-642165एक्स), 04 मई  
2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार व्यक्तिगत सहायक

नायब सूबेदार राजेश कुमार धीमन (जेसी-642617एफ), 01 अप्रैल  
2005

नायब सूबेदार उमा कान्त तिवारी (जेसी-642423एम), 01 मई 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजा राम राम (जेसी-642482वाई), 02 मार्च 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता  
01 मई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्रीपाल (जेसी-642483एफ), 01 मई 2005

नायब सूबेदार रविन्द्रन नायर आर (जेसी-642618एक्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार लिपिक : जी डी/एस डी

हवलदार वंकर नरेश कुमार गणेश भाई (सं. 6384412डब्ल्यू अब  
जेसी-663182एल), 11 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अशोकन ए (सं. 6384516पी अब जेसी-663183एन), 01  
अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 22 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जंग बहादुर सिंह (सं. 6376101डब्ल्यू अब  
जेसी-663184डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

हवलदार इन्द्रामणी मलिक (सं. 6376222एम अब जेसी-663185वाई),  
01 मार्च 2005

हवलदार कैलाश चन्द्र जोशी (सं. 13880767वाई अब  
जेसी-663186एफ), 01 अप्रैल 2005

हवलदार सुशील कुमार मिश्रा (सं. 13876801एल अब  
जेसी-663213ए), 01 अप्रैल 2005

हवलदार सुखदेव पटियाल (सं. 6376697डब्ल्यू अब जेसी-663214),  
25 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार निहाल सिंह (सं. 13880967पी अब जेसी-663245एच),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 6377066ए अब जेसी-663246एल), 01  
मई 2005

हवलदार राजेन्द्रा सदा शिव बागे (सं. 6376509के अब जेसी-663247एन), 01 मई 2005

हवलदार कृष्ण कुमार बखसी (सं. 6376996पी अब जेसी-663248डब्ल्यू), 01 मई 2005

हवलदार रामेश्वर (सं. 6377071एल अब जेसी-663249वाई), 01 मई 2005

हवलदार दवारिका सिंह (सं. 6376945एफ अब जेसी-663250एन), 01 मई 2005

हवलदार हरीश चन्द्रा मिश्रा (सं. 6376579एच अब जेसी-663251डब्ल्यू), 01 मई 2005

हवलदार नरेन्द्रा मोहन शाहू (सं. 6376380एफ अब जेसी-663252वाई), 01 मई 2005

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 6376949एक्स अब जेसी-663253एफ), 01 मई 2005

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 6377087डब्ल्यू अब जेसी-663254के), 01 मई 2005

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 6377091वाई अब जेसी-663255एम), 01 मई 2005

हवलदार धर्म सिंह (सं. 6377106डब्ल्यू अब जेसी-663256पी), 11 मई 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रविन्द्रा कुमार चम्पाती (सं. 6377109के अब जेसी-663257एक्स), 01 मई 2005

हवलदार आदि राम (सं. 6377124वाई अब जेसी-663258ए), 01 मई 2005

हवलदार बच्चू सिंह (सं. 6377138वाई अब जेसी-663259एच), 01 मई 2005

हवलदार एस भगवती (सं. 6377142एफ अब जेसी-663260एक्स), 01 मई 2005

हवलदार शाकिन सिंह (सं. 6377143के अब जेसी-663261ए), 01 मई 2005

हवलदार उमा शंकर वर्मा (सं. 6377178ए अब जेसी-663262एच), 01 मई 2005

हवलदार गजेन्द्रा सिंह (सं. 6377205वाई अब जेसी-663263एल), 01 मई 2005

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 6377220एन अब जेसी-663264एन), 01 मई 2005

हवलदार दलीप कुमार दास (सं. 6377226एच अब जेसी-663265डब्ल्यू), 01 मई 2005

नायब सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

हवलदार रामफल दिल्लीर (सं. 1469925एल अब जेसी-663187के), 01 अप्रैल 2005

हवलदार एस राजेन्द्रन (सं. 6378583के अब जेसी-663188एम), 01 अप्रैल 2005

हवलदार उमेद सिंह (सं. 6377120एच अब जेसी-663212एक्स), 01 मार्च 2005

हवलदार जितेन्द्रा कुमार मिश्रा (सं. 6376520एच अब जेसी-663266वाई), 01 मई 2005

हवलदार राजेन्द्र यादव (सं. 14476876डब्ल्यू अब जेसी-663267एफ), 01 मई 2005

हवलदार मोहना कृष्णन एम (सं. 3176840एल अब जेसी-663268के), 01 मई 2005

हवलदार टेकमन राम (सं. 2474045पी अब जेसी-663269एम), 01 मई 2005

हवलदार मदन सिंह दढवाल (सं. 13742941एफ अब जेसी-663270एफ), 01 मई 2005

हवलदार श्रीधर आस्मथम वैल आचार्य (सं. 14552864एक्स अब जेसी-663271के), 13 मई 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार श्रीकृष्ण वर्मा (सं. 6377067एम अब जेसी-663272एम), 01 मई 2005

आर्मी वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार बिंध्याचल सिंह (सं. 14372403एल अब जेसी-299187एफ), 01 मार्च 2005

हवलदार विशम्बर दयाल (सं. 14372409एम अब जेसी-299188के), 01 मार्च 2005

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14372448एल अब जेसी-299189एम), 01 अप्रैल 2005

हवलदार रामेश्वर दयाल (सं. 14479107एक्स अब जेसी-299190एफ), 01 अप्रैल 2005

हवलदार शिव पूजन मिश्रा (सं. 14495599एल अब जेसी-299191के), 06 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

हवलदार तपन कुमार मंडल (सं. 14486266एक्स अब जेसी-299192एम), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

हवलदार ओम प्रकाश शर्मा (सं. 14487226एन अब जेसी-299193पी), 07 जनवरी 2005/13 नवम्बर 2004 \*

हवलदार एस नागाराजन (सं. 14376434एच अब जेसी-299194एक्स), 31 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004 \*

बीएचएम राम सजीवन (सं. 14368004के अब जेसी-299195ए), 14 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

बीएचएम ललीता सिंह यादव (सं. 14361321एच अब जेसी-299196एच), 28 मार्च 2005/01 जनवरी 2005 \*

हवलदार संकरा नारायणन के एम (सं. 14376652एफ अब जेसी-299197एल), 02 मार्च 2005/09 जनवरी 2005 \*

बीएचएम राजेन्द्र सिंह (सं. 14360527एन अब जेसी-299198एन), 23 फरवरी 2005/06 फरवरी 2005 \*

बीएचएम रघुराज (सं. 14385756के अब जेसी-299199डब्ल्यू), 03 मार्च 2005/01 मार्च 2005 \*

हवलदार तेज भान (सं. 14379308एफ अब जेसी-299200ए), 07 मार्च 2005/01 मार्च 2005 \*

हवलदार राज कुमार (सं. 14371536पी अब जेसी-299201एच), 09 मार्च 2005/01 मार्च 2005 \*

आरएचएम सुबे सिंह (सं. 14354899एच अब जेसी-299202एल), 16 मार्च 2005/10 मार्च 2005 \*

बीएचएम जसपाल सिंह (सं. 14377581एक्स अब जेसी-299203एन), 01 अप्रैल 2005

बीएचएम नायब सिंह (सं. 14377572डब्ल्यू अब जेसी-299204डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

हवलदार बीर सिंह (सं. 14485323एम अब जेसी-299205वाई), 01 अप्रैल 2005

बीएचएम टेक बहादुर थापा (सं. 14474290एफ अब जेसी-299206एफ), 19 अप्रैल 2005/06 जनवरी 2005 \*

हवलदार महेंद्र प्रसाद सिंह (सं. 14379165एम अब जेसी-299207के), 12 अप्रैल 2005/26 जनवरी 2005 \*

बीएचएम धर्म चन्द (सं. 14472586एफ अब जेसी-299208एम), 01 फरवरी 2005

हवलदार वीरेंद्र सिंह (सं. 14363728एक्स अब जेसी-299209पी), 11 अप्रैल 2005/26 फरवरी 2005 \*

हवलदार सुदी प्रकाश धर्मा (सं. 14347317पी अब जेसी-299210के), 01 अप्रैल 2005

बीएचएम राम स्वरूप (सं. 14359619एन अब जेसी-299211एम), 01 अप्रैल 2005

बीएचएम नारायण सैकिया (सं. 14366475वाई अब जेसी-299212पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार विमान चंद्र बरुआ (सं. 14358449एच अब जेसी-299213एक्स), 12 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

आरएचएम महेंद्र सिंह (सं. 14366525वाई अब जेसी-299214ए), 19 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

हवलदार भागमल (सं. 15109520एन अब जेसी-299215एच), 19 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

आरएचएम उमेद सिंह (सं. 14361763एफ अब जेसी-299216एल), 25 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 \*

बीएचएम प्रकासन के के (सं. 14355116एल अब जेसी-299217एन), 27 अप्रैल 2005/05 अप्रैल 2005 \*

बीएचएम गुरचरन सिंह (सं. 14374020एक्स अब जेसी-299218डब्ल्यू), 02 मई 2005/10 अप्रैल 2005 \*

बीएचएम कल्याण सिंह (सं. 14367878एल अब जेसी-299219वाई), 03 मई 2005/01 मई 2005 \*

बीएचएम संत राम (सं. 14376669पी अब जेसी-299220एन), 03 मई 2005/01 मई 2005 \*

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एम एम सिंह  
अवर सचिव

सं. 386, दिनांक 7 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार जीत सिंह (सं. 4050764एन अब जेसी-841700के), 24 मार्च 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004)

हवलदार पहेलवान सिंह (सं. 2662144पी अब जेसी-841712वाई), 02 अप्रैल 2005 \*\*

हवलदार नथी सिंह (सं. 4052177एफ अब जेसी-841719एच), 23 मार्च 2005 \*\*

हवलदार बंकिम चन्द्रा साहू (सं. 14217036पी अब जेसी-841720एक्स), 11 अप्रैल 2005 \*\*

हवलदार माना भास्करन (सं. 2564587ए अब जेसी-841729एम), 07 मार्च 2005 \*\*

हवलदार रमेश चन्द (सं. 13675132एम अब जेसी-841733पी), 14 मार्च 2005 \*\*

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 13739435एल अब जेसी-841734एक्स), 10 मार्च 2005 \*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004)

हवलदार शिव रतन सिंह (सं. 2973560एक्स अब जेसी-841736एच),  
15 मार्च 2005\*\*\*

हवलदार ओ वी कुरियन (सं. 10289540एम अब जेसी-841737एल),  
14 मार्च 2005\*\*\*

हवलदार सुख राम (सं. 13937580एन अब जेसी-841740एल), 20  
अप्रैल 2005\*\*\*

हवलदार गिरीश सिंह (सं. 9213257एफ अब जेसी-841743वाई), 23  
मार्च 2005\*\*\*

हवलदार धनी राम (सं. 11078459एम अब जेसी-841744एफ), 06  
मार्च 2005\*\*\*

हवलदार मीन बहादुर गुरुंग (सं. 5341427एम अब जेसी-841747पी),  
12 मार्च 2005\*\*\*

हवलदार हरका बहादुर मल्ला (सं. 5842069एफ अब  
जेसी-841748एक्स), 23 मार्च 2005\*\*\*

हवलदार गोलक चन्द्रा प्रस्ती (सं. 14290310के अब जेसी-841749ए),  
02 अप्रैल 2005\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 10361127पी अब जेसी-841754एल),  
12 अप्रैल 2005\*\*\*\*

हवलदार वासुदेवन (सं. 14310103एफ अब जेसी-841757वाई), 13  
अप्रैल 2005\*\*\*\*

हवलदार राजेन्द्रा सिंह तोमर (सं. 1269085एन अब जेसी-841760वाई),  
30 मार्च 2005\*\*\*\*

हवलदार रामेश चन्द्र (सं. 2870991के अब जेसी-841761एफ), 20  
अप्रैल 2005\*\*\*\*

हवलदार देव राजा दलाई (सं. 14513719के अब जेसी-841768एल),  
24 मार्च 2005\*\*\*\*

हवलदार केदार सिंह (सं. 6460836ए अब जेसी-841769एन), 15  
अप्रैल 2005\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005)

हवलदार उम्मेद सिंह (सं. 2863152के अब जेसी-841801एक्स), 15  
मार्च 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2005)

हवलदार प्रभा टी (सं. 10435660एफ अब जेसी-841692डब्ल्यू),  
16 फरवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004)

हवलदार विजई सिंह (सं. 4052298एच अब जेसी-841714के), 16  
मार्च 2005\*\*

हवलदार राम चन्द्र दुबे (सं. 6461820एफ अब जेसी-841715एम),  
10 मार्च 2005\*\*

हवलदार झन्डु कुमार बेरा (सं. 13680151एफ अब  
जेसी-8417175एक्स), 11 मार्च 2005\*\*

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4171297के अब जेसी-841721ए), 29  
मार्च 2005\*\*

हवलदार नन्द लाल (सं. 3971076एच अब जेसी-841723एल), 10  
मार्च 2005\*\*

हवलदार चिरौजी लाल (सं. 14508338वाई अब जेसी-841724एन),  
19 मार्च 2005\*\*

हवलदार भरत सिंह (सं. 4058723वाई अब जेसी-841726वाई), 21  
मार्च 2005\*\*

हवलदार शिव लाल सिंह चौहान (सं. 10181333डब्ल्यू अब  
जेसी-841727एफ), 17 मार्च 2005\*\*

हवलदार राधाकृष्णन उन्निथन सी (सं. 2582250ए अब  
जेसी-841728के), 21 मार्च 2005\*\*

हवलदार राम नरेश पाल (सं. 10181492के अब जेसी-841732एम),  
30 मार्च 2005\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004)

हवलदार ए रवीन्द्रा रेड्डी (सं. 13676766पी अब जेसी-841741एन),  
28 मार्च 2005\*\*\*

हवलदार एम रवीन्द्रन (सं. 10289333ए अब जेसी-841742डब्ल्यू),  
09 मार्च 2005\*\*\*

हवलदार अमर चन्द (सं. 14215557के अब जेसी-841745के), 07  
मार्च 2005\*\*\*

हवलदार लाल चन्द (सं. 1258187एच अब जेसी-841746एम), 15  
मार्च 2005\*\*\*

हवलदार सुग्रीब सिंह (सं. 3972376डब्ल्यू अब जेसी-841753एच),  
08 मार्च 2005\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004)

हवलदार विजय बहादुर शर्मा (सं. 14516581एल अब  
जेसी-841758एफ), 28 मार्च 2005\*\*\*\*

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3363395एच अब जेसी-841763एम), 15  
मार्च 2005\*\*\*\*

हवलदार बचन सिंह (सं. 4057747डब्ल्यू अब जेसी-841766ए),  
14 मार्च 2005\*\*\*\*

\*\*\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) उदई राम (सं. 2963880वाई अब जेसी-841752ए),  
01 मार्च 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004)

हवलदार (लिपिक) सुनील प्रसाद साहि (सं. 13937244एफ अब  
जेसी-841771एल), 23 मार्च 2005\*\*\*\*\*

हवलदार (लिपिक) राजिन्द्र सिंह मन्हास (सं. 10196759पी अब  
जेसी-841772एन), 21 मार्च 2005\*\*\*\*\*

हवलदार (लिपिक) परशोत्तम सिंह पठनिया (सं. 10360780डब्ल्यू  
अब जेसी-841773डब्ल्यू), 21 मार्च 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005)

हवलदार (लिपिक) बचित्तर सिंह (सं. 10313961डब्ल्यू अब  
जेसी-841796एक्स), 11 अप्रैल 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005)

हवलदार (लिपिक) श्रीधर मोहन्ती (सं. 13673013एक्स अब  
जेसी-841819एन), 05 अप्रैल 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार मोइरंग्जम निंग्थोउ सिंह (सं. 4349321वाई अब  
जेसी-841688एन), 20 नवम्बर 2004\*\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004)

हवलदार रामाचन्द्रन अचटवाडी (सं. 10289119एक्स अब  
जेसी-841693वाई), 11 जनवरी 2005\*\*

हवलदार लभया राम (सं. 6458438ए अब जेसी-841694एफ),  
20 जनवरी 2004\*\*

हवलदार मुमताज अली (सं. 10134320एन अब जेसी-841695के),  
29 दिसम्बर 2004\*\*

हवलदार जसमेर सिंह (सं. 11020548ए अब जेसी-841696एच),  
29 दिसम्बर 2004\*\*

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 10465098एक्स अब जेसी-841698एक्स),  
16 दिसम्बर 2004\*\*

हवलदार जनार्दन सिंह (सं. 10181322के अब जेसी-841699ए),  
23 दिसम्बर 2004\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार ओमकार प्रसाद रस्तोगी (सं. 7111299एन अब  
जेसी-841710एन), 14 दिसम्बर 2004\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004)

हवलदार कुलकर्णी सुभाष ट्रयम्बक (सं. 14328154एक्स अब  
जेसी-841751एक्स), 16 फरवरी 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004)

टी. के. एम. पिल्लै  
अवर सचिव

सं. 387, दिनांक 8 जुलाई 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (चयनमान द्वारा)

आई सी संख्या, नाम, आर्म, सब्सटेंटिव तिथि

27859एच जे एस लिखारी, एसी, 16 दिसम्बर 2004

30083एल यश रायन, एसी, 16 दिसम्बर 2004

30091के देविन्दर सिंह, एसी, 16 दिसम्बर 2004

30522एल दारब सिंह, एसी, 16 दिसम्बर 2004

31382डब्ल्यू एन के सच्चर, एसी, 16 दिसम्बर 2004

31442ए अमित वर्मा, एसी, 16 दिसम्बर 2004

31476एन एन आर पवार, एसी, 16 दिसम्बर 2004

31517एम बी एम सारना, एसी, 16 दिसम्बर 2004

31783एल एस मोहन्ती, एसी, 16 दिसम्बर 2004

33150डब्ल्यू विरेन्द्र सिंह, एसी, 16 दिसम्बर 2004

34104एन पी आर पाल, एसी, 16 दिसम्बर 2004

34195एच पी के दार, एसी, 16 दिसम्बर 2004

34201एल रवि दीवान, एसी, 16 दिसम्बर 2004

34451एम रछपाल चन्द, एसी, 16 दिसम्बर 2004

34626के डी डी शर्मा, एसी, 16 दिसम्बर 2004

|   |  |
|---|--|
| 34950एफ जी पी एष बरार, एसी, 16 दिसम्बर 2004             | 25588एक्स सुरेश रामतारी, एओसी, 16 दिसम्बर 2004   |
| 34984पी वी डी आर्या, एसी, 16 दिसम्बर 2004               | 27525एन श्याम मुरारी सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004 |
| 35345ए दलजीत सिंह, एसी, 16 दिसम्बर 2004                 | 30232एन बी के प्रभाकर, एओसी, 16 दिसम्बर 2004     |
| 35383डब्ल्यू आर एस राजपूत, एसी, 16 दिसम्बर 2004         | 30448पी कंवल जीत सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004     |
| 35654एच एस एस राय, एसी, 16 दिसम्बर 2004                 | 31182ए प्रदीप सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004        |
| 35711वाई नवीन खुल्लार, एसी, 16 दिसम्बर 2004             | 31217एल अरविंद खरे, एओसी, 16 दिसम्बर 2004        |
| 36532एल आर के यादव, एसी, 16 दिसम्बर 2004                | 31371के पू एस राठौर, एओसी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 36598एफ के बी भाई, एसी, 16 दिसम्बर 2004                 | 31522एल आर एस सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004        |
| 36671पी जी एस ब्रेजाल, एसी, 16 दिसम्बर 2004             | 31531वाई टी एस भैरी, एओसी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 36675एल पी एस सन्धु, एसी, 16 दिसम्बर 2004               | 31821डब्ल्यू दलवीर सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004   |
| 36727डब्ल्यू आर वर्मा, एसी, 16 दिसम्बर 2004             | 31845ए एन के गहलोद, एओसी, 16 दिसम्बर 2004        |
| 36806एल अरुण कुमार, एसी, 16 दिसम्बर 2004                | 33176एल जे एस गिल, एओसी, 16 दिसम्बर 2004         |
| 37014एक्स पी आर सिंह, एसी, 16 दिसम्बर 2004              | 33877एफ शशी कुमार, एओसी, 16 दिसम्बर 2004         |
| 27396वाई गोपाल शान, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004          | 35128के बी एस चिब, एओसी, 16 दिसम्बर 2004         |
| 27654एन आर एस कनदोला, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004        | 35263एक्स ए के देब, एओसी, 16 दिसम्बर 2004        |
| 27799वाई एन एम कोहली, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004        | 35539एच ओ पी यादव, एओसी, 16 दिसम्बर 2004         |
| 27807एम सी एस ठाकुर, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004         | 35617पी रजिन्दर सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004      |
| 30045पी एच एन चुग, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004           | 35618एक्स ज्ञान चन्द, एओसी, 16 दिसम्बर 2004      |
| 30086वाई एच जी एस यादव, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004      | 36064डब्ल्यू एस के सैनी, एओसी, 16 दिसम्बर 2004   |
| 31158के आर एस सलाथिया, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004       | 36773एल के पी कपूर, एओसी, 16 दिसम्बर 2004        |
| 31799डब्ल्यू डी ए खान, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004       | 36760एफ जी के चावला, एओसी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 33761एल इन्द्र मोहन, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004         | 36986वाई बी डी बनिक, एओसी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 34525डब्ल्यू तेजिन्द्र सिंह, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004 | 37148डब्ल्यू एम एस प्रकाश, एओसी, 16 दिसम्बर 2004 |
| 35193के जे सी काकटी, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004         | 37231एन परमजीत सिंह, एओसी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 36811डब्ल्यू प्रभात कपूर, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004    | 25474एम राजन दत्ता, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 36837एल के के शर्मा, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004         | 25953एन के एस वी कृष्णन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004  |
| 37120डब्ल्यू ए के चन्द, एडी आर्टी, 16 दिसम्बर 2004      | 27056डब्ल्यू आर एस गहलोद, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004 |
| 30623वाई आर एस यादव, एईसी, 16 दिसम्बर 2004              | 27369पी अनीष मेहता, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 30630पी के बी प्रधान, एईसी, 16 दिसम्बर 2004             | 27783एन एस के सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 30656के बी बन्धोपाध्याय, एईसी, 16 दिसम्बर 2004          | 30171एफ अमिताभ नेगी, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004      |
| 30976वाई बिमल सरकार, एईसी, 16 दिसम्बर 2004              | 30209ए के पी शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004       |
| 30987एल वी के भागव, एईसी, 16 दिसम्बर 2004               | 30450एम जे एस चौहान, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004      |
| 32670पी यू पी सिंह, एईसी, 16 दिसम्बर 2004               | 30586डब्ल्यू बी के शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004 |
| 33577ए देविन्द्र पाल, एईसी, 16 दिसम्बर 2004             | 30747एन जे एस पठानिया, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004    |
| 34324एक्स बी के डी शर्मा, एईसी, 16 दिसम्बर 2004         | 30750एन प्रभात कुमार, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004     |
| 35428एल एच एस यादव, एईसी, 16 दिसम्बर 2004               |  |

- 30885पी शैलेन्द्रा सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 30912एन मनदेव सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31019ए राजीव सक्सेना, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31028एफ शिवदेव सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31054एच आर के जौली, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31094के वी पी एस चौहान, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31462एन एम एस कंवर, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31467एम जे जोसेफ, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31500वाई पी बी सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31746एक्स सतवंत सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31878एल एस एल शिंदे, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 31893ए पी वाई बोगार, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 33331एफ डी के भारद्वाज, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 33365पी के बी गुप्ता, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 33456वाई आर के सेन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 33612एक्स एस शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 33813डब्ल्यू आर के अत्रेय, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 33942डब्ल्यू राहुल रैना, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 33979एक्स वी के मल्होत्रा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34077पी जी एस लाम्बा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34092के वी जे जोनी, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34140वाई डी के सरकार, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34174एम अपूरबा सिकदार, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34193एक्स एच के भट्टाचार्य, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34202एन बी के बरोहमा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34233एन बरिन्द्र सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34433के सुखवीर, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34463एफ पी एस नारबाहा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34507एम डी एस, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34530एफ ए के पंत, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34539डब्ल्यू सी पी रामाचन्द्रन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34562के पी के दास, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34581एच एम एस श्री गोविल, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34584एच आर बोहरा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34588वाई मदन चौबे, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34601एक्स ए के बोस, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34603एच के ससीधरन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34604एल एस के सिन्हा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34802डब्ल्यू एस के ग्रोवर, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34835एफ एस के मिश्रा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34871एम देविन्द्र कुमार, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34923एक्स राजीव सूद, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 34990एच हरि गुरुंग, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35126वाई दिनेश सयाल, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35196एक्स डी पी सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35240डब्ल्यू एस के जेटली, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35362ए के के साहू, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35497एफ जगदीश सिंह सूरा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35590एच आर चटर्जी, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35616एम एस थीन्नावन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35689वाई राजीव कपूर, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35749एच पी एस वी रामन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 35875पी यशपाल सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36034वाई सर्वजीत सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36053के इन्द्रजीत सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36066एफ देवनाथ, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36117के के एस तापिया, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36174एल गुरप्रीत सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36323एन कुलदीप सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36402एच सी मोहन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36405डब्ल्यू एस एस चौधरी, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36439के जे पी सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36458पी वेद प्रकाश, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36460एम के एस सोही, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36500एच ए मैत्रा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36534डब्ल्यू एच एम जूदे, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36537के पी वी रविन्द्रन, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36833पी लखवीर सिंह, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36852ए बी के शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
- 36920एच पी एस गुप्ता, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

|  |  |
|--|--|
| 37051एल एम पी एस मैनी, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004        | 31760के डी श्रीवास्तव, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004       |
| 37188एक्स सतीश कुमार, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004         | 31923एम एम एस प्रीत, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         |
| 37290ए एस गांगुली, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004            | 31953के पी सी आर्य, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004          |
| 30193ए ए के पाण्डे, एएससी, 16 दिसम्बर 2004           | 33768पी एस जी गोस्वामी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004      |
| 30782डब्ल्यू आर के सहाय, एएससी, 16 दिसम्बर 2004      | 33944एफ आर एम रायजादा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004       |
| 30849के बी एस क्रोचर, एएससी, 16 दिसम्बर 2004         | 33958एफ जगतार सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004          |
| 31024एल एच के बैनर्जी, एएससी, 16 दिसम्बर 2004        | 34058के एस एस बिष्ट, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         |
| 31620एक्स प्रमोद कुमार, एएससी, 16 दिसम्बर 2004       | 34711एम वी के तोमर, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004          |
| 34222एफ आर के टलवार, एएससी, 16 दिसम्बर 2004          | 34734एम एम सी त्रिपाठी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004      |
| 34251डब्ल्यू एन के महापात्रा, एएससी, 16 दिसम्बर 2004 | 35079एम पी पी शीबानी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004        |
| 34640डब्ल्यू रे नेमियर, एएससी, 16 दिसम्बर 2004       | 35083पी उमाकांत तिवारी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004      |
| 34840एम आर के वोहरा, एएससी, 16 दिसम्बर 2004          | 35087एल वी एस राठी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004          |
| 35197ए ए एन पाण्डे, एएससी, 16 दिसम्बर 2004           | 35397डब्ल्यू पी एन सिंघल, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004    |
| 35289एम गुरजीत सिंह खेरा, एएससी, 16 दिसम्बर 2004     | 35410पी डी एस मेहरा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         |
| 35305वाई हरताज सिंह, एएससी, 16 दिसम्बर 2004          | 35431एल ए के पातोरिया, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004       |
| 35348एन नरेन्द्र कुमार, एएससी, 16 दिसम्बर 2004       | 35434वाई एस के सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         |
| 35701पी डी वी देसवाल, एएससी, 16 दिसम्बर 2004         | 35450डब्ल्यू एस एल कुमार, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004    |
| 35769डब्ल्यू सी सी गौयल, एएससी, 16 दिसम्बर 2004      | 35613वाई एस के यादव, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         |
| 36101वाई एम पी सिंह, एएससी, 16 दिसम्बर 2004          | 35806वाई बालाराम मंडल, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004       |
| 36474एम ए के सुंद, एएससी, 16 दिसम्बर 2004            | 35809एम फनेन्द्रा कुमार, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004     |
| 36749पी वी एस चौधरी, एएससी, 16 दिसम्बर 2004          | 35830पी आर सी भारद्वाज, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004      |
| 37108पी बहादुर सिंह, एएससी, 16 दिसम्बर 2004          | 35882एल वासुदेव लालवानी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004     |
| 37174एक्स डी एस मुन्डे, एएससी, 16 दिसम्बर 2004       | 35884डब्ल्यू ए आर दास, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004       |
| 25477ए मनबीर सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004             | 35885वाई ए कुलश्रेष्ठ, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004       |
| 27279एन जी एस उप्पल, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004           | 36161एन राजेन्द्र सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004      |
| 27607डब्ल्यू मोहन सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004        | 36333एक्स ई के सुधाकरण, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004      |
| 30321ए ए महेश चन्द, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004            | 36463ए वी भल्ला, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004             |
| 30875एल बलदेव सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004            | 36937डब्ल्यू तरनजीत सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004    |
| 31269एफ रमेश सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004             | 37011के गोतम बैनर्जी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004        |
| 31296एल एस आर देशपाण्डे, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004       | 37074एम भास्कर राय, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004          |
| 31308पी वी के बहल, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004             | 38185डब्ल्यू एस के बांधियाल, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004 |
| 31376एच एम वी सुन्दरम, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         | 38188के डी के शर्मा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         |
| 31571ए पो के मल्होत्रा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004        | 38210के पी के भल्ला, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004         |
| 31598एक्स ए जगन्नाथरायणन, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004      | 38219वाई एम के नन्दा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004        |
| 31624एल वी बी हकीम, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004            | 38235डब्ल्यू रमाकांत झा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004     |

- 38249डब्ल्यू प्रकाश चन्द्रा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 38260पी डी के सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 38598ए आर सी मैथ्यू, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 38605एल बलजीत सिंह, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 38611वाई आर राघवन, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 38635एच बी के सिन्हा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 39044एन जे पी साहू, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 39052एम ए के नन्दा, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 39053पी बी डी भट्ट्याचार्य, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004
- 30297एफ एस के नागराज, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 30628एक्स जे सी नरूला, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 30880डब्ल्यू आर के पटनायक, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 31106एन जी मजूमदार, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 31171एन एस के भट्ट, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 31590एल डी सी मिश्रा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 33715डब्ल्यू पी शर्मा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 33927एफ अशोक कुमार सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 34274एक्स दीपक गोपीनाथ, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 34302वाई सुनील कुमार, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 34666एल के एस मन्हास, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 34688के एस पी साहूकार, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 34696एच प्रेम सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 34731ए पी एस सोगल, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 34987एच ए नारायणा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35043एन पंकज सूद, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35058डब्ल्यू अनूप सिंह अरोड़ा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35078के के जे एस अनेजा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35399एफ डी के प्रसाद, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35402डब्ल्यू के एन चौबे, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35436के आर प्रसाद सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35448वाई एस आचार्य, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35456एक्स एस के श्रीवास्तव, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35460ए सी बालकृष्णन, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35675वाई एस सी खन्ना, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35804एन जी वार्ड ताम्बोली, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35831एक्स वी के मुद्गल, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35859एक्स एस के शर्मा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35869एफ डी डी विनोद कुमार, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35881एच सतिन्द्र सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35886एफ नारायण पारवानी, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36249एक्स आर के भट्ट, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36505एफ बी दीक्षित, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36878पी एम वी राज, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36922एन आर एस हरि, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36957के एच एस जावा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36987एफ ए के आनंद, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 36994एक्स आर वेंकटेशन, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 37013पी सतीश कुमार, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 37237पी एम अरुमुगम, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38216एल पी के चौहान, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38218डब्ल्यू परमिन्दर सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38223एफ बलविन्दर सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38244एक्स ए के बट्टू, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38245ए दिनेश चन्द्रा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38256एम प्राण मोहन, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38259ए बी दास, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 38599एच शैलेन दास, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 39036पी एम के जैन, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 39045डब्ल्यू प्रमोद शर्मा, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
- 39403डब्ल्यू डी गुप्ता, इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2004
- 39406के आर पी मुंड, इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2004
- 39429एल एस सी गुप्ता, इंजीनियर्स, 17 दिसम्बर 2004
- 30742पी सी एम एस कालाकोटी, गार्ड्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35615के पी एस रणहोत्रा, गार्ड्स, 16 दिसम्बर 2004
- 35696पी हेमंत कृष्ण, गार्ड्स, 16 दिसम्बर 2004
- 30024वाई पी के त्रिवेदी, इन्टेलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004
- 31214एक्स एच ओ सबरवाल, इन्टेलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004
- 31682एक्स एन पी सिंह, इन्टेलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004
- 31752एल के एल डी जी रोज, इन्टेलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004
- 33517एल दिपांकरधर, इन्टेलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004

34631पी एम वी आदिपूजा, इन्टैलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004  
 34967के के ए सिंह, इन्टैलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004  
 35283एन आर साहू, इन्टैलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004  
 36315पी आर मैथ्यू, इन्टैलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004  
 36597वाई ए पी थोमस, इन्टैलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004  
 36602वाई ए के सान्याल, इन्टैलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004  
 37185के जे पी सिंह, इन्टैलीजेंस, 16 दिसम्बर 2004  
 27400डब्ल्यू पी के मिश्रा, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 30155के प्रदीप दास, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 30554एन वी डी नावानी, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 30851एफ बी के डेका, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 31227पी जगदेव सिंह, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 31554ए रमेश कुमार, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 31958एच राम कुमार, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 31960ए बी एम पी जार्ज, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 31977एन डी डी डारके, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 31984के पी एन चान्दना, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 33305ए के बी उफा कौल, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 33865एम जयन्ता सरकार, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 34289ए राज कुमार पुनी, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 34293एच अर्जुन सिंह, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 34303एफ एस एम पारुलकर, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 34328एम एन के अतुल, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 34330एल जविन्द्र कुमार, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35032एफ खुमान लाल साहू, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35334एन एस वी नाथन, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35437एम एस के सिंघल, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35441पी आर श्रीवास्तवा, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35774एफ पीडी एन किशोरी, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35815ए डमाकांत सक्सेना, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35824एफ नरेन्द्र कुमार, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35861पी एन एम कोशी, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 35864एच टी आर शर्मा, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 36162डब्ल्यू आर के सेठ, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004  
 36736पी आर के सांघवान, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004

36930एम ई जे जयकानन, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004

37198एफ एम के पाण्डे, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004

37267एम एस वी वखारे, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004

38242एम एस कुमार, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004

38627के पी के वाजपई, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004

38639वाई वी पी नौटियाल, सिग्नल, 16 दिसम्बर 2004

39416एन एस के शर्मा, सिग्नल, 17 दिसम्बर 2004

एस एल 02999के जे चटर्जी, एस एल (ए पी टी सी) 16 दिसम्बर 2004

27062के गंगा नन्द झा, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

30329वाई ज्योति वर्धन, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

30889एल कल्याण सिंह बिष्ट, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

31329एल पी एस ग्रेवाल, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

33001एच बी एस रावत, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

34065ए एस आर निकम, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

34173के महेश अरोड़ा, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

34512वाई सुधाकर परिदा, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

34848वाई एम एम तुदू, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

35682पी के एस जोस, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

37087के पी के शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

मेजर ले. कर्नल

आई सी.न., नाम, आर्म

43653 एस.एस. कुमार, मेक इन्फैन्ट्री

43654 आर.एस. कटारिया, मेक इन्फैन्ट्री

43657 पी.डी. नायडू, इंजीनियर्स

43658 हरी सिंह, इंजीनियर्स

43659 सुधीर कुमार, ईएमई

43660 संजय बब्बर, एसी

43661 आर पिल्ललाई वी, ईएमई

43662 संजीव मुंज, एसी

43663 एन. द्विवेदी, मेक इन्फैन्ट्री

43664 ए.के. सोनी, इंजीनियर्स

43665 सुहेल सिंह, एसी

43666 बलबीर सिंह, एसी

43667 करणबीर सिंह बरार, एसी

- 43668 सुनील कुमार एन.वी., इन्फैन्ट्री  
 43669 शिवपाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43670 अमरजोत सिंह, एसी  
 43671 आर.के. छिकारा, इन्फैन्ट्री  
 43673 गुरजाप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43674 तेजबीर सिंह, मेक इन्फैन्ट्री  
 43675 एस.आर. धामा, सिग्नल्स  
 43676 राजिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43679 जी.पी.एस. सिसोदिया, इन्फैन्ट्री  
 43680 आर. कपूर, ए वी एन  
 43682 ए.के. सामनतारा, इन्फैन्ट्री  
 43683 निरंजन कुमार, आर्टी  
 43684 जे.बी. चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 43685 भूपेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43686 संजीव राय, इन्फैन्ट्री  
 43688 कल्याण सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43689 पी.एस. बाजवा, इन्फैन्ट्री  
 43690 हरदीप सिंह धोडी, एसी  
 43691 बोस वी वी, एएससी  
 43693 रविन्द्र सिंह, एसी  
 43696 एस.जे. सिंह, एओसी  
 43697 डी.बी. खत्री, इन्फैन्ट्री  
 43698 शैलेन्द्र सिंह, आर्टी  
 43699 जी.पी.सिंह, आर्टी  
 43701 एम.एस. शर्मा, आर्टी  
 43702 पातञ्जली राहुल, एडीए  
 43704 एस. ब्यू. अहमद, आर्टी  
 43705 बी.आर. शर्मा, एओसी  
 43706 आर.के. शर्मा, सिग्नल्स  
 43707 ए.के. माजूमदार, आर्टी  
 43708 पी.पटनायक, इन्फैन्ट्री  
 43709 वी.एस. संघू, इंजीनियर्स  
 43710 टी.के. ऐच, इन्फैन्ट्री  
 43711 डी. मल्होत्रा, सिग्नल्स  
 43712 ए.बी.के.सीवल, इंजीनियर्स  
 43714 जे.एम. जार्ज, आर्टी  
 43715 पी.के. सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43716 राजवंत सिंह, आर्टी  
 43717 मुकुंद शर्मा, इंजीनियर्स  
 43718 डी.एस. यादव, इन्फैन्ट्री  
 43719 एस.एस.डावस, इन्फैन्ट्री  
 43720 अजय त्रिपाठी, एसी  
 43722 डी.के. सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43723 एच.के. पंत, एएससी  
 43724 एस.के. चुघ, एडीए  
 43725 एम.के. कटियार, इन्फैन्ट्री  
 43726 समरजीत, इन्फैन्ट्री  
 43727 बहादुर सिंह, एओसी  
 43728 आर.बी. बीरादर, इंजीनियर्स  
 43729 आर. सक्सेना, इन्फैन्ट्री  
 43730 विक्रांत नायर, एसी  
 43731 एस. पाण्डे, इन्फैन्ट्री  
 43732 विक्रम सिंह, आर्टी  
 43733 ए.ए. पोल, इन्फैन्ट्री  
 43734 योगेश सहगल, इंजीनियर्स  
 43735 जे.सी. तालुकदार, आर्टी  
 43736 डी.के. नैन, आर्टी  
 43737 आर. थापर, इन्फैन्ट्री  
 43738 एस. पार्थसारथी, सिग्नल्स  
 43739 आर. श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री  
 43740 डी. चन्दोला, सिग्नल्स  
 43741 योगेश आर्य, ईएमई  
 43742 नरेश राणा, इन्फैन्ट्री  
 43743 आर.आर. सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43744 वी.डी. जोशी, इंजीनियर्स  
 43745 गोविन्द सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43746 अदोश कुमार, आर्टी  
 43747 संजीव ठिल्लन, एसी  
 43748 वाई.एस. रेधू, मेक इन्फैन्ट्री  
 43749 एम.एस. नाट्ट, एएससी

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 43751 बी.एस. ओजला, इन्फैन्ट्री      | 43791 एम.यू. रेड्डी, सिग्नल्स       |
| 43752 आर. राजीव, सिग्नल्स           | 43792 एम.एस. रेड्डी, आर्टी          |
| 43753 एस.सी. उपरेती, आर्टी          | 43793 जे.के. चौरसिया, इन्फैन्ट्री   |
| 43754 आर. एस. यादव, इन्फैन्ट्री     | 43794 संजय नन्द, इन्फैन्ट्री        |
| 43755 ए.सी.बी. सिंह, इंजीनियर्स     | 43795 ए. मुरुगेसन, इन्फैन्ट्री      |
| 43756 संजीव लंगेह, इन्फैन्ट्री      | 43796 समीर गुप्ता, आर्टी            |
| 43757 मेथ्यू चैको, आर्टी            | 43797 सुनील कुमार वी.एस., आर्टी     |
| 43759 एस.बी. कासर, मेक इन्फैन्ट्री  | 43798 बी.एस. मावी, एओसी             |
| 43760 जी. सिंह, इंजीनियर्स          | 43799 टी.के. पटपटिया, इन्फैन्ट्री   |
| 43761 एस.एस. सिद्ध, एसी             | 43800 रवि सिंह, इंजीनियर्स          |
| 43762 नीरेन भारती, इन्फैन्ट्री      | 43801 संजय बक्शी, ईएमई              |
| 43763 एस.पी. त्रिपाठी, एडीए         | 43802 आर. बी. सिंह, इन्फैन्ट्री     |
| 43765 एन. सिंह, इन्फैन्ट्री         | 43803 एस.एस. प्रभु, आर्टी           |
| 43766 अशुतोष काले, इन्फैन्ट्री      | 43804 बी. शर्मा, एएससी              |
| 43767 आर. श्रीवास्तवा, एडीए         | 43805 अतुल कोचर, इन्फैन्ट्री        |
| 43769 एस.के. सहारन, आर्टी           | 43809 महावीर सिंह, इन्फैन्ट्री      |
| 43770 शशि भूषन, इन्फैन्ट्री         | 43810 बी. आर्य, आर्टी               |
| 43771 एस. मोहन, एडीए                | 43811 बिशन दत्त, इन्फैन्ट्री        |
| 43772 ओमिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री     | 43812 पी. तलवार, एडीए               |
| 43773 नरेश कुमार, एडीए              | 43813 बी.के. भालसिंह, इन्फैन्ट्री   |
| 43774 एम. डिसूजा, मेक इन्फैन्ट्री   | 43814 बी. सुब्रामनी, इंजीनियर्स     |
| 43776 ए.के. रोहिला, इन्फैन्ट्री     | 43815 सी. शर्मा, एओसी               |
| 43777 पी.पी. ओक, आर्टी              | 43816 के.एस. कटारिया, एएससी         |
| 43778 अजय केला, ईएमई                | 43817 नीनाद गंगाधर रेलकर, सिग्नल्स  |
| 43779 आलोक जैन, आर्टी               | 43818 आर.एन. पाण्डे, आर्टी          |
| 43780 डी. बजरजी, इन्फैन्ट्री        | 43819 ए.पी. कुमार, इन्फैन्ट्री      |
| 43782 आर.पी. शर्मा, इन्फैन्ट्री     | 43820 जी.एस. रेड्डी, इन्फैन्ट्री    |
| 43783 के.एस. शरावत, इन्फैन्ट्री     | 43821 एन.एस. मंगत, एएससी            |
| 43784 दिगविजय सिंह, मेक इन्फैन्ट्री | 43822 एन.आर. बाबू, इन्फैन्ट्री      |
| 43785 ए.के. कालिआ, सिग्नल्स         | 43823 सतीन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री     |
| 43786 राईस आलम खान, एसी             | 43825 एस.के.एम. श्रीधरन, इंजीनियर्स |
| 43787 पी.वी. जनार्दनन, इंजीनियर्स   | 43826 आर. अनिल कुमार, आर्टी         |
| 43788 एस. जेटली, एओसी               | 43827 एस.एस. नारायणन, इंजीनियर्स    |
| 43789 बी. मुधन्ना, इन्फैन्ट्री      | 43828 अशोक कुमार, इन्फैन्ट्री       |
| 43790 संजय सीघल, आर्टी              | 43830 बी. सबास्टीयन, इन्फैन्ट्री    |
|                                     | 43831 बी.एन. खादीलकर, सिग्नल्स      |

- 43832 सुखजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 43833 सोमित्र कुमार काहली, आर्टी  
 43834 आनंद कुमार, आर्टी  
 43835 आई. चटर्जी, इन्फैन्ट्री  
 43837 राजीन्द्र कुमार, सिग्नल्स  
 43839 ए. शर्मा, एडीए  
 43840 आर.बी. पाटिल, एओसी  
 43841 गौतम के. एन, इन्फैन्ट्री  
 43842 एम.के. दास, इन्फैन्ट्री  
 43843 आदीश यादव, इन्फैन्ट्री  
 43844 बी.एस. नाहल, आर्टी  
 43845 एस. सिंह, एओसी  
 43846 अरुण कुमार, इन्फैन्ट्री  
 43847 पी. जडेजा, इंजीनियर्स  
 43849 जे.के. शर्मा, आर्टी  
 43850 आर. कुमार, एओसी  
 43851 विरेन्द्र सिंह, एसी  
 43852 विजय कुमार आर, इन्फैन्ट्री  
 43854 ए.डी. सरदाना, ईएमई  
 43856 एम.जी. सेकरन, आर्टी  
 43857 एन.के. जांगले, आर्टी  
 43858 मन्जीत कुमार, सिग्नल्स  
 43859 एच.एस. गिल, एएससी  
 43860 एम.बी. कदम, ईन्ट  
 43861 पी.के. गंगवानी, एडीए  
 43862 अजय आहुजा, इंजीनियर्स  
 43863 एस. पंत, एडीए  
 43864 पी.एम. राव, आर्टी  
 43865 संजय पाण्डे, इन्फैन्ट्री  
 43866 आर.के. कौशल, आर्टी  
 43867 ए.एम. गाडे, सिग्नल्स  
 43868 बिश्वाजीत दास, इन्फैन्ट्री  
 43869 प्रदीप कौल, आर्टी  
 43871 एस.के.जेना, इन्फैन्ट्री  
 43873 एम.आर.पी. कुमार, आर्टी  
 43874 आर.के. यादव, एओसी  
 43875 विजय मेहता, इन्फैन्ट्री  
 43876 मंजीत पन.आर., एसी  
 43877 राजीन्द्र दीवान, इन्फैन्ट्री  
 43878 यू. सुन्दरम, इन्फैन्ट्री  
 43879 एस.आर. अहलावत, आर्टी  
 43880 एस. चतुर्वेदी, एएससी  
 43881 एम.सी. गुप्ता, आर्टी  
 43882 एस. भट्टाचार्या, इंजीनियर्स  
 43883 एस. शर्मा, एएससी  
 43884 श्री राज सिंह, इन्फैन्ट्री  
 43885 एन. के. सिंह, ए एस सी  
 43886 सुधीर कुमार, एवीएन  
 43887 एस. आंशु तेरी, एएससी  
 43888 ए.के.जी. कामोजी, इंजीनियर्स  
 43890 के.एस. उप्पल, एओसी  
 43891 पी. मेहरोत्रा, इन्फैन्ट्री  
 43892 एन.पी.एस. बाना, इंजीनियर्स  
 43893 एन. दिवानजी, मैक इन्फैन्ट्री  
 43894 वी. बहादुर, इन्फैन्ट्री  
 43895 वी. नायर वी.एस., एडीए  
 43896 एस.पी.एस. सेंगर, सिग्नल्स  
 43897 एस. सूद, इन्फैन्ट्री  
 43898 आर.एस. हंस, ईएमई  
 43899 एच.एम. माहेश्वरी, इन्फैन्ट्री  
 43900 ए.एस. राठी, इंजीनियर्स  
 43902 सतीश कुमार, एडीए  
 43903 पी. मुखर्जी, इन्फैन्ट्री  
 43904 ए.पी. सिंह, एओसी  
 43906 आर.के. शर्मा, आर्टी  
 43907 के.के. शर्मा, सिग्नल्स  
 43908 एस.पी. विश्वानाथ, एओसी  
 43909 वी. सिंह, एएससी  
 43911 संजय कपूर, आर्टी  
 43912 एस.टंडन, एएससी  
 43913 ब्रह्मक्षेत्र शिवप्रसाद, इंजीनियर्स

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 43914 आर.के. महाना, इन्फैन्ट्री      | 43952 एस घोष, इन्फैन्ट्री         |
| 43915 ए.के. पात्रा, आर्टी            | 43953 आइ जे सिंह, मैक इन्फैन्ट्री |
| 43916 आर.के. तलवार, एओसी             | 43954 एस के सांगवान, इन्फैन्ट्री  |
| 43917 एस.एस.एस. रिजवी, आर्टी         | 43957 ए पी गुप्ता, आर्टी          |
| 43918 राजीव मंडल, इन्फैन्ट्री        | 43958 विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री    |
| 43919 भूप सिंह, इन्फैन्ट्री          | 43959 एस बी सिंह, इन्फैन्ट्री     |
| 43920 दिनेश श्रीवास्तव, आर्टी        | 43960 पी एम वसंत, एडीए            |
| 43921 तपस कुमार राज, मैक इन्फैन्ट्री | 43961 प्राचीन विक्रम, इन्फैन्ट्री |
| 43922 एस. इस्लाम, इन्फैन्ट्री        | 43962 कोचू के एन के, इन्फैन्ट्री  |
| 43923 राजीव कपूर, इन्फैन्ट्री        | 43964 पी अग्निहोत्री, इन्जीनियर्स |
| 43925 आर. कोठारी, इन्फैन्ट्री        | 43965 वी पी सिंह, इन्फैन्ट्री     |
| 43926 ए.एस. गिल, एएससी               | 43966 संजय कपूर, इन्जीनियर्स      |
| 43927 रमेश कुमार, इन्फैन्ट्री        | 43967 के डी अचलेय, आर्टी          |
| 43928 एस. भंडारी, आर्टी              | 43969 राकेश जुनेजा, सिग्नल्स      |
| 43929 आर. सचदेवा, मैक इन्फैन्ट्री    | 43970 राजनायक सिंह, एसी           |
| 43931 वीरेन्द्र सिंह, एओसी           | 43971 राजीव शर्मा, इन्फैन्ट्री    |
| 43932 भूपल कुमार, आर्टी              | 43972 ए सिन्धुवानी, एओसी          |
| 43933 आर. एस. कुशावाहा, सिग्नल्स     | 43974 आलोक शर्मा, ईएमई            |
| 43934 अजीत कपूर, आर्टी               | 43975 एस मेहरोत्रा, एडीए          |
| 43935 अरुण पाण्डे, इन्फैन्ट्री       | 43977 ए कृष्णनकुट्टी, इन्फैन्ट्री |
| 43937 सुगाथन वी. के., इन्फैन्ट्री    | 43978 ए एन तिवारी, आर्टी          |
| 43938 राकेश वधावन, इन्फैन्ट्री       | 43981 शरद कपूर, इन्फैन्ट्री       |
| 43939 एस. बी. हेरलेकर, इन्जीनियर्स   | 43982 चन्दर शेखर, इन्जीनियर्स     |
| 43940 दीपक अग्रवाल, एडीए             | 43983 वी एस सरमा, एडीए            |
| 43941 आर. एस. लोचम, एएससी            | 43984 एन मल्होत्रा, आर्टी         |
| 43942 अविनाश सिंह, एसी               | 43986 एस के सामंत, सिग्नल्स       |
| 43943 एस. खत्री, इन्फैन्ट्री         | 43988 पी के वालिया, इन्फैन्ट्री   |
| 43944 वी के बाहरी, एवीएन             | 43991 एस सिवरामन, आर्टी           |
| 43945 आर चौहान, एओसी                 | 43993 आर के वंतारु, एएससी         |
| 43946 एस दास, ईएमई                   | 44014 एस वी सिंह, आईसी            |
| 43947 टी बनर्जी, सिग्नल्स            | 44019 बी बन्दोपाध्याय, एओसी       |
| 43948 डी चौधरी, इन्फैन्ट्री          | 44020 बी एस प्रसाद, आईसी          |
| 43949 जे एस बक्शी, एसी               | 44036 अतुल रावत, मैक इन्फैन्ट्री  |
| 43950 एस बी सिंह, सिग्नल्स           | 44038 एच धर्मराजन, इन्जीनियर्स    |
| 43951 ए मुन्शी, इन्जीनियर्स          | 44039 एस जैस, एडीए                |

- 44040 आर एस रावत, एओसी  
 44041 एम इन्द्रबालन, इन्जीनियर्स  
 44042 ए आर बाजपेयी, मैक इन्फैन्ट्री  
 44043 एस एस भारद्वाज, इन्जीनियर्स  
 44044 धीरज सेठ, एसी  
 44045 एस के प्रसाद, इन्जीनियर्स  
 44046 जे एस नन्दा, इन्फैन्ट्री  
 44047 जी त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री  
 44048 पी एस जायसवाल, इन्जीनियर्स  
 44050 एम आर गौतम, एसी  
 44051 डी वी सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44052 आर के सिंह, इन्जीनियर्स  
 44053 पी मोहनदासन, एडीए  
 44054 वी चौधरी, इन्जीनियर्स  
 44055 वी एम चन्द्रन, एसी  
 44056 आर एस यादव, ईएमई  
 44057 राजीव मनकोटिया, इन्फैन्ट्री  
 44058 एस के दास, एडीए  
 44059 एन वी परादकर, इन्फैन्ट्री  
 44060 अनिल गौतम, एडीए  
 44062 ए वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 44063 ए अरोरा, इन्फैन्ट्री  
 44064 ए के अग्रवाल, आर्टी  
 44065 मनजीन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44067 ए एन झा, इन्फैन्ट्री  
 44068 डी दीनादयालन, एएससी  
 44069 जे एम सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44070 एस पी मलिक, एओसी  
 44071 आर नेगी, ईएमई  
 44072 के भरद्वाज, आर्टी  
 44073 आर प्रकाश, ईएमई  
 44074 एस एस बक्शी, आर्टी  
 44076 अनिल वी सिंदगी, इन्फैन्ट्री  
 44079 एम आर चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 44080 आर के सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44081 पी रावत, ईएमई  
 44082 ए आर एस कहल्लेन, एसी  
 44084 रवि दिवान, एडीए  
 44085 अतुल कसल, एसी  
 44086 रोहित मेहरोत्रा, सिग्नल्स  
 44087 सुदीप भट्टाचार्य, आर्टी  
 44088 राजवंत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44089 मनीश गुलाटी, एडीए  
 44090 विनय धीमान, आर्टी  
 44091 दीपक कजला, इन्फैन्ट्री  
 44092 गौतम डे, आर्टी  
 44093 गुरुवीन्दर सिंह सिद्धू, इन्फैन्ट्री  
 44094 जी एस ग्रेवाल, ईएमई  
 44095 अनिल कुमार काशीद, आर्टी  
 44096 आकाश पोपली, ईएमई  
 44097 हरजीत सिंह, सिग्नल्स  
 44098 संदीप महाराज, एएससी  
 44099 नीरज वार्शनिय, ईएमई  
 44100 विनय मोहन, इन्फैन्ट्री  
 44101 नीरज कुमार कोसव, ईएमई  
 44103 राजील सिंहले, सिग्नल्स  
 44104 के मनोहरन, इन्फैन्ट्री  
 44105 पी दीक्षित, सिग्नल्स  
 44106 इन्दुरकर नितिन राम, इन्फैन्ट्री  
 44107 परदीप कुमार, इन्फैन्ट्री  
 44108 एस एस राठी, ईएमई  
 44109 प्रवीण कुमार, एएससी  
 44110 पी के चौधरी, सिग्नल्स  
 44111 किरपाल सिंह, आर्टी  
 44112 विवेक ऐरी, आर्टी  
 44113 कबीर, इन्फैन्ट्री  
 44115 गोविन्द माथुर, इन्फैन्ट्री  
 44116 के एल खाजुरिया, एओसी  
 44117 एच एस जामवाल, एएससी  
 44118 मंजीत सिंह, इन्फैन्ट्री

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 44119 रजनीश अखौरी, इन्फैन्ट्री        | 44161 जै भारद्वाज, इन्जीनियर्स           |
| 44120 एस एस दहिया, इन्फैन्ट्री        | 44162 शेरी पीटर, इन्फैन्ट्री             |
| 44121 वी एन सार्वत, इन्फैन्ट्री       | 44163 मनोज मनोहर टिपनिस, इन्जीनियर्स     |
| 44122 समीर खरे, आर्टी                 | 44164 गुरब्रीन्दर सिंह शहीद, इन्फैन्ट्री |
| 44123 लक्ष्मण सिंह, इन्फैन्ट्री       | 44168 अशोक कुमार अधिकारी, आर्टी          |
| 44124 बृजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री     | 44169 राजीव कक्कर, आर्टी                 |
| 44125 आर एस बिन्दा, एवीएन             | 44170 के वी आत्मा राम, सिग्नल्स          |
| 44127 जे नन्दा कुमार, एसी             | 44171 अम्रीश मल्होत्रा, एएससी            |
| 44128 अरुण नायर, इन्फैन्ट्री          | 44172 विनोद कुमार राय, इन्फैन्ट्री       |
| 44129 संदीप रणदेव, एएससी              | 44173 आलोक त्रिपाठी, एएससी               |
| 44130 ध्यान माया दास, एसी             | 44174 संदीप गुलियानी, आर्टी              |
| 44131 एस के जसपाल, ईएमई               | 44175 लीमये सुनील मोरेशवर, इन्फैन्ट्री   |
| 44132 सुरेश चन्द्रा, एओसी             | 44176 विक्रम गोविन्द पाण्डे, इन्फैन्ट्री |
| 44133 संजीव रोलीआ, सिग्नल्स           | 44177 एच डी एस बिष्ट, सिग्नल्स           |
| 44134 एन ए प्रदीप, आर्टी              | 44179 राज कुमार, इन्फैन्ट्री             |
| 44136 रवि डिमरी, इन्फैन्ट्री          | 44180 संजय त्यागी, इन्फैन्ट्री           |
| 44137 विवेक भट्ट, सिग्नल्स            | 44181 परवीन्दर सिंह, एडीए                |
| 44138 संजय नादकरणी, इन्फैन्ट्री       | 44182 राजीव दुआ, आर्टी                   |
| 44140 एस ए सिद्धिकी, ईएमई             | 44183 सत्या निधि टंडन, आर्टी             |
| 44142 एस डी मेहता, आर्टी              | 44184 एच शंकर, ईएमई                      |
| 44143 पवन बजाज, इन्फैन्ट्री           | 44186 अरुण बर्मन, एएससी                  |
| 44144 कामेश सेठ, इन्फैन्ट्री          | 44187 किशोर नथानी, एओसी                  |
| 44145 चांद सरोहा, इन्फैन्ट्री         | 44191 संदीप सिंह ददवाल, इन्फैन्ट्री      |
| 44146 संजय श्रीवास्तवा, आर्टी         | 44193 रणवीर सिंह, इन्फैन्ट्री            |
| 44147 जीतेन्द्रा सिंह, सिग्नल्स       | 44194 आकाश सचन, इन्जीनियर्स              |
| 44148 संदीप सभरवाल, ईएमई              | 44195 रवीन्दर सिंह, एओसी                 |
| 44149 आर के सिंह, इन्फैन्ट्री         | 44196 उदय नाथ सिंह यादव, आर्टी           |
| 44150 एन के जोशी, आर्टी               | 44197 रणविजय सिंह झाला, इन्फैन्ट्री      |
| 44151 सुधीर फौलीपोस, एएससी            | 44198 एस के बदोला, इन्जीनियर्स           |
| 44152 आर एस कालिया, एडीए              | 44199 टी रमेश, ईएमई                      |
| 44153 ए एम मदान, इन्फैन्ट्री          | 44200 दीपक सैनी, इन्फैन्ट्री             |
| 44155 एम रमेश, इन्फैन्ट्री            | 44201 इन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री       |
| 44158 अब्दुल रजाक खदर, आर्टी          | 44202 अरविन्द कपूर, एसी                  |
| 44159 इन्द्रानील बिश्वास, इन्फैन्ट्री | 44204 रवि सांगवान, ईएमई                  |
| 44160 विवेक माटा, एओसी                | 44205 अशोक ठाकुर, ईएमई                   |

|   |   |
|---|---|
| 44206 वोलीचेटी बेंकटेश्वर रॉव, इन्फैन्ट्री    | 44249 वी के छसवाल, एएससी                  |
| 44207 कार्यमसेट्टी शैरोन मार्टीन, इन्फैन्ट्री | 44250 रजनीश सिन्हा, एसी                   |
| 44208 राजीन्दर एस वर्मा, इन्फैन्ट्री          | 44251 संदीप सुदन, मैक इन्फैन्ट्री         |
| 44209 तरुण पराशर, एओसी                        | 44254 नगीन्दर सिंह, इन्जीनियर्स           |
| 44210 नरीन्दर सिंह, एडीए                      | 44255 विनय पराशर, आर्टी                   |
| 44211 आई एम लांबा, आर्टी                      | 44256 कृष्ण बिशम्बर नाथ यादव, इन्फैन्ट्री |
| 44212 पी के वर्मा, सिग्नल्स                   | 44257 अरुण कुमार त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री    |
| 44213 अमन सिंह, इन्फैन्ट्री                   | 44258 गिरीश सुरी, सिग्नल्स                |
| 44216 अमिताभ मुखर्जी, ईएमई                    | 44259 कृष्ण मोहन पोटुरी, इन्फैन्ट्री      |
| 44217 रजीन्दर कुमार जे कांबले, एओसी           | 44260 सुधाकर श्रीवास्तवा, ईएमई            |
| 44218 अजय मलिक, ईएमई                          | 44261 ब्रिज गोपाल, इन्फैन्ट्री            |
| 44221 ओम प्रकाश सुमारा, इन्फैन्ट्री           | 44262 बालगोपाल सिंह चौहान, एओसी           |
| 44222 नरेश कुमार सरोत्रा, इन्फैन्ट्री         | 44263 दीपक त्यागी, सिग्नल्स               |
| 44223 जग मोहन, सिग्नल्स                       | 44264 ए वर्मा, सिग्नल्स                   |
| 44224 रोहित बुटालिया, आर्टी                   | 44265 चन्द्र नाथ बनर्जी, एडीए             |
| 44225 जेफरी एम जे वेलेन्टाइन, ईएमई            | 44266 अनिमेश गांगुली, आर्टी               |
| 44226 जगजीत सिंह गिल, इन्फैन्ट्री             | 44267 पवन प्रताप सिंह, एएससी              |
| 44227 एम रमेश एम वी जोगारॉव, सिग्नल्स         | 44268 राजीव भाटिया, ईएमई                  |
| 44228 विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री                | 44270 पी एस निकम, इन्फैन्ट्री             |
| 44229 अमित सिन्हा, इन्फैन्ट्री                | 44271 भुवनेश्वर सिंह यादव, इन्फैन्ट्री    |
| 44230 नरेश जेठवानी, इन्ट                      | 44272 गुरजीन्दर पाल सिंह विक्र, आर्टी     |
| 44231 एस के नन्दा, एएससी                      | 44273 एस के सतपथी, इन्फैन्ट्री            |
| 44232 रजत माथुर, इन्फैन्ट्री                  | 44274 आर के अग्रवाल, आर्टी                |
| 44233 डी पी नौटियाल, इन्जीनियर्स              | 44275 पी रमेश, आर्टी                      |
| 44234 के एस भडवाल, मैक इन्फैन्ट्री            | 44276 सुनील एन पुरोहित, एओसी              |
| 44235 वी के हरयल, आर्टी                       | 44277 एम एस शेरगिल, एओसी                  |
| 44237 रविन्द्र डोनाल्ड, रोडनी एवीएन           | 44278 तपीशवर सिंह, इन्जीनियर्स            |
| 44238 आनंद मिश्रा, आर्टी                      | 44279 संजय गोस्वामी, आर्टी                |
| 44239 प्रीत मोहिन्दर सिंह, एएससी              | 44280 जयदेव सिंह साम्याल, एसी             |
| 44240 जीवन चन्द्रा, आर्टी                     | 44281 गौतमा दत्ता, इन्फैन्ट्री            |
| 44243 संजय राठौर, इन्जीनियर्स                 | 44282 शरनजीत सिंह, इन्फैन्ट्री            |
| 44244 सुनील वासन, ईएमई                        | 44283 अमर सिंह, सिग्नल्स                  |
| 44246 एस मिश्रा, एसी                          | 44284 एस गुरुप्रसाद, आर्टी                |
| 44247 संजय कपूर, इन्जीनियर्स                  | 44285 सुनील के मेहता, ईएमई                |
| 44248 राज सिंह, इन्फैन्ट्री                   | 44286 प्राणवेन्द्र कुमार, ईएमई            |
|   | 44287 अमित त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री          |

|  |  |
|--|--|
| 44288 उज्जल सिंह, इन्फैन्ट्री                | 44328 एस एस अहलावत, इन्फैन्ट्री        |
| 44289 अमन सिंह यादव, एएससी                   | 44329 डी मोहपात्रा, मैक इन्फैन्ट्री    |
| 44290 अरविन्दर शोवर, एएससी                   | 44330 एम एम रामचन्द्रा, इन्फैन्ट्री    |
| 44291 शाजी सी वी, आर्टी                      | 44331 प्रसून सिंह, आर्टी               |
| 44292 तरुन छिब्र, आर्टी                      | 44333 एम शशिधर राँव, इन्फैन्ट्री       |
| 44293 के एस दलाल, सिग्नल्स                   | 44334 सनल कुमार ए वी, एओसी             |
| 44294 प्रभात अग्रवाल, आर्टी                  | 44335 प्रशांत कुमार, आर्टी             |
| 44295 गडे बेंकटा बादरी साई शंकर, इन्फैन्ट्री | 44336 एस एस धालीवाल, इन्फैन्ट्री       |
| 44297 संदीप धींगरा, सिग्नल्स                 | 44337 मनोज भारद्वाज, इन्फैन्ट्री       |
| 44299 जगदीश जयसिंह राँव गडेकर, इन्ट          | 44338 आर आनंद, एसी                     |
| 44300 वी के यादव, एडीए                       | 44339 ए अब्राहम, इन्ट                  |
| 44301 हरजीन्दर सिंह, ईएमई                    | 44340 आर बाली, ईएमई                    |
| 44302 नरेन्दर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री          | 44341 नरेन्द्रा सिंह, एसी              |
| 44303 कृष्णा कुमार, इन्फैन्ट्री              | 44342 एस एस बलोरिया, इन्फैन्ट्री       |
| 44304 एस एस चौहान, इन्फैन्ट्री               | 44343 डी कुमार, आर्टी                  |
| 44305 संजय कुमार, आर्टी                      | 44344 के एस संधु, इन्फैन्ट्री          |
| 44306 आर आर नेगी, इन्जीनियर्स                | 44346 तेजीन्दर जग्गी, ईएमई             |
| 44307 पी ए सामी, इन्फैन्ट्री                 | 44347 लीलाधर शर्मा, आर्टी              |
| 44308 जी एस कटोरा, एसी                       | 44348 अमित झा, मैक इन्फैन्ट्री         |
| 44310 राजीव कक्कर, एसी                       | 44349 विक्रमजीत गुप्ता, आर्टी          |
| 44311 सुनील कुट्टी, ईएमई                     | 44350 ए के शर्मा, एडीए                 |
| 44312 समीर जैन, इन्जीनियर्स                  | 44351 सुबोध कुमार, इन्फैन्ट्री         |
| 44313 एस एस डागर, एओसी                       | 44352 जे एस शेखावत, एएससी              |
| 44314 एन सी तिवारी, एएससी                    | 44353 वीरेन्द्रा शर्मा, एओसी           |
| 44315 अनिल कुमार, एओसी                       | 44354 डी के यादव, इन्जीनियर्स          |
| 44316 ए के पाण्डे, एएससी                     | 44355 आर पी एस अहलुवालिया, इन्जीनियर्स |
| 44317 एम के जैन, आर्टी                       | 44356 रंजन कुमार, एओसी                 |
| 44318 पंकज कुमार, इन्फैन्ट्री                | 44357 ए डी एस बादवाल, एएससी            |
| 44320 वाई एस परमार, ईएमई                     | 44359 ए त्रिवेदी, आर्टी                |
| 44321 पी वी एस नारायणन, इन्जीनियर्स          | 44360 संजय तलवार, सिग्नल्स             |
| 44323 के वी विठ्ठल, ईएमई                     | 44361 भीम गिरि गोस्वामी, इन्फैन्ट्री   |
| 44324 विजय नरेन्द्रा, गावडे, इन्फैन्ट्री     | 44362 बिनय कुमार सिंह, सिग्नल्स        |
| 44325 राकेश कुमार शर्मा, सिग्नल्स            | 44363 राजिन्द्र कुमार, एओसी            |
| 44326 सत्येन आनन्द, एडीए                     | 44364 एस वेंकटरमन, आर्टी               |
| 44327 सूइ खान, आर्टी                         |  |

- 44365 एस पी वशिष्ठ, ईएमई  
 44367 ग्लेन जॉन डि क्रुज, एओसी  
 44369 राजपाल सिंह मलिक, एसी  
 44370 प्रभ प्रीत मल्लही, एओसी  
 44371 अनिल शर्मा, ईएमई  
 44372 हेमंत कक्कर, आर्टी  
 44373 बी शशि धर, इंजीनियर्स  
 44374 रणबीर सिंह, ईन्ट  
 44375 संजीव पंडित, एएससी  
 44376 अनिल मिश्रा, एसी  
 44377 अतुल चौधरी, आर्टी  
 44378 लंका श्रीनिवास, इन्फैन्ट्री  
 44379 आलोक नारायण, इन्फैन्ट्री  
 44380 मनु राज सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44381 संत पाल, एएससी  
 44382 उत्तम मुखर्जी, इंजीनियर्स  
 44383 शैलेन्द्रा कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44384 सुनीत इस्सर, इन्फैन्ट्री  
 44385 सुशांत कुलश्रेष्ठ, सिग्नल्स  
 44386 संजय रणदेव, इन्फैन्ट्री  
 44387 अमित अत्रे, एडीए  
 44388 अतुल कुमार होलकर, एएससी  
 44389 कुलदीप कुमार चौधरी, एओसी  
 44391 के के दत्ता, आर्टी  
 44392 ए कुमार, इन्फैन्ट्री  
 44393 संजय कपूर, आर्टी  
 44394 के एस कविआ, इन्फैन्ट्री  
 44396 एन के रावत, सिग्नल्स  
 44398 आर कुमार, इंजीनियर्स  
 44399 अशोक शर्मा, एओसी  
 44400 अतुल त्यागी, आर्टी  
 44401 जे एस मारवा, आर्टी  
 44402 वी एस कादयान, इन्फैन्ट्री  
 44403 संजय खन्ना, एएससी  
 44406 एस एन शेखर, ईन्ट  
 44407 प्रदीप मिश्रा, सिग्नल्स  
 44408 संजीव शर्मा, आर्टी  
 44409 वेनु गोपाल, एओसी  
 44410 एस के गुप्ता, आर्टी  
 44411 सुखवीन्दर सिंह, आर्टी  
 44412 संजय कुमार, इन्फैन्ट्री  
 44414 आनंद भूषण, इन्फैन्ट्री  
 44416 रजीव साह, इन्फैन्ट्री  
 44417 आर के दहिया, इन्फैन्ट्री  
 44418 बी के सिन्हा, एओसी  
 44420 एम एस सिंह, आर्टी  
 44421 तपस कुमार चन्दा, एएससी  
 44422 रोममेल रजैन, इन्फैन्ट्री  
 44423 अरुण देशपाण्डे, एएससी  
 44608 राकेश चौधरी, एसी  
 44609 हरदयाल चौहान, मैक इन्फैन्ट्री  
 46610 पी सत्यानाथ, ईएमई  
 46611 हरीन्दर पाल सिंह, आर्टी  
 44612 दिलीप सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री  
 44614 एस नरसिम्हा, एसी  
 44615 परमजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44616 रजीन्द्र सिंह रंधावा, इंजीनियर्स  
 44617 शक्ति सिंह राणा, एसी  
 44618 जोजन थॉमस, इन्फैन्ट्री  
 44619 शैलेन्द्रा सिंह कटारिया, ईएमई  
 44620 सुमंत भट्टाचार्य, मैक इन्फैन्ट्री  
 44621 चरन बीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 44622 विनय बहल, इन्फैन्ट्री  
 44623 संजीव नागपाल, ईएमई  
 44624 यश वर्धन सिंह चौहान, एडीए  
 44625 अशोक कुमार राव, इन्फैन्ट्री  
 44626 चन्द्र शेखर, इन्फैन्ट्री  
 44627 करतार सिंह सीरोही, इन्फैन्ट्री  
 44628 प्रवेश कुमार मल्होत्रा, एसी

|   |  |
|---|--|
| 44629 भारतीन्दर केसर, मैक इन्फैन्ट्री           | 44677 सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री           |
| 44630 कृष्ण चन्द सकलानी, इन्फैन्ट्री            | 44678 अनिल कुमार एस चरण, एएससी           |
| 44631 अरुण कुमार शर्मा, ईन्ट                    | 44679 पराकनल जार्ज विनोद, ईएमई           |
| 44632 दिग्विजय सिंह राठौर, एसी                  | 44680 नागेन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री       |
| 44633 नवीन सूद, इन्फैन्ट्री                     | 44681 कुलदीप सिंह गहलोत, एसी             |
| 44635 वी अलेक्स चन्द्रन, इन्फैन्ट्री            | 44682 सौगातो दास, इन्फैन्ट्री            |
| 44636 विवेक राजदान, इन्फैन्ट्री                 | 44683 अजीम राफत एहसान, एसी               |
| 44637 रवि कांत गुप्ता, मैक इन्फैन्ट्री          | 44684 विस्मय व्यास, ईएमई                 |
| 44639 नोएल गुडविन, एसी                          | 44685 कालूवाकोलन भूषण, इन्फैन्ट्री       |
| 44641 राजेन्द्र सप्तदेव, इन्फैन्ट्री            | 44686 सुभाष चन्द्रा सीपहिया, इन्फैन्ट्री |
| 44442 वैकटेश रेड्डी जी ए, इन्फैन्ट्री           | 44687 दिनेश आनंद, आर्टी                  |
| 44644 समित कुमार साहा, इन्फैन्ट्री              | 44688 सलील शर्मा, एसी                    |
| 44645 कृष्णा किशोर प्रसाद, मैक इन्फैन्ट्री      | 44689 मारीओ डिमोन्टी, एसी                |
| 44646 आलोक सिंह, इन्फैन्ट्री                    | 44690 सुमित कात्याल, इन्फैन्ट्री         |
| 44647 आलोक परमार, एसी                           | 44691 आर श्रीकुमार नायर, इन्फैन्ट्री     |
| 44648 संदीप खन्ना, आर्टी                        | 44692 मनोज मोहन, इन्फैन्ट्री             |
| 44649 संतोष कुमार मिश्रा, सिग्नल्स              | 44693 के लारेन्स, इन्फैन्ट्री            |
| 44650 संजय स्वरूप कपूर, ईएमई                    | 44694 रोहित गोस्वामी, एओसी               |
| 44651 देवेन्द्रा सिंह मनकोटीआ, इन्फैन्ट्री      | 44696 अलेक्स थॉमस, इन्फैन्ट्री           |
| 44652 सुमित कुमार दाव, इंजीनियर्स               | 44698 मनोज कुमार यादव, इंजीनियर्स        |
| 44653 जयदीप सिंह दयाल, मैक इन्फैन्ट्री          | 44699 विश्वास श्रीपाल दियोस्कर, एसी      |
| 44654 यश पाल सिंह, सिग्नल्स                     | 44700 पिच्चीया रामाचन्द्रन, ईएमई         |
| 44655 प्रवीन चौहान, इन्फैन्ट्री                 | 44701 मत्तापललिल जॉन जैकब, एएससी         |
| 44656 उदित जैन, इन्फैन्ट्री                     | 44702 त्रिमोहन विक्रम सिंह, सिग्नल्स     |
| 44658 राहुल प्रकाश, एसी                         | 44705 संजीव भट्ट्याचार्जी, एसी           |
| 44660 अनिल कुमार चौहान, एसी                     | 44706 राजेन्द्रा सिंह खत्री, इन्फैन्ट्री |
| 44663 मेनन सतीश कुमार प्रभाकरण, मैक इन्फैन्ट्री | 44707 विजय कुमार सिंह, एसी               |
| 44666 मुदित शर्मा, इन्फैन्ट्री                  | 44708 कबीर दूबे, इन्फैन्ट्री             |
| 44667 ज्योति कुमार बोस, ईन्ट                    | 44709 अश्विनी कुमार त्यागी, इन्फैन्ट्री  |
| 44670 राजेन्द्र प्रसाद, ईएमई                    | 44710 जगदीश सिंह सलारिया, इन्फैन्ट्री    |
| 44671 प्रशांत कुमार दास, इन्फैन्ट्री            | 44711 विजेन्द्र सिंह अहलावत, एओसी        |
| 44672 तरुण मदन, ईएमई                            | 44712 देवेन्द्रा सिंह, जैग               |
| 44675 हरि सिंह, एडीए                            | 44713 एस एन शास्त्री, सिग्नल्स           |
| 44676 सुशील कुमार, इन्फैन्ट्री                  | 44714 योगेन्द्र सिंह गहलौत, एओसी         |

- 44715 परमदीप थापा, मैक इन्फैन्ट्री  
 44716 अजय सिंह खत्री, इन्फैन्ट्री  
 44718 बिप्रा दास साहा, आर्टी  
 44720 राजबीर सिंह खोंगरोट, इन्फैन्ट्री  
 44721 अमरनाथ विजयन, इन्फैन्ट्री  
 44722 अनिल कुमार नायर, सिग्नल्स  
 44723 गैरी पीटर रौट, इन्फैन्ट्री  
 44724 सुधीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44725 पियूष बोहरा, एओसी  
 44727 जॉन लुइस राज, इन्फैन्ट्री  
 44728 अनिल दास, इन्फैन्ट्री  
 44730 सदीप दिवान, एसी  
 44731 सुखादेव राठौर, एसी  
 44732 श्रीकांता बनर्जी, इन्फैन्ट्री  
 44733 सुशीम सिन्हा, ईएमई  
 44735 विजय पाल सिंह नेगी, एओसी  
 44737 अभिराम चन्द्रा मिश्रा, सिग्नल्स  
 44739 दिनेश मौर, इंजीनियर्स  
 44741 संजय बक्शी, एसी  
 44742 गौतम कुमार देब, एओसी  
 44743 राकेश कुमार गौतम, इन्फैन्ट्री  
 44744 विनय कुमार वर्मा, सिग्नल्स  
 44745 विक्रम भसीन, इन्फैन्ट्री  
 44746 रजनीश कुमार ककरिया, ईएमई  
 44747 संजीव मेहरा, इन्फैन्ट्री  
 44748 अनिल कुमार रावत, ईएमई  
 44750 राज सिंह मान, इंजीनियर्स  
 44751 महावीर सिंह रावत, एएससी  
 44752 जय सिंह हाड़ा, इन्फैन्ट्री  
 44753 नरेन्द्रा सिंह झाला, एसी  
 44754 प्रदीप कोटनाला, इन्फैन्ट्री  
 44755 राकेश सिरकर, इन्फैन्ट्री  
 44756 भीम शंकर हिप्पारगी, इन्फैन्ट्री  
 44757 श्रीकुमार जी कारथा, इन्फैन्ट्री  
 44758 राजेश जैन, सिग्नल्स  
 44759 सुधाकर बाबू थोटा, एसी  
 44760 कालाधील दिनेश, इन्फैन्ट्री  
 44761 शक्ति प्रसाद कौशल, एएससी  
 44762 संजय नेवार, इन्फैन्ट्री  
 44763 प्रवीन कुमार, ईएमई  
 44764 जतीन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44765 जतीन्दर सिंह, जैग  
 44767 नरीन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 44768 अरुण कुमार कोहली, ईएमई  
 44769 रमेश प्रसाद शर्मा, सिग्नल्स  
 44770 दिनेश कुमार अहलुवालिया, जैग  
 44771 संजीव लामा, एसी  
 44773 जैकब प्रेम कुमार कोट्टी, एसी  
 44774 विजय खन्ना, इन्फैन्ट्री  
 44775 संजीव बनर्जी, ईएमई  
 44776 अराना प्रसाद एस, आर्टी  
 44777 अतुलेश शरण माथुर, इंजीनियर्स  
 44778 अजय संदीप, एसी  
 44779 प्रवीन चन्द्रा पाठक, इन्फैन्ट्री  
 44780 रवि महान कपूर, सिग्नल्स  
 44781 डी के दूबे, इन्फैन्ट्री  
 44782 कार्तिक कुमार राजवंशी, जैग  
 44783 सुतानु आचार्य, ईएमई  
 44784 विष्णु दास चन्द, इन्फैन्ट्री  
 44785 नाजिम रिआजुद्दीन सैय्यद, एसी  
 44787 विपिन चक्रावती, जैग  
 44788 नाथानील किस्टोफर आइजक, ईएमई  
 44789 अनिलेन्द्र नाथ सेन, इन्फैन्ट्री

--16 दिसम्बर 2004

स्थाई कमीशन (एस एल)

मेजर से ले. कर्नल

एस एल नं., नाम, आर्म

03691 वेंकटनारायण सुब्बा कृष्ण, एसएलबीआर

03694 सुखदेव राजथंड, एसएलबीआर

03695 महिपाल सिंह, एसएलक्यूएम

|  |   |
|--|---|
| 03696 लक्ष्मणन वेलीकाथ, एसएलबीआर         | 03741 कलमकर विश्वानाथन तुलसीराम, एसएलसीआईपी |
| 03697 सुभाष कुमार, एसएलबीआर              | 03742 कुंजु कुंजूजॉन, एसएलसीआईपी            |
| 03698 तेज भान, एसएलबीआर                  | 03743 थॉमस कुट्टी असारी, एसएलसीआईपी         |
| 03700 गणेश नाथ भंडारी, एसएलटीओटी         | 03744 शीस राम यादव, एसएलसीआईपी              |
| 03702 झीरमल जीत सिंह, एसएलटीओटी          | 03745 भरत सिंह, एसएलसीआईपी                  |
| 03703 देवेन्द्र सिंह, एसएलटीओटी          | 03746 निखिल चन्द्र देओघारिया, एसएलक्यूएम    |
| 03705 प्रभाकर दास, एसएलटीओटी             | 03747 ओंकार नाथ तिवारी, एसएलआरओ             |
| 03707 मोहम्मद माकूब, एसएलआई              | 03750 पीआरालाल चौधरी, एसएलआरओ               |
| 03708 राम दास, एसएलएपीटीसी               | 03752 लेहना सिंह, एसएलआरओ                   |
| 03709 चैन सिंह, एसएलआई                   | 03755 सीतारमैया नगुला, एसएलआई               |
| 03710 कानचिरित मेथ्यू कोशी, एसएलटीओटी    | 03756 गंगा लाल रायर, एसएलआरओ                |
| 03712 भूपीन्द्र सिंह चन्देल, एसएलआई      | 03757 पीआरा सिंह, एसएलक्यूएम                |
| 03714 राधा रमन श्रीवास्तवा, एसएलटीओटी    | 03758 प्रदीप कुमार हलदर, एसएलआरओ            |
| 03716 विनायक महादेव तोशर, एसएलक्यूएम     | 03759 गोविन्दा नारायण सामी, एसएलआरओ         |
| 03717 भोला दत्त बर्शिलिया, एसएलएओ        | 03760 पुन्दलीकप्पा मेदर, एसएलआई             |
| 03718 चन्दर पाल सिंह सिवाच, एसएलआई       | 03762 कमन सिंह गुरुंग, एसएलटीईओ             |
| 03719 कर्ण प्रकाश राय, एसएलक्यूएम        | 03764 राम प्रसाद दिमरी, एसएलक्यूएम          |
| 03720 रायप्पन अरोकिया सामी, एसएलटीओटी    | 03765 दीना नाथ शर्मा, एसएलआरओ               |
| 03721 अभिलाश सिंह, एसएलटीओटी             | 03766 हरमेश सिंह, एसएलआरओ                   |
| 03722 संतोष राज, एसएलआई                  | 03768 चन्द्रन के वी, एसएलक्यूएम             |
| 03723 सम्बासिवन पिल्लई एस, एसएलएआरसी     | 03769 बाबर शीवाजी श्रीपति, एसएलएपीटीसी      |
| 03724 भीम बहादुर, एसएलक्यूएम             | 03770 नरीन्द्र सिंह, एसएलक्यूएम             |
| 03725 शिन्दे सुरेश बलवंत रॉव, एसएलक्यूएम | 03771 रतन सिंह, एसएलक्यूएम                  |
| 03726 नटची मुथु सक्थीवेल, एसएलटीओटी      | 03772 भागा राम क्षरंग, एसएलआरओ              |
| 03727 गुरबचन सिंह तुंग, एसएलआई           | 03773 मुखतियार सिंह मान, एसएलआरओ            |
| 03729 चारु कुट्टी बी, एसएलआई             | 03774 सुभाष चन्द, एसएलआरओ                   |
| 03730 श्रवन कुमार, एसएलटीईओ              | 03775 श्रीधरन वी, एसएलआरओ                   |
| 03731 राम लाल राम, एसएलआई                | 03776 ओमबीर सिंह ढाका, एसएलटीओओ             |
| 03732 सोम नाथ, एसएलआई                    | 03777 राम दास भारद्वाज, एसएलआरओ             |
| 03733 मुरलीधरन टी, एसएलआई                | 03779 शिव कुमार शर्मा, एसएलआरओ              |
| 03736 जगमल सिंह, एसएलआई                  | 03780 गुरमीत सिंह, एसएलआरओ                  |
| 03737 प्रेम सिंह, एसएलसीआईपी             | 03781 तरलोक सिंह बाजवा, एसएलक्यूएम          |
| 03738 वालिवावट्टिल थॉमस जॉय, एसएलसीआईपी  | 03782 ससि कुमार के एन, एसएलआरओ              |
| 03739 गणेश दत्त जोशी, एसएलसीआईपी         | 03783 एस चेलप्पा, एसएलआरओ                   |
| 03740 शमशेर सिंह, एसएलसीआईपी             | 03784 मोहन सिंह वाल्मिद्या, एसएलआरओ         |

03785 मन मदन नायर पी, एसएलआरओ  
 03786 सुरजपाल सिंह शेखावत, एसएलएपीटीसी  
 03787 प्रदीप कुमार दास गुप्ता, एसएलआरओ  
 03789 पार्थ मजुमदार, एसएलआरओ  
 03791 रामेश्वर सिंह मानु सिंह बुनदेला, एसएलक्यूएम  
 03792 विजयन पिल्ले एन, एसएलक्यूएम  
 03793 अवतार सिंह मिनहास, एसएलक्यूएम  
 03795 रमेश चन्द्र, एसएलआरओ  
 03796 जोगिन्द्र सिंह वर्मा, एसएलआरओ  
 03797 यादराम सिंह यादव, एसएलआरओ  
 03798 चन्द्र शेखरन पिल्लई प्रभाकरन पिल्लई, एसएलएई  
 03800 हुकम सिंह, एसएलएई  
 03801 संजय कुमार मंडल, एसएलएई  
 03802 ध्यान चन्द्र वर्मा, एसएलएई  
 03804 ससिधरन एम के, एसएलएई  
 03808 अजीत सिंह, एसएलएई  
 03809 आशोक कुमार हट्टुआ, एसएलएई  
 03810 भीड़े सुनील वासुदेव, एसएलएई  
 03811 बलकार सिंह विर्क, एसएलएई  
 03812 सतेन्द्र नारायण सिंह, एसएलएई  
 03813 जगजीत सिंह, एसएलएई  
 03814 भवन कुमार, एसएलएई  
 03815 मेहर सिंह, एसएलएई  
 03817 सतनाम सिंह, एसएलएई  
 03819 सोनारा वसंत, एसएलएसए  
 03821 ओम प्रकाश अवस्थी, एसएलएसए  
 03822 जय प्रकाश सिंह, एसएलएसए

03823 संध्या दत्त, एसएलएसए  
 03824 उमेश पाल रामपाल, एसएलईएम  
 03826 प्रफुल्ल कुमार पाल, एसएलएसए  
 03827 राजेश कुमार शर्मा, एसएलएसए  
 04300 ए के डे, एसएलएपीटीसी

--16 दिसम्बर 2004

अजय गोयल,  
 उप निदेशक  
 एमएस 8

-----  
 सेना सचिव शाखा

सं. 388, दिनांक 11 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति, सहर्ष जनरल निर्मल चंदर विज, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम (आई सी 13710) को 31 जनवरी 2005 (अपराह्न) से 61-कवेलरी के कर्नल और ब्रिगेड्स ऑफ गार्ड्स के ऑनरेरी कर्नल के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

एन मारियप्पन  
 संयुक्त निदेशक/एम एस (X)

-----  
 सेना शाखा

सं. 389, दिनांक 12 जुलाई 2005.--निम्नलिखित अधिकारी को जी ओ सी-इन-सी, सेन्ट्रल कमांड द्वारा अग्रलिखित सजा दी गई है :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आई सी नं., नाम, आर्म

56721 ले. चेरुकुरी रामा राव, आर्टी

(ए) सेवा से निष्काषित किया जाए

--23 फरवरी 2004

अजय गोयल  
 उप निदेशक  
 एम एस 8-सी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd June 2005

## OFFICE OF JS (T) &amp; CAO

No. 382, dated 6th July 2005.—The President is pleased to appoint the undermentioned Section Officers (Group 'B' Gazetted) in a substantive capacity in the Armed Forces Headquarters Civil Service with effect from the date shown against their names:—

| Name               | Date of Birth | Present Office        | Date of RFP/Confirmation |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| S/Shri BM Nagaraju | 05.04.1968    | Air HQ                | 05 Feb 2005              |
| Anil Kumar Sah     | 05.08.1971    | MGO                   | 19 Dec 2004              |
| L Balaji Sarvanan  | 02.06.1974    | PTC (ATVP), Kalpakkam | 01 Nov 2004              |
| Dr. S. K. Saxena   | 06.03.1978    | NDC                   | 15 Jan 2005              |
| T Uniel Kichu AO   | 21.01.1977    | GS                    | 18 Dec 2004              |
| Vikas Kumar Jeph   | 22.05.1978    | Air HQ                | 28 Feb 2005              |

V K MISHRA  
Dy. Chief Administrative Officer (Pers)

## (ARMY BRANCH)

No. 383, dated 12th July 2005.—The President is pleased to make the following appointments.

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

The undermentioned JCOs/NCOs are granted Permanent Commission Special List (PC/SL) in the categories as shown against their names in the rank of Lt under the provisions of AI 85/74 with effect from 03 Jul 2004 (FN) as per inter-seniority given below. JCOs mentioned in this Gazette having eight years combined service as JCO and in the ranks at the time of grant of Commission are also granted two years ante-date seniority for pay only under the provisions of sub para 7(c) of AI 85/74:—

Army No., Rank, Name, SI No., Previous Arm/Service and Category

JC-177193A Sub Maj R Sengottuvel (4773X), Engrs—AEE B/R/ASW

JC-186178M Sub Pramod PR (4774A), Engrs—AEE E/M/EM

JC-207603H Sub B Jayasankaran (4775HA), Engrs—AEE B/R/ASW

JC-199928Y Sub Gursewak Singh (4770L), Engrs—AEE B/R/ASW

JC-199980F Sub Bhosale Shashikant Kundlik (4777N), Engrs—AEE B/R/ASW

JC-305550L Sub Biju S (4778W), Engrs—AEE B/R/ASW

JC-207626K Sub Jaideep Kumar Rawat (4779Y), Engrs—AEE B/R/ASW

JC-834095W Sub Kirtan Singh (4780N), APS—RO

JC-325683H Sub Sanjeeva Kumar (4781W), Engrs—AEE E/M/EM

JC-810365K N/Sub Bharat Bhushan Chauhan (4782Y), INT—RO

JC-372156M N/Sub Madan Gopal Kumawat (4783F), Signals—TOT

JC-829197L N/Sub Ajaya Kumar Karn (4784K), PNR—RO

JC-372845X N/Sub Thomas PK (4785M), Signals—TOT

JC-373418K N/Sub Paul Varughese (4786P), Signals—TOT

JC-374438K N/Sub D Rajesh (4787X), Signals—TOT

JC-756576W N/Sub Vikram Gaikwad (4788A), EME—EMAE

JC-265221K N/Sub Hans Raj (4789H), Arty—TEO (Arty)

JC-330178K N/Sub Katekar Mahadeo Laxman (4790X), Engrs—AEE E/M/EM

JC-643121M Nb/Sub Anil Kumar (4792H), ASC (Sup)—RO

JC-NYA-1576783W N/Sub Gurdev Singh (4791A), Engrs—AEE B/R/ASW

14396595M Hav Aftab Ahmad (4793L), Arty—RO

15357854K Hav K Upendra Varma (4794N), Signals—Cipher Offr

8030431Y Hav Govindan Kutty Nair (4795W), PNR—RO

6827446A Hav Ishwar Singh (4796Y), AOC—RO

6924396P Hav G. Vetrivel (4797F), AOC—ICO

14380228W Hav Arjun Singh (4798K), ASC (Sup)—RO

6387172M Hav Sree Kumar VR (4799M), ASC (Sup)—RO

13973552M Hav M Manivannan (4800W), ASC (Sup)—RO

6933446W Hav Hari Kumar PV (4802F), ASC (Sup)—RO

6382807W Hav Haridasan Edalath (4803K), ASC (Sup)—RO

2987370W Hav Harjinder Singh (4804M), Rajput—RO

14589755H Hav Johny PK (4805P), EME—RO

6387392W Hav Ajitha B K (4806X), ASC (Sup)—RO

1089798P Hav Jitendra Singh (4807A), ARMD—RO

6929396Y Hav Patil Rajkumar Dattaram (4808H), AOC—  
ICO

6929402F Hav Radhakrishna Pillai KV (4809L), AOC—  
ICO

14559289K Hav Sukumaran P (4810A), EME—RO

6387563X Hav Pradeep Kumar (4811H), ASC (Sup)—  
RO

15309973H Hav K Unnikrishnan (4817K), Engrs (Meg)—  
RO

6388873P Hav Poly Abraham (4812L), ASC (Sup)—RO

15309303F Hav Carlton Daniel (4813N), Engrs (Meg)—  
BSTE0

6389454K Hav Pritipal Singh Rawat (4814W), ASC  
(Sup)—RO

13693244P Hav Dharendra Kumar Singh (4815Y),  
Guards—RO

6934691L Hav Deepak Sharma (4816F), AOC—RO

1572431F NK Vijay Kumar Atri (4818M), Engrs (Beg)—  
AEE E/M/IEM

6391200L NK Rakesh Kumar (4819P), ASC (Sup)—RO

#### SPECIAL COMMISSION

The undermentioned NCOs are granted Special Commission in the Arms/Services as shown against their names in the rank of LT under AI 5/97 with effect from 10 Dec 2004 as per inter-se-seniority given below:—

IMA No., Army No., Parent Arm, Name, SCO No. and Arm/  
Service allotted

S/522 13618590K (Inf) Durga Chettri, SC-00467L—Inf

S/525 2683054F (Inf) Sunil Dutt Yadav, SC-00468N—  
AOC

S/511 9512625X (AEC) Rajender Saini, SC-00469W—  
Arty

S/534 9512468W (Engrs) Rajendra Singh Rawat, SC-  
00470L—EME

S/529 15381808N (Sigs) Dinesh Kumar Jaiswal, SC-  
00471N—Sigs

S/524 9512141X (AEC) Sreekumaran Pillai B, SC-  
00472W—AD Arty

S/521 14614518M (EME) Randhir Satishkumar Devram,  
SC-00473Y—Mech

S/533 15376085A (Int) Rajeshwar Jaswal, SC-00474F—  
Sigs

S/532 9512436N (Engrs) Bhupendra Singh, SC-  
00475K—Engrs

S/531 15376194M (Sigs) Devi Prasad SM, SC-00476M—  
AC

S/528 15374820M (Sigs) Anil Kumar P, SC-00477P—  
Arty

S/530 9512155X (Engrs) Parma Nand Sharma, SC-  
00478X—Engrs

S/527 15370860W (Sigs) L Desingh, SC-00479A (Arty)

S/512 14403858L (Arty) Ramesh Kumar, SC-00480P—  
Arty

S/523 14604472F (EME) Vanamala Krishna, SC-  
00481X—EME

S/526 6387341H (ASC) Madhusoodanan K, SC-  
00482A—ASC

S K SHARMA  
Lt. Col.  
AMS-8B

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 384, dated 11th July 2005.—The President is pleased to appoint Gen JJ Singh, PVSM, AVSM, VSM, ADC (IC-16078) as Colonel of 61 Cavalry, Honorary Colonel of Brigade of Guards and Honorary Colonel of Rashtriya Rifles with effect from 01 Feb 2005 (FN).

N MARIAPPAN  
Jt. Dir./MS (X)

#### ARMY BRANCH

##### REGULAR ARMY

##### ARMY SERVICE CORPS

##### (ANIMAL TRANSPORT)

No. 385, dated 6th July 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Substantive Risaldar (ASH)

Nb Ris Jaga Ram (JC-680454W), 20 Apr 2005/01 Jan 2004\*

Nb Ris Krishana Prasad Singh (JC-680516L), 01 May 2005/01 Mar 2004\*

Nb Ris C S Murthi (JC-680543P), 09 Feb 2005/01 Jan 2005\*

Nb Ris Ram Niwas Yadav (JC-680551N), 04 May 2005/  
01 Jan 2005\*

Nb Ris Paras Nath Yadav (JC-680564L), 01 Apr 2005

Nb Ris Sheo Murat (JC-680566W), 01 Apr 2005

Nb Ris S K Mishra (JC-680570Y), 02 May 2005/01 May 2005\*

Nb Ris Chiranji Lal (JC-680571F), 02 May 2005/01 May 2005\*

Nb Ris Om Prakash Singh (JC-580672K), 02 May 2005/  
01 May 2005\*

Nb Ris Kuttian T (JC-680573M), 01 May 2005

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces  
wef).

To be Substantive Naib Risaldar (ASH/AT)

Dfr Geetam Singh (No. 6471441Y now JC-680764F), 05  
Apr 2005/01 Jan 2005\*

Dfr A B Khot (No. 6472190M now JC-680768X), 01 Apr  
2005/01 Jan 2005\*

Dfr Uma Shankar (No. 6471944K now JC-680769A), 12  
Apr 2005/01 Jan 2005\*

Dfr Nandji Tiwari (No. 6470787W now JC-680770P), 01  
Apr 2005/01 Feb 2005\*

Dfr Thomas M S (No. 6470826K now JC-680771X), 19  
Apr 2005/01 Mar 2005\*

Dfr Shiv Shankar Prasad (No. 6471684K now JC-  
680775N), 04 Apr 2005/01 Mar 2005\*

Dfr Jagat Singh (No. 6471734K now JC-680776W), 01  
Apr 2005/01 Mar 2005\*

Dfr Saubaran Singh (No. 6471709N now JC-680777Y),  
23 Apr 2005/01 Apr 2005\*

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces  
wef).

To be Naib Subedar : (MT)

Hav Meri Lal (13878289K now JC-662875W), 16 Sep  
2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Anil Kumar Tyagi (13879255A now JC-662876Y),  
16 Sep 2004\*

Hav Paltan Singh (13878149P now JC-662877F), 03 Aug  
2004\*

Hav Bikram Singh (13874942M now JC-662878K), 12  
Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Satbir Singh (13878336K now JC-662879M), 01  
Jun 2004

Hav Om Pratap Singh Rawat (13876950K now JC-  
662880F), 27 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jun 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Ram Mehar (13882428X now JC-662881K), 14 Jul  
2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Suresh M (14814934A now JC-662882M), 06 Sep  
2004\*

Hav Krishan Pal Sharma (13879254X now JC-662883P),  
28 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Baleshwar Yadav (1386459P now JC-662884X), 01  
Aug 2004

Hav Rama Nand Pandey (13874923F now JC-662885A),  
23 Aug 2004\*

Hav Manjur Ansari (13875854H now JC-662886H), 16  
Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Karakara Manasukh Premaji (13881131K now JC-  
662887L), 01 Aug 2004

Hav Bajrang Bali (13881141N now JC-662888N), 14 Sep  
2004\*

Hav Pratap Kumar Dutta (13877661F now JC-662889W),  
04 Oct 2004\*

Hav Prasanta Kumar Talukdar (13882781K now JC-  
662890L), 22 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Pramod Kishore Nayak (13878712X now JC-  
662891N), 01 Aug 2004

Hav Om Prakash (13878906P now JC-662892W), 01 Aug  
2004

Hav Arun Kumar Awasthi (13881406M now JC-662893Y),  
01 Aug 2004

Hav Satnam Singh (13878081K now JC-662894F), 01  
Sep 2004

Hav Madan Choubey (13880698N now JC-662895K),  
15 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Member Khan (13882487K now JC-662896M), 01  
Sep 2004

Hav Hira Prasad Rai (1387772K now JC-662897P), 29  
Sep 2004\*

Hav Md Nabiul Islam (13865545M now JC-662898X),  
25 Sep 2004\*

Hav Ram Chander Singh Chouhan (13877155W now JC-  
662899A), 11 Sep 2004\*

Hav Ramadhar Dass (13880421P now JC-662900K), 16 Sep 2004\*

Hav G C Baruah (13880643K now JC-662901M), 17 Sep 2004\*

Hav Chandra Prakash Pandey (13879360W now JC-662902P), 01 Sep 2004\*

Hav Rajeshwar Sharma (13882996L now JC-662903X), 22 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Suresh Pandey (13879404H now JC-662904A), 01 Sep 2004

Hav Tara Chand (13879437N now JC-662905H), 16 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Bhadra Pandey (13884113M now JC-662969N), 29 Nov 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Brij Kumar Mishra (13882124A now JC-662934X), 29 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Amba Dutt (13865028P now JC-662935A), 12 Nov 2004\*

Hav Dulal Chandra Barman (13875597W now JC-662936H), 9 Oct 2004\*

Hav Tapan Kumar Bera (13882694W now JC-662937L), 16 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Avtar (13876978A now JC-662938N), 01 Aug 2004

Hav Shaji Kumar KB (13882559H now JC-662939W), 17 Oct 2004\*

Hav Daya Shankar Singh (13877242K now JC-662940L), 22 Sep 2004\*

Hav Raveendran Pillai R (13883036M now JC-662941N), 01 Oct 2004\*

Hav Ram Singh (13879413K now JC-662942W), 04 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Rameshwar Singh (13864696Y now JC-662943Y), 28 Dec 2004\*

Hav Bijoy Kumar Das (13864901P now JC-662944F), 28 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Asif Ali (14814928M now JC-662945K), 25 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Oct 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Ajab Singh (13880671W now JC-662946M), 22 Dec 2004\*

Hav Rajesh Kumar Shukla (13881413H now JC-662947P), 27 Dec 2004\*

Hav Jagdamba Singh (13881840Y now JC-662948X), 24 Dec 2004\*

Hav Vijai Bahadur (13877925M now JC-662949A), 31 Dec 2004\*

Hav Jiyan Lal (13882190K now JC-662950P), 25 Dec 2004\*

Hav Rajesh Chander (13865245L now JC-662951X), 17 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Umesh Bora (13883046A now JC-662952A), 29 Dec 2004\*

Hav Bhagwan Singh (13883130N now JC-662953H), 28 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Ravindra Pandey (13883226H now JC-662954L), 01 Nov 2004\*

Hav Parashu Ram Tripathi (13883222M now JC-662955N), 25 Dec 2004\*

Hav Avtar Singh (13879756A now JC-662956W), 03 Jan 2004\*

Hav Timkare Mahhinder Vithoba (13879783K now JC-662957Y), 21 Dec 2004\*

Hav Narayan Singh (13879807H now JC-662958F), 27 Dec 2004\*

Hav Brijpal Singh (13883529X now JC-662959K), 23 Dec 2004\*

Hav Sheikh Areef Basha (13879815F now JC-662960Y), 23 Dec 2004\*

Hav Babu Lal Sah (13883512K now JC-662961F), 22 Dec 2004\*

Hav Om Prakash Ray (138833533A now JC-662962K), 28 Dec 2004\*

Hav Nirmal Kumar Rai (13883550A now JC-662963M), 25 Dec 2004\*

Hav Prema Rajan CC (13883620N now JC-662964K), 23 Dec 2004\*

Hav Meghnad Saha (13884062K now JC-662965X), 24 Dec 2004\*

Hav Surendra Singh Yadav (13884194X now JC-662966A), 10 Jan 2005\*

Hav Lal Man (13884145P now JC-662967H), 07 Jan 2005\*

Hav Awadhesh Narayan Pathak (13883451X now JC-662968L), 31 Dec 2004\*

Hav Shankar Dayal Yadav (13883843L now JC-662970H), 23 Dec 2004\*

Hav Tej Singh (13883922A now JC-662971L), 22 Dec 2004\*

Hav Dev Lal (13883935X now JC-662972N), 30 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Pratap Chouhan (13883956N now JC-662973W), 01 Dec 2004

Hav Nani Gopal Kar (13884326Y now JC-662974Y), 01 Jan 2005\*

Hav Vijaya Singh (13883977K now JC-662975F), 01 Jan 2005\*

Hav Padam Singh (13883987N now JC-662976K), 25 Dec 2004\*

Hav Mahendar Lal (13884413N now JC-662977M), 01 Dec 2004\*

Hav Anil Kumar Pandey (13884408H now JC-662978P), 22 Dec 2004\*

Hav Jegdev Singh (13888029K now JC-662979X), 27 Dec 2004\*

Hav Nasresh Kumar (13884507L now JC-662980M), 21 Jan 2005\*

Hav Kalandi Charan Das (13888066X now JC-662981P), 19 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Ramesh Kumar Jha (13884888X now JC-662982X), 01 Jan 2005\*

Hav Raju Ganesh Mishram (13888492L now JC-662983A), 22 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ningthoujam Ingocha Singh (14814936L now JC-663101A), 07 Feb 2005\*

Hav Balender (13883051Y now JC-663102H), 29 Dec 2004\*

Hav Vinod Kumar Daudiyal (13883062K now JC-663103L), 09 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Banke Lal (13879562X now JC-663104N), 12 Mar 2005\*

Hav Asutosh Ganguly (13882147F now JC-663105W), 11 Feb 2005\*

Hav Ram Dev (13883511F now JC-663106Y), 14 Feb 2005\*

Hav Rukam Pal Singh (13883933M now JC-663108F), 04 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Kameshwar Singh (13888756F now JC-663109K), 01 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sobaran Singh (13884508N now JC-663110F), 01 Dec 2004

Hav Om Prakash (13888057W now JC-663111K), 28 Jan 2005\*

Hav Ram Sabad (13888094K now JC-663112M), 02 Mar 2005\*

Hav Sunil Dutt (13888151A now JC-663113P), 28 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Mahesh Chandra Upadhyay (13884578M now JC-663114X), 20 Jan 2005\*

Hav Madho Singh (13888164X now JC-663115A), 04 Feb 2005\*

Hav Shiv Shankar Sah (13884542N now JC-663116H), 27 Jan 2005\*

Hav Satish Kumar (13884540H now JC-663117L), 29 Jan 2005\*

Hav Ram Govind Singh (13884607W now JC-663118N), 03 Feb 2005\*

Hav R Tikaram Sekar (13884635H now JC-663119W),  
28 Jan 2005\*

Hav Sushil Kumar (13888343X now JC-663120L), 27  
Jan 2005\*

Hav Sube Singh (13884795H now JC-663121N), 28 Jan  
2005\*

Hav Nivas Singh (13884869M now JC-663122W), 12  
Feb 2005\*

Hav Shiv Kumar Singh (13888501F now JC-663123Y),  
01 Jan 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Joginder Pal (13884999P now JC-663124F), 18 Feb  
2005\*

Hav Virjesh Prasad Singh (13888671L now JC-663125K),  
01 Feb 2005

Hav Pillai Valkunta Rao (13888685L now JC-663126M),  
01 Feb 2005

Hav Virendra Kumar (13888678P now JC-663127P), 01  
Feb 2005

Hav Jaya Krishna Sahu (13885169L now JC-663128X),  
01 Feb 2005

Hav Kirpal Singh (13888853Y now JC-663129A), 01 Feb  
2005

Hav Tamada Babu Rao (13885250X now JC-663130P),  
07 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Ram Sharan (13888449K now JC-663131X), 07 Mar  
2005\*

Hav Uday Narayan Goswami (13885449Y now JC-  
663132A), 01 Mar 2005

Hav Mahender Chaudhary (13885577W now JC-  
663133H), 11 Mar 2005\*

Hav Ram Autar Singh (13885587A now JC-663134A),  
02 Mar 2005\*

Hav Muchumarri Yesaiah (13889212Y now JC-663135N),  
02 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Koyya Nageshwar Rao (13879465A now JC-  
663143M), 22 Mar 2005\*

Hav Amar Bahadur Singh (13884162P now JC-663144P),  
01 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004  
without effect on pay & allowances).

Hav Hari Ram (13881527N now JC-663145X), 21 Mar  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jan 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Ram Pravesh Gupta (13888371K now JC-663146A),  
15 Mar 2005\*

Hav Sitaram Gurjar (13888377L now JC-663147H), 22  
Mar 2005\*

Hav Ram Shankar (13888403F now JC-663148L), 23 Mar  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Gopal Krishna Polai (13884977W now JC-  
663149N), 05 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Jagdish Prasad (13889089L now JC-663150H), 01  
Mar 2005

Hav Shish Ram (13888989H now JC-663151L), 30 Mar  
2005\*

Hav Babu Lal (13885424M now JC-663152N), 01 Mar  
2005

Hav Chandra Charan Kakti (13885475A now JC-  
663153W), 29 Mar 2005\*

Hav Bhajan Lal (13885479W now JC-663154Y), 28 Mar  
2005\*

Hav Hari Ram (13885537P now JC-663155F), 13 Mar  
2005\*

Hav Shyama Kanta Agasti (13889192W now JC-  
663156K), 25 Mar 2005\*

Hav Maharaj Singh (13889200K now JC-663157M), 05  
Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005  
without effect on pay & allowances).

Hav Mukti Nath Singh (13885736H now JC-663158P),  
01 Apr 2005

Hav Durg Singh (13889520Y now JC-663159X), 01 Apr  
2005

Hav Raju Lal (13885953Y now JC-663160M), 01 Apr  
2005

Hav Ram Niwas Yadav (13885538X now JC-663161P),  
01 Apr 2005

Hav Mohan Lal (13886282M now JC-663162X), 01 Apr  
2005

Hav Shurya Prasad Sukal (13877788K now JC-663163A),  
01 Apr 2005

Hav Rajvir (13889673H now JC-663164H), 01 Apr 2005  
 Hav Sarata Kumar Biswal (13878675N now JC-663165L), 01 Apr 2005  
 Hav Harender Singh (13883486N now JC-663166N), 01 Apr 2005  
 Hav Asan Ali SK (13879098Y now JC-663167W), 01 Apr 2005  
 Hav Sachida Nanda Ray (13877774Y now JC-663168Y), 01 Apr 2005  
 Hav Khiali Ram (13884117H now JC-663169F), 11 Apr 2005\*  
 Hav Arun Kumar (13889690H now JC-663170W), 01 Apr 2005  
 Hav Lalit Mohan Biswal (13884687Y now JC-663171Y), 01 Apr 2005  
 Hav Amar Kumar Mondal (13896071X now JC-663172F), 04 Apr 2005\*  
 Hav Surendra Prasad (13883954H now JC-663173K), 08 Apr 2005\*  
 Hav Uday Roy (13882981A now JC-663174F), 01 Apr 2005  
 Hav Bal Ram (13885879H now JC-663175P), 01 Apr 2005  
 Hav Sabha Jeet (13865946Y now JC-663176X), 01 Apr 2005  
 Hav Suresh Bahu CH (13880774P now JC-663177A), 01 Apr 2005  
 Hav Mahipal Singh (13881616M now JC-663178H), 04 Apr 2005\*  
 Hav Ravinder Nath Giri (13878011A now JC-663179F), 01 Apr 2005  
 Hav Bothe Baban Shivram (13881735N now JC-663180A), 01 Apr 2005  
 Hav Nripen Kumar Hira (13878836L now JC-663181H), 19 Apr 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

## SUPPLY

To be Subedar : Clk (GD/SD)

Nb Sub Balachandran Nair B (JC-641993W), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Pushkar Singh (JC-642121A), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Mithilesh Singh Chauhan (JC-641995F), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Dhoom Singh (JC-642125W), 01 Apr 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Damodar Nayak (JC-642126Y), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Dinesh Kumar (JC-642130F), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Aravindakshan K (JC-642131K), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Bijan Hari Mandal (JC-642132M), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Bharvad Buta Bhai Dhula Bhai (JC-642133P), 01 May 2005  
 Nb Sub Horam Singh (JC-642134X), 01 May 2005  
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-642136H), 01 May 2005  
 Nb Sub Rishi Prakash Dahiya (JC-642137L), 01 May 2005  
 Nb Sub Shanker N (JC-642143Y), 01 May 2005  
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-642144F), 01 May 2005  
 Nb Sub Ramesh Rao Mohite GV (JC-642257K), 02 May 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allces).  
 Nb Sub Paras Nath Singh (JC-642147P), 01 May 2005  
 Nb Sub Hari Gopal Gautam (JC-642633M), 01 May 2005  
 Nb Sub Rama Moorthy V (JC-642150P), 01 May 2005  
 Nb Sub Ram Sewak (JC-642152A), 01 May 2005  
 Nb Sub Deepak Kumar Mishra (JC-642165X), 04 May 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allces).

To be Subedar : Personal Assistant

Nb Sub Rajesh Kumar Dhiman (JC-642617F), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Uma Kant Tiwari (JC-642423M), 09 May 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allces).  
 Nb Sub Raja Ram Ram (JC-642482Y), 02 May 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allces).  
 Nb Sub Shripal (JC-642483F), 01 May 2005  
 Nb Sub Raveendran Nair R (JC-642618X), 01 May 2005  
 To be Naib Subedar Clk (GD/SD)  
 Hav Vankar Naresh Kumar Ganesh Bhai (6384492W now JC-663182L), 11 Mar 2005\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allces).

Hav Asokan A (6384516P now JC-663183N), 01 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jan 2005 without effect on pay and allces).

Hav Jang Bahadur Singh (6376909W now JC-663184W), 01 Mar 2005

Hav Indramani Mallik (6376222M now JC-663185Y), 01 Mar 2005

Hav Kailash Chander Joshi (13880767Y now JC-663186F), 01 Apr 2005

Hav Sushil Kumar Mishra (13876801L now JC-663213A), 01 Apr 2005

Hav Sukhdev Patiyal (6376697W now JC-663214H), 25 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allces).

Hav Nihal Singh (13880967P now JC-663245H), 01 Apr 2005

Hav Birender Singh (6377066A now JC-663246L), 01 May 2005

Hav Rajendra Sada Shiv Bage (6376509K now JC-663247N), 01 May 2005

Hav Krishna Kumar Bakshi (6376996P now JC-663248W), 01 May 2005

Hav Rameshwar (6377071L now JC-663249Y), 01 May 2005

Hav Dwarika Singh (6376945F now JC-663250N), 01 May 2005

Hav Harish Chandra Mishra (6376579H now JC-663251W), 01 May 2005

Hav Narendra Mohan Sahu (6376380F now JC-663252Y), 01 May 2005

Hav Yashpaul Singh (6376949X now JC-663253F), 01 May 2005

Hav Pramod Kumar Singh (6377087W now JC-663254K), 01 May 2005

Hav Subhash Chander (6377091Y now JC-663255M), 01 May 2005

Hav Dharam Singh (6377106W now JC-663256P), 11 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allces).

Hav Rabindra Kumar Champati (6377109K now JC-663257X), 01 May 2005

Hav Adi Ram (6377124Y now JC-663258A), 01 May 2005

Hav Bachu Singh (6377138Y now JC-663259H), 01 May 2005

Hav S Bagavathi (6377142F now JC-663260X), 01 May 2005

Hav Shakin Singh (6377143K now JC-663261A), 01 May 2005

Hav Uma Shankar Verma (6377178A now JC-663262H), 01 May 2005

Hav Gajendra Singh (6377205Y now JC-663263L), 01 May 2005

Hav Dinesh Singh (6377220N now JC-663264N), 01 May 2005

Hav Dilip Kumar Das (6377438A now JC-663265W), 01 May 2005

To be Naib Subedar Personal Assistant

Hav Ramphal Dhillon (1469925L now JC-663187K), 01 Apr 2005

Hav S Rajendran (6378583K now JC-663188M), 01 Apr 2005

Hav Umed Singh (6377120H now JC-663212X), 01 Mar 2005

Hav Jitendra Kumar Mishra (6376520H now JC-663266Y), 01 May 2005

Hav Rajender Yadav (14476876W now JC-663267F), 01 May 2005

Hav Mohana Krishnan M (3176840L now JC-663268K), 01 May 2005

Hav Tekaman Ram (2474045P now JC-663269M), 01 May 2005

Hav Madan Singh Dhadwal (13742941F now JC-663270F), 01 May 2005

Hav Shridhar Armugaum Velle Achary (14552864X now JC-663271K), 13 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allces).

Hav Shri Krishan Verma (6377067M now JC-663272M), 01 May 2005

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

Hav Bindhyachal Singh (14372403L now JC-299187F), 01 Mar 2005

Hav Bishambar Dayal (14372409M now JC-299188K), 01 Mar 2005

Hav Suresh Kumar (14372448L now JC-299189M), 01 Apr 2005

Hav Rameshwar Dayal (14479107X now JC-299190F), 01 Apr 2005

Hav Shiv Pujan Mishra (14495599L now JC-299191K), 06 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Hav Tapan Kumar Mandal (14486266X now JC-299192M), 05 Apr 2005/01 Apr 2005\*

BHM Om Prakash Mourya (14487228N now JC-299193P), 07 Jan 2005/13 Nov 2004\*

Hav S Nagarajan (14376434H now JC-299194X), 31 Jan 2005/01 Dec 2005\*

BHM Ram Sajeewan (14368004K now JC-299195A), 14 Feb 2005/01 Jan 2005\*

BHM Lalita Singh Yadav (14361321H now JC-299196H), 28 Mar 2005/01 Jan 2005\*

Hav Sankara Narayanan KM (14376652F now JC-299197L), 02 Mar 2005/09 Jan 2005\*

BHM Rajendra Singh (14360527N now JC-299198N), 23 Feb 2005/06 Feb 2005\*

BHM Raghu Raj (14385756K now JC-299199W), 03 Mar 2005/01 Mar 2005\*

Hav Tej Bhan (14379308F now JC-299200A), 07 Mar 2005/01 Mar 2005\*

Hav Raj Kumar (14371536P now JC-299201H), 09 Mar 2005/01 Mar 2005\*

BHM Sube Singh (14354899H now JC-299202L), 16 Mar 2005/10 Mar 2005\*

BHM Jaspal Singh (14377581X now JC-299203N), 01 Apr 2005

BHM Naib Singh (14377572W now JC-299204W), 01 Apr 2005

Hav Bir Singh (14485323M now JC-299205Y), 01 Apr 2005

BHM Tek Bahadur Thapa (14474290F now JC-299206F), 19 Apr 2005/06 Jan 2005\*

Hav Mahendra Prasad Singh (14379165M now JC-299207K), 12 Apr 2005/26 Jan 2005\*

BHM Dharm Chand (14472586F now JC-299208M), 01 Feb 2005

Hav Virender Singh (14363728X now JC-299209P), 11 Apr 2005/26 Feb 2005\*

Hav Buddhi Prakash Varma (14347317P now JC-299210K), 01 Apr 2005

BHM Ram Swaroop (14359619N now JC-299211M), 01 Apr 2005

BHM Narayan Saikia (14366475Y now JC-299212P), 01 Apr 2005

Hav Biman Chandra Baruah (14358449H now JC-299213X), 12 Apr 2005/01 Apr 2005\*

RHM Mahendar Singh (14366525Y now JC-299214A), 19 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Hav Bhagmal (15109520N now JC-299215H), 19 Apr 2005/01 Apr 2005\*

RHM Umed Singh (14361763F now JC-299216L), 25 Apr 2005/01 Apr 2005\*

BHM Prakasan KK (14355116L now JC-299217N), 27 Apr 2005/05 Apr 2005\*

BHM Gurcharan Singh (14374020X now JC-299218W), 02 May 2005/10 Apr 2005\*

BHM Kalyan Singh (14367878L now JC-299219Y), 03 May 2005/01 May 2005\*

BHM Sant Ram (14376669P now JC-299220N), 03 May 2005/01 May 2005\*

\*(Gtd ante-date seniority wef)

M. M. SINGH  
Under Secy.

No. 386, dated 7th July 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav Jit Singh (4050764N now JC-841700K), 24 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Pahelwan Singh (2662144P now JC-841712Y), 02 Apr 2005\*\*

Hav Nathi Singh (4052177F now JC-841719H), 23 Mar 2005\*\*

Hav Bankim Chandra Sahoo (14217036P now JC-841720X), 11 Apr 2005\*\*

Hav Mana Bhaskaran (2564587A now JC-841729M), 07 Mar 2005\*\*

Hav Ramesh Chand (13675132M now JC-841733P), 14 Mar 2005\*\*

Hav Surjit Singh (13739435L now JC-841734X), 10 Mar 2005\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Rattan Singh (2973560X now JC-841736H), 15 Mar 2005\*\*\*

Hav OV Kurian (10289540M now JC-841737L), 14 Mar 2005\*\*\*

Hav Sukh Ram (13937580N now JC-841740L), 20 Apr 2005\*\*\*

Hav Gireesh Singh (9213257F now JC-841743Y), 23 Mar 2005\*\*\*

Hav Dhani Ram (11078459M now JC-841744F), 06 Mar 2005\*\*\*

Hav Min Bahadur Gurung (5341427M now JC-841747P), 12 Mar 2005\*\*\*

Hav Harka Bahadur Malla (5842069F now JC-841748X), 23 Mar 2005\*\*\*

Hav Golak Chandra Prusty (14290310K now JC-841749A), 02 Apr 2005\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Om Parkash (10361127P now JC-841754L), 12 Apr 2005\*\*\*\*

Hav Vasudevan (14310103F now JC-841757Y), 13 Apr 2005\*\*\*\*

Hav Rajendra Singh Tomar (1269085N now JC-841760Y), 30 Mar 2005\*\*\*\*

Hav Ramesh Chander (2870991K now JC-841761F), 20 Apr 2005\*\*\*\*

Hav Dev Raja Dalai (14513719K now JC-841768L), 24 Mar 2005\*\*\*\*

Hav Kedar Singh (6460836A now JC-841769N), 15 Apr 2005\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ummed Singh (2863152K now JC-841801X), 15 Mar 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Prabha T (10435660F now JC-841692W), 16 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Vijai Singh (4052298H now JC-841714K), 16 Mar 2005\*\*

Hav Ram Chander Dubey (6461820F now JC-841715M), 10 Mar 2005\*\*

Hav Jhantu Kumar Bera (13680151F now JC-841717X), 11 Mar 2005\*\*

Hav Gopal Singh (4171297K now JC-841721A), 29 Mar 2005\*\*

Hav Nand Lal (3971076H now JC-841723L), 10 Mar 2005\*\*

Hav Chiraunjee Lal (14508338Y now JC-841724N), 19 Mar 2005\*\*

Hav Bharat Singh (4058723Y now JC-841726Y), 21 Mar 2005\*\*

Hav Shiv Lal Singh Chauhan (10181333W now JC-841727F), 17 Mar 2005\*\*

Hav Radhakrishnan Unnithan C (2582250A now JC-841728K), 21 Mar 2005\*\*

Hav Ram Naresh Pal (10181492K now JC-841732M), 30 Mar 2005\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav A Raveendra Reddy (13676766P now JC-841741N), 28 Mar 2005\*\*\*

Hav M Raveendran (10289333A now JC-841742W), 09 Mar 2005\*\*\*

Hav Amar Chand (14215557K now JC-841745K), 07 Mar 2005\*\*\*

Hav Lal Chand (1258187H now JC-841746M), 15 Mar 2005\*\*\*

Hav Sugrib Singh (3972376W now JC-841753H), 08 Mar 2005\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Vijai Bahadur Sharma (14516581L now JC-841758F), 28 Mar 2005\*\*\*\*

Hav Mohan Singh (3363395H now JC-841763M), 15 Mar 2005\*\*\*\*

Hav Bachan Singh (4057747W now JC-841766A), 14 Mar 2005\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (Clk)

Hav (Clk) Udai Ram (2963880Y now JC-841752A), 01 Mar 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Sunil Prasad Sahi (13937244F now JC-841771L), 23 Mar 2005\*\*\*\*\*

Hav (Clk) Rajinder Singh Manhas (10196759P now JC-841772N), 21 Mar 2005\*\*\*\*\*

Hav (Clk) Parshotam Singh Pathania (10360780W now JC-841773W), 21 Mar 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Bachittar Singh (10313961W now JC-841796X), 11 Apr 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Sridhar Mohanty (13673013X now JC-841819N), 05 Apr 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav Moirengjam Ningthou Singh (4349321Y now JC-841688N), 20 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Ramachandran Achatpadi (10289119X now JC-841693Y), 11 Jan 2005\*\*

Hav Labhaya Ram (6458438A now JC-841694F), 20 Jan 2005\*\*

Hav Mumtaj Ali (10134320N now JC-841695K), 29 Dec 2004\*\*

Hav Jasmer Singh (11020548A now JC-841696H), 29 Dec 2004\*\*

Hav Lachhman Singh (10465098X now JC-841698X), 16 Dec 2004\*\*

Hav Janardan Singh (10181322K now JC-841699A), 23 Dec 2004\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clerk)

Hav/Clk Omkar Prasad Rastogi (7111299N now JC-841710N), 14 Dec 2004\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Kulkarni Subhash Tryambak (14328154X now JC-841751X), 16 Feb 2005\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

T. K. M. PILLAI  
Under Secy.

No. 387, dated 8th July 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive col (By Time Scale)

IC-27859H Lt Col JS Likhari, AC—16 Dec 2004

IC-30083L Lt Col Yash Ryan, AC—16 Dec 2004

IC-30091K Lt Col Devendar Singh, AC—16 Dec 2004

IC-30522L Lt Col Darab Singh, AC—16 Dec 2004

IC-31382W Lt Col NK Sachar, AC—16 Dec 2004

IC-31442A Lt Col Amit Verma, AC—16 Dec 2004

IC-31476N Lt Col NR Pawar, AC—16 Dec 2004

IC-31517M Lt Col BM Sarna, AC—16 Dec 2004

IC-31783L Lt Col S Mohanty, AC—16 Dec 2004

IC-33150W Lt Col Virender Singh, AC—16 Dec 2004

IC-34104N Lt Col PR Pal, AC—16 Dec 2004

IC-34195H Lt Col PK Dar, AC—16 Dec 2004

IC-34201L Lt Col Ravi Diwan, AC—16 Dec 2004

IC-34451M Lt Col Rachhpal Chand, AC—16 Dec 2004

IC-34626K Lt Col DD Sharma, AC—16 Dec 2004

IC-34950F Lt Col GPS Brar, AC—16 Dec 2004

IC-34984P Lt Col VD Arya, AC—16 Dec 2004

IC-35345A Lt Col Daljeet Singh, AC—16 Dec 2004

IC-35383W Lt Col RS Rajput, AC—16 Dec 2004

IC-35654H Lt Col SS Roy, AC—16 Dec 2004

IC-35711Y Lt Col Naveen Khullar, AC—16 Dec 2004

IC-36532L Lt Col RK Yadav, AC—16 Dec 2004

IC-36598F Lt Col KK Bhai, AC—16 Dec 2004

IC-36671P Lt Col GS Grewal, AC—16 Dec 2004

IC-36675L Lt Col PS Sandhu, AC—16 Dec 2004

IC-36727W Lt Col R Verma, AC—16 Dec 2004

IC-36806L Lt Col Arun Kumar, AC—16 Dec 2004

IC-37014X Lt Col PR Singh, AC—16 Dec 2004

IC-27396Y Lt Col Gopal Sharan, AD Arty—16 Dec 2004

IC-27654N Lt Col RS Kandola, AD Arty—16 Dec 2004

IC-27799Y Lt Col NM Kohli, AD Arty—16 Dec 2004

IC-27807M Lt Col CS Thakur, AD Arty—16 Dec 2004

IC-30045P Lt Col HN Chugh, AD Arty—16 Dec 2004

IC-30086Y Lt Col HGS Yadav, AD Arty—16 Dec 2004

IC-31158K Lt Col RS Salathia, AD Arty—16 Dec 2004

IC-31799W Lt Col DA Khan, AD Arty—16 Dec 2004

IC-33761L Lt Col Inder Mohan, AD Arty—16 Dec 2004

IC-34525W Lt Col Tejender Singh, AD Arty—16 Dec 2004

IC-35193K Lt Col JC Kakati, AD Arty—16 Dec 2004

IC-36811W Lt Col Prabhat Kapoor, AD Arty—16 Dec 2004

IC-36837L Lt Col KK Sharma, AD Arty—16 Dec 2004

IC-37120W Lt Col AK Chand, AD Arty—16 Dec 2004

IC-30623Y Lt Col RS Yadav, AEC—16 Dec 2004

IC-30630P Lt Col KB Pradhan, AEC—16 Dec 2004

IC-30656K Lt Col B Bandyopadhyay, AEC—16 Dec 2004

IC-30976Y Lt Col Bimal Sarkar, AEC—16 Dec 2004

IC-30987L Lt Col VK Bhargava, AEC—16 Dec 2004

IC-32670P Lt Col UP Singh, AEC—16 Dec 2004

IC-33577A Lt Col Devendra Pal, AEC—16 Dec 2004

IC-34324X Lt Col BKD Sharma, AEC—16 Dec 2004

IC-35428L Lt Col HS Yadava, AEC—16 Dec 2004

IC-25588X Lt Col Suresh Ramtri, AOC—16 Dec 2004

IC-27525N Lt Col Shyam Murari Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-30232N Lt Col VK Prabhakar, AOC—16 Dec 2004

IC-30448P Lt Col Kanwal Jit Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-31182A Lt Col Pradip Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-31217L Lt Col Arvind Khare, AOC—16 Dec 2004

IC-31371K Lt Col US Rathore, AOC—16 Dec 2004

IC-31522X Lt Col RS Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-31531Y Lt Col TS Bhari, AOC—16 Dec 2004

IC-31821W Lt Col Dalbir Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-31845A Lt Col NK Gahlaut, AOC—16 Dec 2004

IC-33176L Lt Col JS Gill, AOC—16 Dec 2004

IC-33877F Lt Col Shashi Kumar, AOC—16 Dec 2004

IC-35128K Lt Col BS Chib, AOC—16 Dec 2004

IC-35263X Lt Col AK Deb, AOC—16 Dec 2004

IC-35539H Lt Col OP Yadav, AOC—16 Dec 2004

IC-35617P Lt Col Rajinder Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-35618X Lt Col Gian Chand, AOC—16 Dec 2004

IC-36064W Lt Col SK Saini, AOC—16 Dec 2004

IC-36773L Lt Col KP Kapoor, AOC—16 Dec 2004

IC-36780F Lt Col GK Chawla, AOC—16 Dec 2004

IC-36986Y Lt Col BD Banik, AOC—16 Dec 2004

IC-37148W Lt Col MS Prakash, AOC—16 Dec 2004

IC-37231N Lt Col Parmjit Singh, AOC—16 Dec 2004

IC-25474M Lt Col Rajan Dutta, Arty—16 Dec 2004

IC-25953N Lt Col KSV Krishnan, Arty—16 Dec 2004

IC-27056W Lt Col RS Gahlot, Arty—16 Dec 2004

IC-27369P Lt Col Aneesh Mehta, Arty—16 Dec 2004

IC-27783N Lt Col SK Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-30171F Lt Col Amitabh Negi, Arty—16 Dec 2004

IC-30209A Lt Col KP Sharma, Arty—16 Dec 2004

IC-30450M Lt Col JS Chauhan, Arty—16 Dec 2004

IC-30586W Lt Col BK Sharma, Arty—16 Dec 2004

IC-30747N Lt Col JS Pathania, Arty—16 Dec 2004

IC-30750N Lt Col Prabhat Kumar, Arty—16 Dec 2004

IC-30885P Lt Col Shailendra Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-30912N Lt Col Mandev Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-31019A Lt Col Rajeev Saxena, Arty—16 Dec 2004

IC-31028F Lt Col Shivdev Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-31054H Lt Col RK Jolly, Arty—16 Dec 2004

IC-31094K Lt Col VPS Chauhan, Arty—16 Dec 2004

IC-31462N Lt Col MS Kanwar, Arty—16 Dec 2004

IC-31467M Lt Col J Joseph, Arty—16 Dec 2004

IC-31500Y Lt Col PB Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-31746X Lt Col Satwant Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-31878L Lt Col SL Shinde, Arty—16 Dec 2004

IC-31893A Lt Col PY Bogar, Arty—16 Dec 2004

IC-33331F Lt Col DK Bhardwaj, Arty—16 Dec 2004

IC-33365P Lt Col KB Gupta, Arty—16 Dec 2004

IC-33456Y Lt Col RK Sen, Arty—16 Dec 2004

IC-33612X Lt Col S Sharma, Arty—16 Dec 2004

IC-33813W Lt Col RK Atreya, Arty—16 Dec 2004

IC-33942W Lt Col Rahul Raina, Arty—16 Dec 2004

IC-33979X Lt Col VK Malhotra, Arty—16 Dec 2004

IC-34077P Lt Col GS Lamba, Arty—16 Dec 2004

IC-34092K Lt Col VJ Johny, Arty—16 Dec 2004

IC-34140Y Lt Col DK Sarkar, Arty—16 Dec 2004

IC-34174M Lt Col Apurba Sikdar, Arty—16 Dec 2004

IC-34193X Lt Col HK Bhattacharya, Arty—16 Dec 2004

IC-34202N Lt Col BK Brohma, Arty—16 Dec 2004

IC-34233N Lt Col Barindar Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-34433K Lt Col Sukhvir, Arty—16 Dec 2004

|  |  |
|--|--|
| IC-34463F Lt Col PS Marwaha, Arty—16 Dec 2004      | IC-36500H Lt Col A Maitra, Arty—16 Dec 2004          |
| IC-34507M Lt Col DM Ray, Arty—16 Dec 2004          | IC-36534W Lt Col HM Jude, Arty—16 Dec 2004           |
| IC-34530F Lt Col AK Pant, Arty—16 Dec 2004         | IC-36537K Lt Col PV Ravindran, Arty—16 Dec 2004      |
| IC-34539W Lt Col CP Ramachandran, Arty—16 Dec 2004 | IC-36833P Lt Col Lakhvir Singh, Arty—16 Dec 2004     |
| IC-34562K Lt Col PK Das, Arty—16 Dec 2004          | IC-36852A Lt Col BK Sharma, Arty—16 Dec 2004         |
| IC-34582X Lt Col MC Govil, Arty—16 Dec 2004        | IC-36920H Lt Col PS Gupta, Arty—16 Dec 2004          |
| IC-34584H Lt Col R Vohra, Arty—16 Dec 2004         | IC-37051L Lt Col MPS Mainee, Arty—16 Dec 2004        |
| IC-34588Y Lt Col Madan Chaubey, Arty—16 Dec 2004   | IC-37188X Lt Col Satish Kumar, Arty—16 Dec 2004      |
| IC-34601X Lt Col AK Bose, Arty—16 Dec 2004         | IC-37290A Lt Col S Ganguly, Arty—16 Dec 2004         |
| IC-34603H Lt Col K Sasidharan, Arty—16 Dec 2004    | IC-30193A Lt Col AK Pandey, ASC—16 Dec 2004          |
| IC-34604L Lt Col SK Sinha, Arty—16 Dec 2004        | IC-30782W Lt Col RK Sahay, ASC—16 Dec 2004           |
| IC-34802W Lt Col SK Grover, Arty—16 Dec 2004       | IC-30849K Lt Col BS Kochar, ASC—16 Dec 2004          |
| IC-34835F Lt Col SK Misra, Arty—16 Dec 2004        | IC-31024L Lt Col HK Banerjee, ASC—16 Dec 2004        |
| IC-34871M Lt Col Devinder Kumar, Arty—16 Dec 2004  | IC-31620X Lt Col Pramod Kumar, ASC—16 Dec 2004       |
| IC-34923X Lt Col Rajeev Sood, Arty—16 Dec 2004     | IC-34222F Lt Col RK Talwar, ASC—16 Dec 2004          |
| IC-34990H Lt Col Hari Gurung, Arty—16 Dec 2004     | IC-34251W Lt Col NK Mahapatra, ASC—16 Dec 2004       |
| IC-35126Y Lt Col Dinesh Syal, Arty—16 Dec 2004     | IC-34640W Lt Col Ray Napier, ASC—16 Dec 2004         |
| IC-35196X Lt Col DP Singh, Arty—16 Dec 2004        | IC-34840M Lt Col RK Vohra, ASC—16 Dec 2004           |
| IC-35240W Lt Col SK Jetly, Arty—16 Dec 2004        | IC-35197A Lt Col AN Pandey, ASC—16 Dec 2004          |
| IC-35362A Lt Col KK Sahu, Arty—16 Dec 2004         | IC-35289M Lt Col Gurjit Singh Khera, ASC—16 Dec 2004 |
| IC-35497F Lt Col Jagdish SG Sura, Arty—16 Dec 2004 | IC-35305Y Lt Col Hartaj Singh, ASC—16 Dec 2004       |
| IC-35590H Lt Col R Chatterjee, Arty—16 Dec 2004    | IC-35348N Lt Col Narinder Kumar, ASC—16 Dec 2004     |
| IC-35616M Lt Col S Thennavan, Arty—16 Dec 2004     | IC-35701P Lt Col DV Deswal, ASC—16 Dec 2004          |
| IC-35689Y Lt Col Rajiv Kapur, Arty—16 Dec 2004     | IC-35769W Lt Col DC Goyal, ASC—16 Dec 2004           |
| IC-35749H Lt Col PSV Raman, Arty—16 Dec 2004       | IC-36101Y Lt Col MP Singh, ASC—16 Dec 2004           |
| IC-35875P Lt Col Jaspal Singh, Arty—16 Dec 2004    | IC-36474M Lt Col AK Sood, ASC—16 Dec 2004            |
| IC-36034Y Lt Col Sarabjit Singh, Arty—16 Dec 2004  | IC-36749P Lt Col VS Chaudhry, ASC—16 Dec 2004        |
| IC-36053K Lt Col Inderjit Singh, Arty—16 Dec 2004  | IC-37108P Lt Col Bahadur Singh, ASC—16 Dec 2004      |
| IC-36066F Lt Col Devnath, Arty—16 Dec 2004         | IC-37174X Lt Col DS Munda, ASC—16 Dec 2004           |
| IC-36117K Lt Col KS Tapia, Arty—16 Dec 2004        | IC-25477A Lt Col Manbir Singh, EME—16 Dec 2004       |
| IC-36174L Lt Col Gurpreet Singh, Arty—16 Dec 2004  | IC-27279N Lt Col GS Uppal, EME—16 Dec 2004           |
| IC-36323N Lt Col Kuldip Singh, Arty—16 Dec 2004    | IC-27607W Lt Col Mohan Singh, EME—16 Dec 2004        |
| IC-36402H Lt Col C Mohan, Arty—16 Dec 2004         | IC-30321M Lt Col Mahesh Chand, EME—16 Dec 2004       |
| IC-36405W Lt Col SS Choudhary, Arty—16 Dec 2004    | IC-30875L Lt Col Baldev Singh, EME—16 Dec 2004       |
| IC-36439K Lt Col JP Singh, Arty—16 Dec 2004        | IC-31269F Lt Col Ramesh Singh, EME—16 Dec 2004       |
| IC-36458P Lt Col Ved Parkash, Arty—16 Dec 2004     | IC-31296L Lt Col SR Deshpande, EME—16 Dec 2004       |
| IC-36460M Lt Col KS Sohi, Arty—16 Dec 2004         | IC-31308P Lt Col VK Bahal, EME—16 Dec 2004           |

- IC-31376H Lt Col MV Sundaram, EME—16 Dec 2004  
 IC-31571A Lt Col PK Malhotra, EME—16 Dec 2004  
 IC-31598XLt Col A Jagannarayanan, EME—16 Dec 2004  
 IC-31624L Lt col VB Hakim, EME—16 Dec 2004  
 IC-31760K Lt Col D Srivastava, EME—16 Dec 2004  
 IC-31923M Lt Col MS Preet, EME—16 Dec 2004  
 IC-31953K Lt Col PC Arya, EME—16 Dec 2004  
 IC-33768P Lt Col SG Goswamy, EME—16 Dec 2004  
 IC-33944F Lt Col RM Raizada, EME—16 Dec 2004  
 IC-33958F Lt Col Jagtar Singh, EME—16 Dec 2004  
 IC-34058K Lt Col SS Bisht, EME—16 Dec 2004  
 IC-34711M Lt col VK Tomar, EME—16 Dec 2004  
 IC-34734M Lt Col MC Tripathy, EME—16 Dec 2004  
 IC-35079M Lt Col PP Shibani, EME—16 Dec 2004  
 IC-35083P Lt Col Umakant Tiwari, EME—16 Dec 2004  
 IC-35087L Lt Col VS Rathee, EME—16 Dec 2004  
 IC-35397W Lt Col PN Shinghal, EME—16 Dec 2004  
 IC-35410P Lt Col DS Mehra, EME—16 Dec 2004  
 IC-35431L Lt Col AK Patoria, EME—16 Dec 2004  
 IC-35434Y Lt Col SK Singh, EME—16 Dec 2004  
 IC-35450W Lt Col SL Kumar, EME—16 Dec 2004  
 IC-35613Y Lt Col SK Yadav, EME—16 Dec 2004  
 IC-35806Y Lt Col Balaram Mandal, EME—16 Dec 2004  
 IC-35809M Lt Col Phannedra Kumar , EME—16 Dec 2004  
 IC-35830P Lt Col RC Bhardwaj, EME—16 Dec 2004  
 IC-35882L Lt Col Vasudev Lalwani, EME—16 Dec 2004  
 IC-35884W Lt Col AR Das, EME—16 Dec 2004  
 IC-35885Y Lt Col A Kulshrestha, EME—16 Dec 2004  
 IC-36161N Lt Col Rajendra Singh, EME—16 Dec 2004  
 IC-36333X Lt Col EK Sudhakaran, EME—16 Dec 2004  
 IC-36463A Lt Col V Bhalla, EME—16 Dec 2004  
 IC-36937W Lt Col Taranjit Singh, EME—16 Dec 2004  
 IC-37011K Lt Col Gautam Banerjee, EME—16 Dec 2004  
 IC-37074M Lt Col Bhaskar Roy, EME—16 Dec 2004  
 IC-38185W Lt Col SK Baunthiyal, EME—16 Dec 2004  
 IC-38188K Lt Col DK Sharma, EME—16 Dec 2004  
 IC-38210K Lt Col PK Bhalla, EME—16 Dec 2004  
 IC-38219Y Lt Col MK Nanda, EME—16 Dec 2004  
 IC-38235W Lt Col Ramakant Jha, EME—16 Dec 2004  
 IC-38249W Lt Col Prakash Chandra, EME—16 Dec 2004  
 IC-38260P Lt Col DK Singh, EME—16 Dec 2004  
 IC-38598A Lt Col RC Mathew, EME—16 Dec 2004  
 IC-38605L Lt Col Baljit Singh, EME—16 Dec 2004  
 IC-38611Y Lt Col R Raghavan, EME—16 Dec 2004  
 IC-38635H Lt Col BK Sinha, EME—16 Dec 2004  
 IC-39044N Lt Col JP Sahu, EME—16 Dec 2004  
 IC-39052M Lt Col AK Nanda, EME—16 Dec 2004  
 IC-39053P Lt Col BD Bhattacharya, EME—16 Dec 2004  
 IC-30297F Lt Col SK Nagaraj, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-30628X Lt Col JC Narula, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-30880W Lt Col RK Pattanaik, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-31106N Lt Col G Mazumdar, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-31171N Lt Col SK Bhatt, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-31590L Lt Col DC Mishra, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-33715W Lt Col P Sharma, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-33927F Lt Col Ashok Kumar Singh, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-34274X Lt Col Deepak Gopinath, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-34302Y Lt Col Sunil Kumar, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-34666L Lt Col KS Manhas, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-34688K Lt Col SP Sahukar, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-34696H Lt Col Prem Singh, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-34731A Lt Col PS Sogal, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-34987H Lt Col A Narayana, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35043N Lt Col Pankaj Sud, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35058W Lt Col Anoop Singh Arora, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35078K Lt Col KJS Aneja, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35399F Lt Col DK Prasad, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35402W Lt Col KN Chaube, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35436K Lt Col R Prasad Singh, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35448Y Lt Col S Acharya, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35456X Lt Col SK Srivastava, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35460A Lt Col C Balakrishnan, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35675Y Lt Col SC Khanna, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35804N Lt Col GY Tamboli, Engrs—16 Dec 2004  
 IC-35831X Lt Col VK Mudgal, Engrs—16 Dec 2004

|   |  |
|---|--|
| IC-35859X Lt Col SK Sharma, Engrs—16 Dec 2004       | IC-36602Y Lt Col AK Sanyal, Int—16 Dec 2004          |
| IC-35869F Lt Col DD Vinod Kumar, Engrs—16 Dec 2004  | IC-37185K Lt Col JP Singh, Int—16 Dec 2004           |
| IC-35881H Lt Col Satinder Singh, Engrs—16 Dec 2004  | IC-27400W Lt Col PK Mishra, Sig—16 Dec 2004          |
| IC-35886F Lt Col Narayan Parwani, Engrs—16 Dec 2004 | IC-30155K Lt Col Pradip Das, Sig—16 Dec 2004         |
| IC-36249X Lt Col RK Bhatt, Engrs—16 Dec 2004        | IC-30554N Lt Col VD Nawani, Sig—16 Dec 2004          |
| IC-36505F Lt Col B Dikshit, Engrs—16 Dec 2004       | IC-30851F Lt Col BK Deka, Sig—16 Dec 2004            |
| IC-36878P Lt Col MV Raj, Engrs—16 Dec 2004          | IC-31227P Lt Col Jagdev Singh, Sig—16 Dec 2004       |
| IC-36922N Lt Col RS Hari, Engrs—16 Dec 2004         | IC-31554A Lt Col Ramesh Kumar, Sig—16 Dec 2004       |
| IC-36957K Lt Col HS Jawa, Engrs—16 Dec 2004         | IC-31958H Lt Col Ram Kumar, Sig—16 Dec 2004          |
| IC-36987F Lt Col AK Anand, Engrs—16 Dec 2004        | IC-31960A Lt Col BMP George, Sig—16 Dec 2004         |
| IC-36994X Lt Col R Venkatesan, Engrs—16 Dec 2004    | IC-31977N Lt Col DD Darke, Sig—16 Dec 2004           |
| IC-37013P Lt Col Satish Kumar, Engrs—16 Dec 2004    | IC-31984K Lt Col PN Chandna, Sig—16 Dec 2004         |
| IC-37237P Lt Col M Arumugam, Engrs—16 Dec 2004      | IC-33305A Lt Col KB Uffa Kaul, Sig—16 Dec 2004       |
| IC-38216L Lt Col PK Chauhan, Engrs—16 Dec 2004      | IC-33865M Lt Col Jayanta Sarkar, Sig—16 Dec 2004     |
| IC-38218W Lt Col Parminder Singh, Engrs—16 Dec 2004 | IC-34289A Lt Col Raj Kumar Puni, Sig—16 Dec 2004     |
| IC-38223F Lt Col Balwinder Singh, Engrs—16 Dec 2004 | IC-34293H Lt Col Arjan Singh, Sig—16 Dec 2004        |
| IC-38244X Lt Col AK Battoo, Engrs—16 Dec 2004       | IC-34303F Lt Col SM Parulkar, Sig—16 Dec 2004        |
| IC-38245A Lt Col Dinesh Chandra, Engrs—16 Dec 2004  | IC-34328M Lt Col NK Atul, Sig—16 Dec 2004            |
| IC-38256M Lt Col Pran Mohan, Engrs—16 Dec 2004      | IC-34330L Lt Col Jatinder Kumar, Sig—16 Dec 2004     |
| IC-38259A Lt Col B Das, Engrs—16 Dec 2004           | IC-35032F Lt Col Khuman Lal Sahu, Sig—16 Dec 2004    |
| IC-38599H Lt Col Sailen Das, Engrs—16 Dec 2004      | IC-35334N Lt Col SV Nathan, Sig—16 Dec 2004          |
| IC-39036P Lt Col MK Jain, Engrs—16 Dec 2004         | IC-35437M Lt Col SK Singhal, Sig—16 Dec 2004         |
| IC-39045W Lt Col Pramod Sharma, Engrs—16 Dec 2004   | IC-35441P Lt Col R Shrivastava, Sig—16 Dec 2004      |
| IC-39403W Lt Col D Gupta, Engrs—17 Dec 2004         | IC-35774F Lt Col PDN Kishore, Sig—16 Dec 2004        |
| IC-39406K Lt Col RP Mund, Engrs—17 Dec 2004         | IC-35815A Lt Col Umakant Saxena, Sig—16 Dec 2004     |
| IC-39429L Lt Col SC Gupta, Engrs—17 Dec 2004        | IC-35824F Lt Col Narendra Kumar, Sig—16 Dec 2004     |
| IC-30742P Lt Col CMS Kalakoti, Guards—16 Dec 2004   | IC-35861P Lt Col NM Koshy, Sig—16 Dec 2004           |
| IC-35615K Lt Col PS Ranhotra, Guards—16 Dec 2004    | IC-35864H Lt Col TR Sharma, Sig—16 Dec 2004          |
| IC-35696P Lt Col Hemant Krishna, Guards—16 Dec 2004 | IC-36162W Lt Col RK Seth, Sig—16 Dec 2004            |
| IC-30024Y Lt Col PK Trivedi, Int—16 Dec 2004        | IC-36735P Lt Col RK Sangwan, Sig—16 Dec 2004         |
| IC-31214X Lt Col HO Saberwal, Int—16 Dec 2004       | IC-36930M Lt Col EJ Jayakannan, Sig—16 Dec 2004      |
| IC-31682X Lt Col NP Singh, Int—16 Dec 2004          | IC-37198F Lt Col MK Pande, Sig—16 Dec 2004           |
| IC-31752L Lt Col KLDG Rose, Int—16 Dec 2004         | IC-37267M Lt Col SV Wakhare, Sig—16 Dec 2004         |
| IC-33517L Lt Col Dipankar Dhar, Int—16 Dec 2004     | IC-38242M Lt Col S Kumar, Sig—16 Dec 2004            |
| IC-34631P Lt Col MV Adipuzha, Int—16 Dec 2004       | IC-38627K Lt Col PK Bajpai, Sig—16 Dec 2004          |
| IC-34967P Lt Col KA Singh, Int—16 Dec 2004          | IC-38639Y Lt Col VP Nautiyal, Sig—16 Dec 2004        |
| IC-35283L Lt Col R Sahu, Int—16 Dec 2004            | IC-39416N Lt Col SK Sharma, Sig—17 Dec 2004          |
| IC-36315P Lt Col R Mathews, Int—16 Dec 2004         | SL-02999K Lt Col J Chatterjee, SL (APTC)—16 Dec 2004 |
| IC-36597Y Lt Col AP Thomas, Int—16 Dec 2004         |  |

IC-27062K Lt Col Ganga Nand Jha, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-30329Y Lt Col Jyoti Vardhan, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-30889L Lt Col Kalyan Singh Bisht, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-31329L Lt Col PS Grewal, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-33001H Lt Col BS Rawat, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-34065A Lt Col SR Nikam, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-34173K Lt Col Mahesh Arora, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-34512Y Lt Col Sudhakar Parida, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-34848Y Lt Col MM Tudu, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-35682P Lt Col KS Jos, Mech Inf—16 Dec 2004

IC-37087K Lt Col PK Sharma, Mech Inf—16 Dec 2004

Maj to Lt Col

IC-43653 SM Kumar, Mech Inf

IC-43654 RS Kataria, Mech Inf

IC-43657 PD Naidu, Engrs

IC-43658 Hari Singh, Engrs

IC-43659 Sudhir Kumar, EME

IC-43660 Sanjay Babbar, AC

IC-43661 R Pillai B, EME

IC-43662 Sanjeev Munj, AC

IC-43663 N Dwivedi, Mech Inf

IC-43664 AK Soni, Engrs

IC-43665 Suhel Singh, AC

IC-43666 Balbir Singh, AC

IC-43667 Karanbir Singh Brar, AC

IC-43668 Sunil Kumar NV, Inf

IC-43669 Shiv Pal Singh, Inf

IC-43670 Amarjot Singh, AC

IC-43671 RK Chhikara, Inf

IC-43673 Gurjap Singh, Inf

IC-43674 Tejbir Singh, Mech Inf

IC-43675 SR Dhaga, Sig

IC-43676 Rajinder Singh, Inf

IC-43679 GPS Sisodiya, Inf

IC-43680 R Kapoor, AVN

IC-43682 AK Samantara, Inf

IC-43683 Niranjan Kumar, Arty

IC-43684 JB Chaudhari, Inf

IC-43685 Bhupender Singh, Inf

IC-43686 Sanjiv Rai, Inf

IC-43688 Kalyan Singh, Inf

IC-43689 PS Bajwa, Inf

IC-43690 Hardeep Singh Dhodi, AC

IC-43691 Bose VB, ASC

IC-43693 Ravinder Singh, AC

IC-43696 SJ Singh, AOC

IC-43697 DB Khattri, Inf

IC-43698 Shailendra Singh, Arty

IC-43699 GP Singh, Arty

IC-43701 MS Sharma, Arty

IC-43702 Patanjali Rahul, ADA

IC-43704 SQ Ahmed, Arty

IC-43705 BR Sharma, AOC

IC-43706 RK Sharma, Sig

IC-43707 AK Mazumdar, Arty

IC-43708 P Patnaik, Inf

IC-43709 BS Sandhu, Engrs

IC-43710 TK Aich, Inf

IC-43711 D Malhotra, Sig

IC-43712 ABK Sibal, Engrs

IC-43714 JM George, Arty

IC-43715 PK Singh, Inf

IC-43716 Rajwant Singh, Arty

IC-43717 Mukund Sharma, Engrs

IC-43718 DS Yadav, Inf

IC-43719 SS Dabas, Inf

IC-43720 Ajay Tripathi, AC

IC-43722 DK Singh, Inf

IC-43723 HK Pant, ASC

IC-43724 SK Chugh, ADA

IC-43725 MK Katiyar, Inf

IC-43726 Samarjit, Inf

IC-43727 Bahadur Singh, AOC

IC-43728 RB Biradar, Engrs

IC-43729 R Saksena, Inf

IC-43730 Vikrant Nayar, AC

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| IC-43731 S Pande, Inf         | IC-43774 MD Souza, Mech Inf           |
| IC-43732 Vikram Singh, Arty   | IC-43776 AK Rohilla, Inf              |
| IC-43733 AA Pol, Inf          | IC-43777 PP Oak, Arty                 |
| IC-43734 Yogesh Sehgal, Engrs | IC-43778 Ajay Kaila, EME              |
| IC-43735 JC Talukdar, Arty    | IC-43779 Alok Jain, Arty              |
| IC-43736 DK Nain, Arty        | IC-43780 D Banerjee, Inf              |
| IC-43737 R Thapar, Inf        | IC-43782 RP Sharma, Inf               |
| IC-43738 S Parthasarathy, Sig | IC-43783 KS Sharawat, Inf             |
| IC-43739 R Srivastava, Inf    | IC-43784 Digvijay Singh, Mech Inf     |
| IC-43740 D Chandola, Sig      | IC-43785 AK Kalia, Sig                |
| IC-43741 Yogesh Arya, EME     | IC-43786 Raise Alam Khan, AC          |
| IC-43742 Naresh Rana, Inf     | IC-43787 PV Janardhanan, Engrs        |
| IC-43743 RR Singh, Inf        | IC-43788 S Jaitly, AOC                |
| IC-43744 BD Joshi, Engrs      | IC-43789 V Muthanna, Inf              |
| IC-43745 Govind Singh, Inf    | IC-43790 Sanjay Singhal, Arty         |
| IC-43746 Adosh Kumar, Arty    | IC-43791 MU Reddy, Sig                |
| IC-43747 Sanjeev Dhillon, AC  | IC-43792 MS Reddy, Arty               |
| IC-43748 YS Redhu, Mech Inf   | IC-43793 JK Chaurasia, Inf            |
| IC-43749 MS Natu, ASC         | IC-43794 Sanjay Nand, Inf             |
| IC-43751 BS Anjla, Inf        | IC-43795 A Murugesan, Inf             |
| IC-43752 R Rajeev, Sig        | IC-43796 Samir Gupta, Arty            |
| IC-43753 SC Upreti, Arty      | IC-43797 Sunil Kumar VS, Arty         |
| IC-43754 RS Yadav, Inf        | IC-43798 BS Mavi, AOC                 |
| IC-43755 ACB Singh, Engrs     | IC-43799 VK Patpatia, Inf             |
| IC-43756 Sanjeev Langesh, Inf | IC-43800 Ravi Singh, Engrs            |
| IC-43757 Mathew Chacko, Arty  | IC-43801 Sanjay Bakshi, EME           |
| IC-43759 SB Kasar, Mech Inf   | IC-43802 RB Singh, Inf                |
| IC-43760 G Singh, Engrs       | IC-43803 SS Prabhu, Arty              |
| IC-43761 SS Sidhu, AC         | IC-43804 B Sharma, ASC                |
| IC-43762 Niren Bharti, Inf    | IC-43805 Atul Kochhar, Inf            |
| IC-43763 SP Tripathi, ADA     | IC-43809 Mahavir Singh, Inf           |
| IC-43765 N Singh, Inf         | IC-43810 V Arya, Arty                 |
| IC-43766 Ashutosh Kale, Inf   | IC-43811 Bishan Dutt, Inf             |
| IC-43767 R Srivastava, ADA    | IC-43812 P Talwar, ADA                |
| IC-43769 SK Saharan, Arty     | IC-43813 BK Bhal Singh, Inf           |
| IC-43770 Shashi Bhushan, Inf  | IC-43814 V Subramani, Engrs           |
| IC-43771 S Mohan, ADA         | IC-43815 C Sharma, AOC                |
| IC-43772 Ominder Singh, Inf   | IC-43816 KS Kataria, ASC              |
| IC-43773 Naresh Kumar, ASC    | IC-43817 Ninad Gangadhar Railkar, Sig |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| IC-43818 RN Pandey, Arty             | IC-43864 PM Rao, Arty          |
| IC-43819 AP Kumar, Inf               | IC-43865 Sanjay Pandey, Inf    |
| IC-43820 GS Reddy, Inf               | IC-43866 RK Kaushal, Arty      |
| IC-43821 NS Mangat, ASC              | IC-43867 AM Gade, Sig          |
| IC-43822 NR Babu, Inf                | IC-43868 Biswajit Das, Inf     |
| IC-43823 Satinder Singh, Inf         | IC-43869 Pradeep Kaul, Arty    |
| IC-43825 SKM Sreedharan, Engrs       | IC-43871 SK Jena, Inf          |
| IC-43826 R Anil Kumar, Arty          | IC-43873 MRP Kumar, Arty       |
| IC-43827 SS Narayanan, Engrs         | IC-43874 RK Yadav, AOC         |
| IC-43828 Ashok Kumar, Inf            | IC-43875 Vijay Mehta, Inf      |
| IC-43830 B Sebastian, Inf            | IC-43876 Manjeet NR, AC        |
| IC-43831 VN Khadilkar, Sig           | IC-43877 Rajinder Dewan, Inf   |
| IC-43832 Sukhjit Singh, Mech Inf     | IC-43878 U Sundaram, Inf       |
| IC-43833 Soumitra Kumar Kahali, Arty | IC-43879 SR Ahlawat, Arty      |
| IC-43834 Anand Kumar, Arty           | IC-43880 S Chaturvedi, ASC     |
| IC-43835 I Chatterjee, Inf           | IC-43881 SC Gupta, Arty        |
| IC-43837 Rajinder Kumar, Sig         | IC-43882 S Bhattacharya, Engrs |
| IC-43839 A Sharma, ADA               | IC-43883 S Sharma, ASC         |
| IC-43840 RB Patil, AOC               | IC-43884 Shri Raj Singh, Inf   |
| IC-43841 Gautam KN, Inf              | IC-43885 NK Singh, ASC         |
| IC-43842 MK Das, Inf                 | IC-43886 Sudhir Kumar, AVN     |
| IC-43843 Adish Yadav, Inf            | IC-43887 Sanshu Teri, ASC      |
| IC-43844 BS Nahal, Arty              | IC-43888 AKG Kamoji, Engrs     |
| IC-43845 S Singh, AOC                | IC-43890 KS Uppal, AOC         |
| IC-43846 Arun Kumar, Inf             | IC-43891 P Mehrotra, Inf       |
| IC-43847 P Jadeja, Engrs             | IC-43892 NPS Bana, Engrs       |
| IC-43849 JK Sharma, Arty             | IC-43893 N Diwanji, Mech Inf   |
| IC-43850 R Kumar, AOC                | IC-43894 V Bahadur, Inf        |
| IC-43851 Virender Singh, AC          | IC-43895 V Nair VS, ADA        |
| IC-43852 Vijaya Kumar R, Inf         | IC-43896 SPS Senger, Sig       |
| IC-43854 AD Sardana, EME             | IC-43897 S Sud, Inf            |
| IC-43856 MG Sekaran, Arty            | IC-43898 RS Hans, EME          |
| IC-43857 NK Jangley, Arty            | IC-43899 HM Maheshwari, Inf    |
| IC-43858 Manjit Kumar, Sig           | IC-43900 AS Rathod, Engrs      |
| IC-43859 HS Gill, ASC                | IC-43902 Satash Kumar, ADA     |
| IC-43860 MB Kadam, Int               | IC-43903 P Mukherjee, Inf      |
| IC-43861 PK Gangwani, ADA            | IC-43904 AP Singh, AOC         |
| IC-43862 Ajay Ahooja, Engrs          | IC-43906 RK Sharma, Arty       |
| IC-43863 S Pant, ADA                 | IC-43907 KK Sharma, Sig        |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| IC-43908 SP Vishwanath, AOC             | IC-43951 A Munshi, Engrs        |
| IC-43909 V Singh, ASC                   | IC-43952 S Ghosh, Inf           |
| IC-43911 Sanjay Kapur, Arty             | IC-43953 IJ Singh, Mech Inf     |
| IC-43912 S Tandon, ASC                  | IC-43954 SK Sangwan, Inf        |
| IC-43913 Bhramchettar Shivprasad, Engrs | IC-43957 AP Gupta, Arty         |
| IC-43914 RK Mahana, Inf                 | IC-43958 Bikram Singh, Inf      |
| IC-43915 AK Patra, Arty                 | IC-43959 SV Singh, Inf          |
| IC-43916 RK Talwar, AOC                 | IC-43960 PM Vasant, ADA         |
| IC-43917 SSS Rizvi, Arty                | IC-43961 Pravin Vikram, Inf     |
| IC-43918 Rajib Mandal, Inf              | IC-43962 Kochu KNK, Inf         |
| IC-43919 Bhoop Singh, Inf               | IC-43964 P Agnihotri, Engrs     |
| IC-43920 Dinesh Srivastava, Arty        | IC-43965 VP Singh, Inf          |
| IC-43921 Tapas Kumar Raj, Mech Inf      | IC-43966 Sanjay Kapoor, Engrs   |
| IC-43922 S Islam, Inf                   | IC-43967 KD Athlay, Arty        |
| IC-43923 Rajiv Kapoor, Inf              | IC-43969 Rakesh Juneja, Sig     |
| IC-43925 R Kothari, Inf                 | IC-43970 Rajnayaak Singh, AC    |
| IC-43926 AS Gill, ASC                   | IC-43971 Rajeev Sharma, Inf     |
| IC-43927 Ramesh Kumar, Inf              | IC-43972 A Sindhwani, AOC       |
| IC-43928 S Bhandari, Arty               | IC-43974 Alok Sharma, EME       |
| IC-43929 R Sachdeva, Mech Inf           | IC-43975 S Mehrotra, ADA        |
| IC-43931 Virender Singh, AOC            | IC-43977 A Krishnankutty, Inf   |
| IC-43932 Bhupal Kumar, Arty             | IC-43978 AN Tivary, Arty        |
| IC-43933 RS Kushwaha, Sig               | IC-43981 Sharad Kapur, Inf      |
| IC-43934 Ajit Kapoor, Arty              | IC-43982 Chander Shekhar, Engrs |
| IC-43935 Arun Pandey, Inf               | IC-43983 VS Sarma, ADA          |
| IC-43937 Sugathan VK, Inf               | IC-43984 N Malhotra, Arty       |
| IC-43938 Rakesh Wadhawan, Inf           | IC-43986 SK Samanta, Sig        |
| IC-43939 SB Herlekar, Engrs             | IC-43988 PK Walia, Inf          |
| IC-43940 Deepak Agarwal, ADA            | IC-43991 S Sivaraman, Arty      |
| IC-43941 RS Locham, ASC                 | IC-43993 RK Vanturu, ASC        |
| IC-43942 Avinash Singh, AC              | IC-44014 SV Singh, AEC          |
| IC-43943 S Khatri, Inf                  | IC-44019 B Bandopadhyaya, AOC   |
| IC-43944 VK Bahree, AVN                 | IC-44020 BS Prasad, AEC         |
| IC-43945 R Chahlan, AOC                 | IC-44036 Atul Rawat, Mech Inf   |
| IC-43946 S Das, EME                     | IC-44038 H Dharmarajan, Engrs   |
| IC-43947 T Banerjee, Sig                | IC-44039 S Jose, ADA            |
| IC-43948 D Choudhury, Inf               | IC-44040 RS Rawat, AOC          |
| IC-43949 JS Baxshi, AC                  | IC-44041 M Indrabalan, Engrs    |
| IC-43950 SB Singh, Sig                  | IC-44042 AR Bajpai, Mech Inf    |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| IC-44043 SM Bhardwaj, Engrs         | IC-44089 Manish Gulati, ADA          |
| IC-44044 Dhiraj Seth, AC            | IC-44090 Vinay Dhiman, Arty          |
| IC-44045 SK Prasad, Engrs           | IC-44091 Deepak Kajla, Inf           |
| IC-44046 JS Nanda, Inf              | IC-44092 Goutam Dey, Arty            |
| IC-44047 G Tripathi, Inf            | IC-44093 Guruwinder Singh Sidhu, Inf |
| IC-44048 PS Jaiswal, Engrs          | IC-44094 GS Grewal, EME              |
| IC-44050 MR Gautama, AC             | IC-44095 Anil Kumar Kashid, Arty     |
| IC-44051 DV Singh, Inf              | IC-44096 Akash Popli, EME            |
| IC-44052 RK Singh, Engrs            | IC-44097 Harjeet Singh, Sig          |
| IC-44053 P Mohandasan, ADA          | IC-44098 Sandeep Mahajan, ASC        |
| IC-44054 V Choudhary, Engrs         | IC-44099 Neeraj Varshney, EME        |
| IC-44055 VM Chandran, AC            | IC-44100 Vinay Mohan, Inf            |
| IC-44056 RS Yadav, EME              | IC-44101 Neeraj Kumar Keshab, EME    |
| IC-44057 Rajiv Mankotia, Inf        | IC-44103 Rajeel Singhle, Sig         |
| IC-44058 SK Das, ADA                | IC-44104 K Manoharan, Inf            |
| IC-44059 NB Paradkar, Inf           | IC-44105 P Dikshit, Sig              |
| IC-44060 Anil Gautam, ADA           | IC-44106 Indurkar Nitin Ram, Inf     |
| IC-44062 A Verma, Inf               | IC-44107 Pardeep Kumar, Inf          |
| IC-44063 A Arora, Inf               | IC-44108 SS Rathour, EME             |
| IC-44064 AK Agrawal, Arty           | IC-44109 Parveen Kumar, ASC          |
| IC-44065 Manjinder Singh, Inf       | IC-44110 PK Choudhary, Sig           |
| IC-44067 AN Jha, Inf                | IC-44111 Kirpal Singh, Arty          |
| IC-44068 D Deenadayalan, ASC        | IC-44112 Vivek Airi, Arty            |
| IC-44069 JM Singh, Inf              | IC-44113 Kabir, Inf                  |
| IC-44070 SP Malik, AOC              | IC-44115 Gobind Mathur, Inf          |
| IC-44071 R Negi, EME                | IC-44116 KL Khajuria, AOC            |
| IC-44072 K Bhardwaj, Arty           | IC-44117 HS Jamwal, ASC              |
| IC-44073 R Parkash, EME             | IC-44118 Manjit Singh, Inf           |
| IC-44074 SS Bakshi, Arty            | IC-44119 Rajneesh Akhoury, Inf       |
| IC-44076 Anil B Sindgi, Inf         | IC-44120 SS Dahiya, Inf              |
| IC-44079 MR Choudhury, Inf          | IC-44121 VN Sawant, Inf              |
| IC-44080 RK Singh, Inf              | IC-44122 Samir Khare, Arty           |
| IC-44081 P Rawat, EME               | IC-44123 Laxman Singh, Inf           |
| IC-44082 ARS Kahlon, AC             | IC-44124 Brijender Singh, Inf        |
| IC-44084 Ravi Dewan, ADA            | IC-44125 RS Bindra, AVN              |
| IC-44085 Atul Kasal, AC             | IC-44127 J Nanda Kumar, AC           |
| IC-44086 Rohit Mehrotra, Sig        | IC-44128 Arun Nair, Inf              |
| IC-44087 Sudeep Bhattacharjee, Arty | IC-44129 Sandeep Randev, ASC         |
| IC-44088 Rajwant Singh, Inf         | IC-44130 Dhyan Maya Dass, AC         |

|   |  |
|---|--|
| IC-44131 SK Jaswal, EME                 | IC-44180 Sanjay Tyagi, Inf               |
| IC-44132 Suresh Chandra, AOC            | IC-44181 Parvinder Singh, ADA            |
| IC-44133 Sanjeev Relia, Sig             | IC-44182 Rajiv Dua, Arty                 |
| IC-44134 NA Pradeep, Arty               | IC-44183 Satya Nidhi Tandon, Arty        |
| IC-44136 Ravi Dimri, Inf                | IC-44184 H Shankar, EME                  |
| IC-44137 Vivek Bhatt, Sig               | IC-44186 Arun Barman, ASC                |
| IC-44138 Sanjay Nadkarni, Inf           | IC-44187 Kishor Nathani, AOC             |
| IC-44140 SA Siddiqui, EME               | IC-44191 Sandeep Singh Dhadwal, Inf      |
| IC-44142 SD Mehta, Arty                 | IC-44193 Ranbir Singh, Inf               |
| IC-44143 Pawan Bajaj, Inf               | IC-44194 Akash Sachan, Engrs             |
| IC-44144 Kamesh Seth, Inf               | IC-44195 Ravinder Singh, AOC             |
| IC-44145 Chand Saroha, Inf              | IC-44196 Udai Nath Singh Yadav, Arty     |
| IC-44146 Sanjay Shrivastava, Arty       | IC-44197 Ranvijay Singh Jhala, Inf       |
| IC-44147 Jitendra Singh, Sig            | IC-44198 SK Badola, Engrs                |
| IC-44148 Sandeep Sabharwal, EME         | IC-44199 T Ramesh, EME                   |
| IC-44149 RK Singh, Inf                  | IC-44200 Deepak Saini, Inf               |
| IC-44150 NK Joshi, Arty                 | IC-44201 Inder Paul Singh, Inf           |
| IC-44151 Sudhir Philipose, ASC          | IC-44202 Arvind Kapoor, AC               |
| IC-44152 RS Walia, ADA                  | IC-44204 Ravi Sangwan, EME               |
| IC-44153 AM Madan, Inf                  | IC-44205 Ashok Thakur, EME               |
| IC-44155 M Ramesh, Inf                  | IC-44206 Volicheti Venkateswar Rao, Inf  |
| IC-44158 Abdul Razak Khadar, Arty       | IC-44207 Karyamsetty Sharoan Martin, Inf |
| IC-44159 Indranil Biswas, Inf           | IC-44208 Rajinder S Verma, Inf           |
| IC-44160 Vivek Matta, AOC               | IC-44209 Tarun Parashar, AOC             |
| IC-44161 J Bhardwaj, Engrs              | IC-44210 Narinder Singh, ADA             |
| IC-44162 Shery Peter, Inf               | IC-44211 IM Lamba, Arty                  |
| IC-44163 Manoj Monohar Tipnis, Engrs    | IC-44212 PK Verma, Sig                   |
| IC-44164 Gurbirinder Singh Shaheed, Inf | IC-44213 Aman Singh, Inf                 |
| IC-44168 Ashok Kumar Adhikari, Arty     | IC-44216 Amitava Mukherjee, EME          |
| IC-44169 Rajiv Kacker, Arty             | IC-44217 Rajinder Kumar J Kambale, AOC   |
| IC-44170 KV Atma Ram, Sig               | IC-44218 Ajay Malik, EME                 |
| IC-44171 Ambrish Malhotra, ASC          | IC-44221 Om Prakash Sumara, Inf          |
| IC-44172 Vinod Kumar Rai, Inf           | IC-44222 Naresh Kumar Sarotra, Inf       |
| IC-44173 Alok Tripathi, ASC             | IC-44223 Jag Mohan, Sig                  |
| IC-44174 Sandeep Ghuliani, Arty         | IC-44224 Rohit Butalia, Arty             |
| IC-44175 Limaye Suneel Moreshwar, Inf   | IC-44225 Jeffery MJ Valentine, EME       |
| IC-44176 Vikram Govind Pande, Inf       | IC-44226 Jagjit Singh Gill, Inf          |
| IC-44177 HDS Bist, Sig                  | IC-44227 M Ramesh MV Jogarao, Sig        |
| IC-44179 Raj Kumar, Inf                 | IC-44228 Vikram Singh, Inf               |

|   |  |
|---|--|
| IC-44229 Amit Sinha, Inf                    | IC-44275 P Ramesh, Arty                        |
| IC-44230 Naresh Jethwani, Int               | IC-44276 Sunil N Purohit, AOC                  |
| IC-44231 SK Nanda, ASC                      | IC-44277 MS Shergill, AOC                      |
| IC-44232 Rajat Mathur, Inf                  | IC-44278 Tapiswer Singh, Engrs                 |
| IC-44233 DP Nautiyal, Engrs                 | IC-44279 Sanjay Goswami, Arty                  |
| IC-44234 KS Bhadwal, Mech Inf               | IC-44280 Jaidev Singh Samyal, AC               |
| IC-44235 VK Haryal, Arty                    | IC-44281 Gautama Dutta, Inf                    |
| IC-44237 Ravendra Donald Rodney, AVN        | IC-44282 Sharanjit Singh, Inf                  |
| IC-44238 Anand Misra, Arty                  | IC-44283 Amar Singh, Sig                       |
| IC-44239 Preet Mohindera Singh, ASC         | IC-44284 S Guruprasad, Arty                    |
| IC-44240 Jiwan Chandra, Arty                | IC-44285 Sunil K Mehta, EME                    |
| IC-44243 Sanjay Rathaur, Engrs              | IC-44286 Pranvendra Kumar, EME                 |
| IC-44244 Sunil Wason, EME                   | IC-44287 Amit Tripathi, Inf                    |
| IC-44246 S Mishra, AC                       | IC-44288 Ujjal Singh, Inf                      |
| IC-44247 Sanjay Kapoor, Engrs               | IC-44289 Aman Singh Yadav, ASC                 |
| IC-44248 Raj Singh, Inf                     | IC-44290 Arvind Grover, ASC                    |
| IC-44249 VK Chaswal, ASC                    | IC-44291 Shaji CV, Arty                        |
| IC-44250 Rajnish Sinha, AC                  | IC-44292 Tarun Chhibber, Arty                  |
| IC-44251 Sandeep Sudan, Mech Inf            | IC-44293 KS Dalal, Sig                         |
| IC-44254 Naginder Singh, Engrs              | IC-44294 Prabhat Agarwal, Arty                 |
| IC-44255 Vinay Parashar, Arty               | IC-44295 Gadde Venkata Badari Sai Shanker, Inf |
| IC-44256 Krishan Bishamber Nath Yadava, Inf | IC-44297 Sandeep Dhingra, Sig                  |
| IC-44257 Arun Kumar Tripathi, Inf           | IC-44299 Jagdish Jaysingh Rao Gadekar, Int     |
| IC-44258 Girish Suri, Sig                   | IC-44300 VK Yadav, ADA                         |
| IC-44259 Krishan Mohan Poduri, Inf          | IC-44301 Harjinder Singh, EME                  |
| IC-44260 Sudhakar Srivastava, EME           | IC-44302 Narinder Singh, Mech Inf              |
| IC-44261 Brij Gopal, Inf                    | IC-44303 Krishna Kumar, Inf                    |
| IC-44262 Balgopal Singh Chauhan, AOC        | IC-44304 SS Chauhan, Inf                       |
| IC-44263 Deepak Tyagi, Sig                  | IC-44305 Sanjay Kumar, Arty                    |
| IC-44264 A Verma, Sig                       | IC-44306 RR Negi, Engrs                        |
| IC-44265 Chandra Nath Banerji, ADA          | IC-44307 PA Samy, Inf                          |
| IC-44266 Animesh Ganguly, Arty              | IC-44308 GS Kattaura, AC                       |
| IC-44267 Pawan Pratap Singh, ASC            | IC-44310 Rajeev Kakkar, AC                     |
| IC-44268 Rajeev Bhatia, EME                 | IC-44311 Sunil Kutty, EME                      |
| IC-44270 PS Nikam, Inf                      | IC-44312 Sameer Jain, Engrs                    |
| IC-44271 Bhubaneshwar Singh Yadav, Inf      | IC-44313 SS Dagar, AOC                         |
| IC-44272 Gurjinder Pal Singh Virk, Arty     | IC-44314 NC Tiwari, ASC                        |
| IC-44273 SK Satpathy, Inf                   | IC-44315 Anil Kumar, AOC                       |
| IC-44274 RK Aggarwal, Arty                  | IC-44316 AK Pandey, ASC                        |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| IC-44317 MK Jain, Arty             | IC-44361 Bhim Giri Goswami, Inf      |
| IC-44318 Pankaj Kumar, Inf         | IC-44362 Binay Kumar Singh, Sig      |
| IC-44320 YS Parmar, EME            | IC-44363 Rajender Kumar, AOC         |
| IC-44321 PVS Narayanan, Engrs      | IC-44364 S Venkataraman, Arty        |
| IC-44323 KV Vithal, EME            | IC-44365 SP Vashist, EME             |
| IC-44324 Vijay Narendra Gawde, Inf | IC-44367 Glen John D' Cruz, AOC      |
| IC-44325 Rakesh Kumar Sharma, Sig  | IC-44369 Raj Pal Singh Malik, AC     |
| IC-44326 Satyen Anand, ADA         | IC-44370 Prabh Preet Mallhi, AOC     |
| IC-44327 Sui Khan, Arty            | IC-44371 Anil Sharma, EME            |
| IC-44328 SS Ahlawat, Inf           | IC-44372 Hemant Kakar, Arty          |
| IC-44329 D Mohapatra, Mech Inf     | IC-44373 B Shashi Dhar, Engrs        |
| IC-44330 MM Ramchandra, Inf        | IC-44374 Ranbir Singh, Int           |
| IC-44331 Prason Singh, Arty        | IC-44375 Sanjeev Pandit, ASC         |
| IC-44333 M Shashidhar Rao, Inf     | IC-44376 Anil Misra, AC              |
| IC-44334 Sanal Kumar AV, AOC       | IC-44377 Atul Chaudhari, Arty        |
| IC-44335 Prashant Kumar, Arty      | IC-44378 Lanka Srinivas, Inf         |
| IC-44336 SS Dhaliwal, Inf          | IC-44379 Alok Narain, Inf            |
| IC-44337 Manoj Bhardwaj, Inf       | IC-44380 Manu Raj Singh, Inf         |
| IC-44338 R Anand, AC               | IC-44381 Sant Pal, ASC               |
| IC-44339 Abraham, Int              | IC-44382 Uttam Mukherji, Engrs       |
| IC-44340 R Bali, EME               | IC-44383 Shailendra Kumar Singh, Inf |
| IC-44341 Narendra Singh, AC        | IC-44384 Sunit Issar, Inf            |
| IC-44342 SS Blouria, Inf           | IC-44385 Sushant Kulshreshtha, Sig   |
| IC-44343 D Kumar, Arty             | IC-44386 Sanjay Randev, Inf          |
| IC-44344 KS Sandhu, Inf            | IC-44387 Amit Atrey, ADA             |
| IC-44346 Tejinder Jaggi, EME       | IC-44388 Atul Kumar Holkar, ASC      |
| IC-44347 Leeladhara Sharma, Arty   | IC-44389 Kuldeep Kumar Chowdhri, AOC |
| IC-44348 Amit Jha, Mech Inf        | IC-44391 KK Datta, Arty              |
| IC-44349 Vikramjit Gupta, Arty     | IC-44392 A Kumar, Inf                |
| IC-44350 AK Sharma, ADA            | IC-44393 Sanjay Kapoor, Arty         |
| IC-44351 Subodh Kumar, Inf         | IC-44394 KS Kavia, Inf               |
| IC-44352 JS Shekhawat, ASC         | IC-44396 NK Rawat, Sig               |
| IC-44353 Virendra Sharma, AOC      | IC-44398 R Kumar, Engrs              |
| IC-44354 DK Yadav, Engrs           | IC-44399 Ashok Sharma, AOC           |
| IC-44355 RPS Ahluwalia, Engrs      | IC-44400 Atul Tyagi, Arty            |
| IC-44356 Ranjan Kumar, AOC         | IC-44401 JS Marwa, Arty              |
| IC-44357 ADS Badwal, ASC           | IC-44402 VS Kadyan, Inf              |
| IC-44359 A Trivedi, Arty           | IC-44403 Sanjay Khanna, ASC          |
| IC-44360 Sanjay Talwar, Sig        | IC-44406 SN Shekhar, Int             |

|  |   |
|--|---|
| IC-44407 Pradeep Misra, Sig              | IC-45635 V Alex Chandran, Inf                     |
| IC-44408 Sanjiv Sharma, Arty             | IC-45636 Vivek Razdan, Inf                        |
| IC-44409 Venu Gopal, AOC                 | IC-45637 Ravi Kant Gupta, Mech Inf                |
| IC-44410 SK Gupta, Arty                  | IC-45639 Noel Goodwin, AC                         |
| IC-44411 Sukhvinder Singh, Arty          | IC-45641 Rajender Sachdev, Inf                    |
| IC-44412 Sanjay Kumar, Inf               | IC-45642 Venkatesha Reddy Ga, Inf                 |
| IC-44414 Anand Bhushan, Inf              | IC-45644 Samit Kumar Saha, Inf                    |
| IC-44416 Rajiv Sah, Inf                  | IC-45645 Krishna Kishore Prasad, Mech Inf         |
| IC-44417 RK Dahiya, Inf                  | IC-45646 Alok Singh, Inf                          |
| IC-44418 BK Sinha, AOC                   | IC-45647 Alok Parmar, AC                          |
| IC-44420 MS Singh, Arty                  | IC-45648 Sandeep Khanna, Arty                     |
| IC-44421 Tapas Kumar Chanda, ASC         | IC-45649 Santosh Kumar Mishra, Sig                |
| IC-44422 Rommel Rajain, Inf              | IC-45650 Sanjay Swarup Kapur, EME                 |
| IC-44423 Arun Deshpande, ASC             | IC-45651 Devendra Singh S Mankoti, Inf            |
| IC-45608 Rakesh Choudhary, AC            | IC-45652 Sumit Kumar K Daw, Engrs                 |
| IC-45609 Hardayal Chauhan, Mech Inf      | IC-45653 Jaideep Singh Dayal, Mech Inf            |
| IC-45610 P Sathyanath, EME               | IC-45654 Yash Pal Singh, Sig                      |
| IC-45611 Harinder Pal Singh, Arty        | IC-45655 Praveen Chauhan, Inf                     |
| IC-45612 Dilip Singh Shekhawat, Inf      | IC-45656 Udit Jain, Inf                           |
| IC-45614 S Narasimhan, AC                | IC-45658 Rahul Prakash, AC                        |
| IC-45615 Paramjit Singh, Inf             | IC-45660 Anil Kumar Chauhan, AC                   |
| IC-45616 Rajinder Singh Randhawa, Engrs  | IC-45663 Menon Satish Kumar Prabhakaran, Mech Inf |
| IC-45617 Shakti Singh Rana, AC           | IC-45666 Mudit Sharma, Inf                        |
| IC-45618 Jojan Thomas, Inf               | IC-45667 Jyoti Kumar Bose, Int                    |
| IC-45619 Shalendra Singh Katariya, EME   | IC-45670 Rajender Prasad, EME                     |
| IC-45620 Sumant Bhattacharya, Mech Inf   | IC-45671 Prashanta Kumar Das, Inf                 |
| IC-45621 Charan Bir Singh, Mech Inf      | IC-45672 Tarun Madan, EME                         |
| IC-45622 Vinay Bahl, Inf                 | IC-45675 Hari Singh, ADA                          |
| IC-45623 Sanjeev Nagpal, EME             | IC-45676 Sushil Kumar, Inf                        |
| IC-45624 Yash Vardhan Singh Chauhan, ADA | IC-45677 Sunil Kumar, Inf                         |
| IC-45625 Ashok Kumar Rao, Inf            | IC-45678 Anil Kumar S Charan, ASC                 |
| IC-45626 Chander Shekhar, Inf            | IC-45679 Parakanal George Vinod, EME              |
| IC-45627 Kartar Singh Sirohi, Inf        | IC-45680 Nagendra Singh, Inf                      |
| IC-45628 Pravesh Kumar Malhotra, AC      | IC-45681 Kuldeep Singh Gahlaut, AC                |
| IC-45629 Bhartinder Kesar, Mech Inf      | IC-45682 Saugato Das, Inf                         |
| IC-45630 Krishan Chand Saklani, Inf      | IC-45683 Azim Rafat Ehsan, AC                     |
| IC-45631 Arun Kumar Sharma, Int          | IC-45684 Vismay Vyas, EME                         |
| IC-45632 Digvijay Singh Rathore, AC      | IC-45685 Kaluvakolan Bhushan, Inf                 |
| IC-45633 Navin Sud, Inf                  | IC-45686 Subash Chander Sipehiya, Inf             |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| IC-45687 Dinesh Anand, Arty           | IC-45735 Vijay Pal Singh Negi, AOC   |
| IC-45688 Salil Sharma, AC             | IC-45737 Abhiram Chandra Mishra, Sig |
| IC-45689 Mario Dimonty, AC            | IC-45739 Dinesh Gaur, Engrs          |
| IC-45690 Sumit Katyal, Inf            | IC-45741 Sanjay Bakshi, AC           |
| IC-45691 R Sreekumar Nair, Inf        | IC-45742 Gautam Kumar Deb, AOC       |
| IC-45692 Manoj Mohan, Inf             | IC-45743 Rakesh Kumar Gautam, Inf    |
| IC-45693 K Lawrence, Inf              | IC-45744 Vinay Kumar Varma, Sig      |
| IC-45694 Rohit Goswami, AOC           | IC-45745 Vikram Bhasin, Inf          |
| IC-45696 Alex Thomas, Inf             | IC-45746 Rajneesh Kumar Kakria, EME  |
| IC-45698 Manoj Kumar Yadav, Engrs     | IC-45747 Sanjeev Mehra, Inf          |
| IC-45699 Vishwas Sripal Deoskar, AC   | IC-45748 Anil Kumar Rawat, EME       |
| IC-45700 Pitchiah Ramachandran, EME   | IC-45750 Raj Singhs Mann, Engrs      |
| IC-45701 Mattapallil John Jacob, ASC  | IC-45751 Mahavir Singh Rawat, ASC    |
| IC-45702 Trimohan Vikram Singh, Sig   | IC-45752 Jai Singh Hada, Inf         |
| IC-45705 Sanjeev Bhattacharjee, AC    | IC-45753 Narendra Singh Jhala, AC    |
| IC-45706 Rajendra Singh Khatri, Inf   | IC-45754 Pradeep Kotnala, Inf        |
| IC-45707 Vijay Kumar Singh, AC        | IC-45755 Rakesh Sircar, Inf          |
| IC-45708 Kabir Dubey, Inf             | IC-45756 Bhim Shankar Hippargi, Inf  |
| IC-45709 Ashwini Kumar Tyagi, Inf     | IC-45757 Sreekumar G Kartha, Inf     |
| IC-45710 Jagdish Singh Salaria, Inf   | IC-45758 Rajesh Jain, Sig            |
| IC-45711 Vijender Singh Ahlawat, AOC  | IC-45759 Sudhakara Babu Thota, AC    |
| IC-45712 Devendra Singh, Jag          | IC-45760 Kalathil Dinesh, Inf        |
| IC-45713 SN Sastry, Sig               | IC-45761 Shakti Prasad Kaushal, ASC  |
| IC-45714 Yogender Singh Gahlaut, AOC  | IC-45762 Sanjay Newar, Inf           |
| IC-45715 Paramdeep Thapa, Mech Inf    | IC-45763 Pravin Kumar, EME           |
| IC-45716 Ajay Singh Khatri, Inf       | IC-45764 Jatinder Singh, Inf         |
| IC-45718 Bipra Das Saha, Arty         | IC-45765 Jatinder Singh, Jag         |
| IC-45720 Rajbeer Singh Khangarot, Inf | IC-45767 Narinder Singh, Inf         |
| IC-45721 Amarnath Vijayan, Inf        | IC-45768 Arun Kumar Kohli, EME       |
| IC-45722 Anil Kumar Nair, Sig         | IC-45769 Ramesh Prasad Sharma, Sig   |
| IC-45723 Gary Peter Route, Inf        | IC-45770 Dinesh Kumar Ahluwalia, Jag |
| IC-45724 Sudhir Kumar Singh, Inf      | IC-45771 Sanjeev Lama, AC            |
| IC-45725 Pcyush Bohra, AOC            | IC-45773 Jacob Prem Kumar Kotti, AC  |
| IC-45727 John Louis Raj, Inf          | IC-45774 Vijay Khanna, Inf           |
| IC-45728 Anil Dass, Inf               | IC-45775 Sanjiv Banerjee, EME        |
| IC-45730 Sandeep Dewan, AC            | IC-45776 Arana Prasad S, Arty        |
| IC-45731 Sukhdev Rathore, AC          | IC-45777 Atulesh Saran Mathur, Engrs |
| IC-45732 Srikanta Banerjee, Inf       | IC-45778 Ajay Sandeep, AC            |
| IC-45733 Sushim Sinha, EME            | IC-45779 Praveen Chandra Pathak, Inf |

IC-45780 Ravi Mahan Kapoor, Sig

IC-45781 DK Dubey, Inf

IC-45782 Kartik Kumar Rajwanshi, Jag

IC-45783 Sutanu Acharya, EME

IC-45784 Vishnu Das Chand, Inf

IC-45785 Nazim Riazuddin Saiyed, AC

IC-45787 Vipin Chakrawarti, Jag

IC-45788 Nathaniel Christopher Issac, EME

IC-45789 Anilendra Nath Sen, Inf

—16 Dec 2004—

## PERMANENT COMMISSION (SL)

Maj to Lt Col

Pers No., Name and Arm

SL-03691 Venkatanarayana Subba Krishna, SL (BR)

SL-03694 Sukhdev Raj Dhand, SL (BR)

SL-03695 Mahipal Singh, SL (QM)

SL-03696 Lakshmanan Velikkath, SL (BR)

SL-03697 Subhash Kumar, SL (BR)

SL-03698 Tej Bhan, SL (BR)

SL-03700 Ganesh Nath Bhandari, SL (TOT)

SL-03702 Jhirmal Jit Singh, SL (TOT)

SL-03703 Devendra Singh, SL (TOT)

SL-03705 Pravakar Das, SL (TOT)

SL-03707 Mohmmod Yakoob, SL (AE)

SL-03708 Ram Dass, SL (APTC)

SL-03709 Chain Singh, SL (AE)

SL-03710 Kanacheril Mathew Koshy, SL (TOT)

SL-03712 Bhupinder Singh Chandel, SL (AE)

SL-03714 Radha Raman Shrivastava, SL (TOT)

SL-03716 Vinayak Mahadeo Thosar, SL (QM)

SL-03717 Bhole Datt Barshilia, SL (AO)

SL-03718 Chander Pal Singh Siwach, SL (AE)

SL-03719 Karna Prakash Rai, SL (QM)

SL-03720 Rayappan Arokia Samy, SL (TOT)

SL-03721 Abhilash Singh, SL (TOT)

SL-03722 Santosh Raj, SL (AE)

SL-03723 Sambasivan Pillai S, SL (ARC)

SL-03724 Bhim Bahadur, SL (QM)

SL-03725 Shinde Suresh Balwant Rao, SL (QM)

SL-03726 Natchi Muthu Sakthivel, SL (TOT)

SL-03727 Gurbachan Singh Turg, SL (AE)

SL-03729 Charu Kutty B SL (AE)

SL-03730 Sarwan Kumar, SL (TEO)

SL-03731 Ram Lal Ram, SL (AE)

SL-03732 Som Nath, SL (AE)

SL-03733 Muraleedharan T, SL (AE)

SL-03736 Jagmal Singh SL (AE)

SL-03737 Prem Singh, SL (CIP)

SL-03738 Valivaveetil Thomas Joy, SL (CIP)

SL-03739 Ganesh Dutt Joshi, SL (CIP)

SL-03740 Shamsher Singh, SL (CIP)

SL-03741 Kalamkar Vishwanath Tulshiram, SL (CIP)

SL-03742 Kunju Kunjujohn, SL (CIP)

SL-03743 Thomas Kutty Assri, SL (CIP)

SL-03744 Shis Ram Yadav, SL (CIP)

SL-03745 Bharat Singh, SL (CIP)

SL-03746 Nikhil Chandra Deogharia, SL (QM)

SL-03747 Onkar Nath Tiwari, SL (RO)

SL-03750 Piaralal Choudhary, SL (RO)

SL-03752 Lehna Singh SL (RO)

SL-03755 Sitaramaiah Nagula, SL (AE)

SL-03756 Ganga Lal Rayar, SL (RO)

SL-03757 Piara Singh, SL (QM)

SL-03758 Pradip Kumar Haldar, SL (RO)

SL-03759 Govinda Narayan Samy, SL (RO)

SL-03760 Pundaleekappa Medar, SL (AE)

SL-03762 Kaman Singh Gurung, SL (TEO)

SL-03764 Ram Prasad Dimri, SL (QM)

SL-03765 Dina Nath Sharma, SL (RO)

SL-03766 Harmesh Singh, SL (RO)

SL-03768 Chandran KV, SL (QM)

SL-03769 Babar Shivaji Shripati, SL (APTC)

SL-03770 Narinder Singh, SL (QM)

SL-03771 Rattan Singh, SL (QM)

SL-03772 Bhaga Ram Chharang, SL (RO)

SL-03773 Mukhtear Singh Mann, SL (RO)

SL-03774 Subhash Chand, SL (RO)

SL-03775 Sreedharan V, SL (RO)

SL-03776 Ombir Singh Dhaka, SL (TEO)  
 SL-03777 Ram Dass Bhardwaj, SL (RO)  
 SL-03778 Subhash Raj SL (QM)  
 SL-03779 Shiv Kumar Sharma SL (RO)  
 SL-03780 Gurmeet Singh, SL (RO)  
 SL-03781 Tarlok Singh Bajwa, SL (QM)  
 SL-03782 Sasi Kumar KN, SL (RO)  
 SL-03783 S Chellappa, SL (RO)  
 SL-03784 Mohan Singh Waldia, SL (RO)  
 SL-03785 Man Madhan Nair P, SL (RO)  
 SL-03786 Surjapal Singh Shekhawat, SL (APTC)  
 SL-03787 Pradeep Kumar Das Gupta, SL (RO)  
 SL-03789 Partha Mazumder SL (RO)  
 SL-03791 Rameshwar Singh Gannu Sing Bundela SL (QM)  
 SL-03792 Vijayan Pillai N, SL (QM)  
 SL-03793 Avtar Singh Minhas, SL (QM)  
 SL-03795 Ramesh Chander, SL (RO)  
 SL-03796 Jogendra Singh Verma, SL (RO)  
 SL-03797 Yadram Singh Yadav, SL (RO)  
 SL-03798 Chandra Sekharan Pillai Prabhakaran Pillai,  
 SL (AE)  
 SL-03800 Hukam Singh, SL (AE)  
 SL-03801 Sanjay Kumar Mandal, SL (AE)  
 SL-03802 Dhyaan Chand Verma, SL (AE)  
 SL-03804 Sasidharan MK, SL (AE)  
 SL-03808 Ajit Singh, SL (AE)  
 SL-03809 Ashok Kumar Hatua, SL (AE)  
 SL-03810 Bhide Suneel Vasudeo, SL (AE)  
 SL-03811 Balkar Singh Virk, SL (AE)  
 SL-03812 Setendra Narayan Singh, SL (AE)  
 SL-03813 Jagjit Singh, SL (AE)  
 SL-03814 Bhawan Kumar, SL (AE)  
 SL-03815 Mehar Singh, SL (AE)

SL-03817 Satnam Singh, SL (AE)  
 SL-03819 Sonara Vasant, SL (SA)  
 SL-03821 Om Prakash Awasthi, SL (SA)  
 SL-03822 Jai Prakash Singh, SL (SA)  
 SL-03823 Sandhya Dutt, SL (SA)  
 SL-03824 Omesh Pal Rampal, SL (EM)  
 SL-03826 Prafulla Kumar Pal, SL (SA)  
 SL-03827 Rajesh Kumar Sharma, SL (SA)  
 SL-04300 AK Dey, SL (APTC)

—16 Dec 2004—

AJAY GOEL  
 Dy. Dir.  
 MS-8

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 388 dated 11th July 2005.—The President is pleased to permit Gen Nirmal Chander Vij, PVSM, UYSM, AVSM (IC-13710) to relinquish the appointment of colonel of 61 Cavalry and Honorary Colonel of Brigade of Guards with effect from 31 Jan 2005 (A/N).

N MARIAPPAN  
 Jt. Dir/MS (X)

#### ARMY BRANCH

No. 389, dated 12th July 2005.—The undermentioned Officers is awarded the following punishment by the GOC-in-C, Central Command.

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

IC-56721 Lt Cherukuri Rama Rao, Arty

(a) To be dismissed from service.

—23 Feb 2004—

AJAY GOEL  
 Dy. Dir.  
 MS-8C